



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O 110
K.M-12
CPB-98

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5—अप्रैल 11, 2008 (चैत्र 16, 1930)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5—APRIL 11, 2008 (CHAITRA 16, 1930)

पूरा किया

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

प्रतारी

एक विन एक

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 22 जनवरी 2008

सं. ए.-32014/2/2006-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.01.2008 के का.जा.सं. 5/8/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-'ग' को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 31.12.2007 से तदर्थ नियुक्ति को और छः माह की अवधि के लिए अर्थात् 30.06.2008 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सं.लो.से.आ. के संवर्ग में के.सचि.आ.से. संवर्ग 'क' एवं 'ख' विलयित ग्रेड-I (निजी सचिव के रूप में नामोदिष्ट) को जारी रखते हैं :--

1. सुश्री मुक्ता मक्कड़
2. सुश्री कुसुम बुद्धिराजा
3. श्री सी.के. परमेश्वरन
4. श्री एस.एल. भुट्टन
5. सुश्री रेणु कोहली
6. श्री वीरेंद्र कुमार

7. श्री गोपाल राजवाने
8. सुश्री संतोष आनंद
9. श्री आई.एस. कटारिया
10. श्री आज़ाद सिंह यादव
11. श्री गुरदेव सिंह
12. श्री गुरशरण सिंह
13. श्री बी. एस. जौली
14. श्री पी.के. खेड़ा
15. सुश्री मंजू अरोड़ा
16. श्री रमेश कुमार कपूर
17. श्री प्रेम कुमारेन वी. के.
18. श्री अमरजीत सिंह
19. श्री पी. वी. पार्थसारथी
20. श्री वी. के. गुप्ता
21. श्री विनय कुमार

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

- I. तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा के.सचि.आ.से. संवर्ग के 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- II. तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 18 फरवरी 2008

सं. पी.-1860-प्रशा.-I---राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के के. सचि.आ.से. संवर्ग के प्रधान निजी सचिव श्री बी.एस. घुम्नन को रु. 12,000-375-16,500 के वेतनमान में 13 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से 30.6.2008 तक या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सं.लो.से.आ. के के.सचि.आ.से. संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में श्री बी.एस. घुम्नन की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या के.सचि.आ.से. संवर्ग के वरिष्ठ निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. यह का. एवं प्रशि. वि. के दिनांक 22 अक्टूबर, 2007, 20 दिसम्बर, 2007 तथा 11 फरवरी, 2008 के का.ज्ञा.सं. 5/5/2007-सी. एस.-II के अनुसरण में जारी किया जाता है।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए.-19016/02/2007-प्रशा.-I---कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 5 नवम्बर, 2007 तथा 17 दिसम्बर, 2007 के का.ज्ञा.सं. 5/6/2007-सी.एस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड-"क" एवं "ख" (विलयित) श्री अशोक कुमार को सं. लो.से.आ. के के.सचि.आ.से. संवर्ग में 12 दिसम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से 30.06.2008 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के रूप में श्री अशोक कुमार की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा ग्रेड में उन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने या के.सचि.आ.से. संवर्ग (प्रधान निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 19 फरवरी 2008

सं. ए.-12011/2/98-प्रशा.-I---राष्ट्रपति, के.सचि.आ.से. संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) को रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 31.12.2007 से तदर्थ आधार पर और छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 30.6.2008 तक या चयन सूची अधिकारियों के उपलब्ध होने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सं.लो.से.आ. के संवर्ग में के.सचि.आ.से. संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव) में नियुक्त करते हैं :—

1. सुश्री एस. एम. ओबराय
2. श्री एस. सी. सहगल
3. श्री एस. एस. शर्मा

2. प्रधान निजी सचिव के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या के.सचि.आ.से. संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. यह का. एवं प्रशि. वि. के दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 के का. ज्ञा. सं. 5/6/2007-सीएस.-II के अनुसरण में जारी किया जाता है।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. डीपी/पर्स-1/2008/0060/3/17/2003--आंध्र प्रदेश सरकार से के.अ. ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर श्री पी.बी. रामकृष्ण राव, लोक अभियोजक की सेवाएं दिनांक 15.02.2008 (पूर्वाह्न) से प्रत्यावर्तन पर आंध्र प्रदेश सरकार को वापस भेजी जाती हैं।

ह./- अपठनीय
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2008/0061/3/33/97--राष्ट्रपति ने श्री एस. कृष्ण कुमार, सहायक लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो को दिनांक 29.02.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

ह./- अपठनीय
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2008/0062/3/28/97--राष्ट्रपति ने श्री बरिन्द्र पाल सिंह, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो को दिनांक 28.02.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप-विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

ह./- अपठनीय
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2008/0063/3/7/97--राष्ट्रपति ने श्री शेलेश नारायण पाठक, सहायक लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो को दिनांक 29.02.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

ह./- अपठनीय
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 24 मार्च 2008

सं. डीपी/पर्स-1/2008/0066/ए-19023/7/84--राष्ट्रपति ने श्री मोहम्मद आजाद, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 28.02.2008 अपराह्न से अगले आदेश होने तक, उप-विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

ह./- अपठनीय
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2008/0067/3/86/96--राष्ट्रपति ने श्री एस. भट्टाचार्य, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 28.02.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, उप-विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

ह./- अपठनीय
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2008

सं. ए. छ:-1/2008-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिसबल में वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेण्ट के पद पर बल की समग्र नफरी में, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सौहार्द नियुक्त करते हैं :-

क्रम	अधिकारी का नाम	जॉइनिंग की तारीख
सं.		
1	2	3
1.	श्री रमेश सिंह बिष्ट	03.03.2008 (अपराह्न)
2.	श्री खान सलीम अहमद	03.03.2008 (अपराह्न)
3.	श्री संजीव कुमार	03.03.2008 (अपराह्न)
4.	श्री राजमोहन सिंह	03.03.2008 (अपराह्न)
5.	श्री नलवाडे महेश बाजीराव	03.03.2008 (अपराह्न)
6.	श्री वकार अहमद	03.03.2008 (अपराह्न)
7.	श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता	03.03.2008 (अपराह्न)
8.	श्री संजय कुमार	03.03.2008 (अपराह्न)

1	2	3
9.	श्री वेदपाल सिंह	03.03.2008 (अपराह्न)
10.	श्री अमित कुमार झा	03.03.2008 (अपराह्न)
11.	श्री रन सिंह	03.03.2008 (अपराह्न)
12.	श्री रिशिदेव सिंह चहल	03.03.2008 (अपराह्न)
13.	श्री अनिल टिग्गा	04.03.2008 (अपराह्न)

2. उन्होंने के.रि.पु. बल, अकादमी कादरपुर, गुड़गांव में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट कर दिया है और उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से सहायक कमांडेण्ट पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 18 मार्च 2008

सं. ओ.दो. 3704/95 (कार्मिक-1)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, 169 बटालियन, के.रि.पु. बल के श्री कुमार जय सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला-4068) ने 70 बटालियन, दिल्ली अर्थात् अपने घोषित मुख्यालय से किसी अन्य स्थान पर जिसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 28.02.2008 (अपराह्न) से त्याग दिया है। तदनुसार उसका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28.02.2008 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 11 मार्च 2008

सं. ए.-12012/5/स.नि./2007-प्रशा-II--इस निदेशालय के निम्नलिखित अतिरिक्त सहायक निदेशकों को सहायक निदेशक के पद पर 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :-

1.	श्री टी. जे. आर. बाबूजी	09.01.2008
2.	श्री डी. बालासुब्रमनियम	03.01.2008
3.	श्री ए. के. हलदर	03.01.2008
4.	श्री एम. के. मंडल (अ.जा.)	27.02.2008
5.	श्री फूल कुमार (अ.जा.)	03.01.2008
6.	श्री सी. पी. एस. नागरा	10.01.2008

डॉ. एम. एस. राव
निदेशक

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. ई-16015 (2)/2/2007/कार्मिक-1/59--राष्ट्रपति, के.औसुब के निम्नलिखित सहायक कमांडेन्ट/अग्नि को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में उप कमांडेन्ट/अग्नि के रैंक में नियमित होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई	उप कमांडेन्ट/अग्नि के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1.	एस. के. डे	नाल्को दामन जोडी	08.02.2008
2.	पी. आर. सिंह	एफएसईआई हैदराबाद	11.02.2008

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. 191-उ.रे./2007-08/10199--निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, वर्ग ख राजपत्रित के कैडर में रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 11.03.2008 से पदोन्नत किया जाता है :-

1. श्री हीरक बागची
2. श्री तरलोचन सिंह
3. श्री गुलशन नारंग

आर. राजलक्ष्मी
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक मार्च 2008

सं. प्रशासन V/9-86/VI/189--महालेखाकार (ले व ह), इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने दर्शाए गई तारीख से वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (गुप बी) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	(श्री/श्रीमती)	
1.	साराम्मा जार्ज	01.01.2008 (पूर्वाह)
2.	विजयलक्ष्मी एम (सं. 1)	01.01.2008 (पूर्वाह)

1	2	3
	(श्री/श्रीमती)	
3.	लेली पी	01.01.2008 (पूर्वाह)
4.	शिवकामी एच	01.01.2008 (पूर्वाह)
5.	विजयकुमारी डी	01.01.2008 (पूर्वाह)
6.	श्रीकला आर	01.01.2008 (पूर्वाह)
7.	मनमदन नायर पी वी	01.01.2008 (पूर्वाह)
8.	जया टी के	01.01.2008 (पूर्वाह)

के. विजयकुमारन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन V/9-86/VI/189--महालेखाकार (ले व ह), इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को 7,500-250-12,000/- रु. के वेतनमान में प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने दर्शाए गई तारीख से लेखा अधिकारियों (गुप बी) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	(श्री/श्रीमती)	
1.	इंदिरा के (सं. 2)	01.01.2008 (पूर्वाह)
2.	जयकुमारी जी (सं. 1)	01.01.2008 (पूर्वाह)
3.	इंदिरा पी	01.01.2008 (पूर्वाह)
4.	मेरी वी सी	01.01.2008 (पूर्वाह)
5.	पीला एस	01.01.2008 (पूर्वाह)
6.	सुमतीकुट्टी सी जे	01.01.2008 (पूर्वाह)
7.	यशोधरन पी	01.01.2008 (पूर्वाह)
8.	जोसफ पी जे	01.01.2008 (पूर्वाह)
9.	डिक्सन एस	01.01.2008 (पूर्वाह)
10.	तंक्मा के के	01.01.2008 (पूर्वाह)
11.	सुधा एम	01.01.2008 (पूर्वाह)
12.	इंदिरा सी आर	01.01.2008 (पूर्वाह)

के. विजयकुमारन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन V/9-86/VI/189--महालेखाकार (ले व ह), इस कार्यालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7,450-225-11,500/- रु. के

वेतनमान में प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने दर्शाए गई तारीख से सहायक लेखा अधिकारियों (ग्रुप बी) के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्रम नाम	नियुक्ति की तारीख सं.
(श्री/श्रीमती)	
1. जयश्री पी के	01.01.2008 (पूर्वाह)
2. श्रीकुमारी अम्मा के	01.01.2008 (पूर्वाह)
3. सीता एस	01.01.2008 (पूर्वाह)
4. रेणुका देवी टी	01.01.2008 (पूर्वाह)
5. सेलिनम्मा मैत्यू	01.01.2008 (पूर्वाह)
6. लीलाम्मा जे	01.01.2008 (पूर्वाह)
7. टैटस फिलिप	01.01.2008 (पूर्वाह)
8. सुसन पी माणी	01.01.2008 (पूर्वाह)
9. विजयकुमार एम एस	01.01.2008 (पूर्वाह)
10. मोहन एस	01.01.2008 (पूर्वाह)
11. ईश्वरन पोद्दी वी ई	01.01.2008 (पूर्वाह)
12. मनोज कुमार के टी	01.01.2008 (पूर्वाह)
13. नंदगोपालन टी के	01.01.2008 (पूर्वाह)
14. विजयन नायर के जी	01.01.2008 (पूर्वाह)

के. विजयकुमारन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110065, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. प्रशा.-I/1171/1/XIII--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतनमान 18,400-500-22,400/- रुपये) के निम्नलिखित अधिकारियों को उसी सेवा के रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक श्रेणी एवं समकक्ष पदों (वेतनमान 22,400-525-24,500/- रुपये) पर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेशों पर्यंत सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्रम अधिकारी का नाम सं.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक श्रेणी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति की तारीख
1. कु. गंगा पुरकुटी	04.03.2008
2. श्री धीर सिंह मीना	01.03.2008

विश्वजीत सहाय

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. 991ए/ए-32013/3-रसा. (कनि.)/2003/19 बी--राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I को रसायनज्ञ (कनिष्ठ) के रूप में इसी विभाग में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:—

क्रम अधिकारियों के नाम सं.	रसायनज्ञ (कनिष्ठ) के रूप में कार्यालय तिथि
1. श्री दिलीप बसाक	11.07.2007 (अपराह)
2. श्री आर. एन. भट्टाचार्य	11.07.2007 (अपराह)
3. श्री केम्पे गौड़ा	11.07.2007 (अपराह)
4. श्री सुबीर दत्त	11.07.2007 (अपराह)
5. श्री एस. एन. कर	12.07.2007 (पूर्वाह)
6. श्री आर. कृष्ण कुमार	12.07.2007 (पूर्वाह)
7. श्री बी. एस. श्रीनिवासैयाह	11.07.2007 (अपराह)
8. श्री जी. एस. नागराज	23.07.2007 (पूर्वाह)
9. श्री वी. डब्ल्यू खगन	12.07.2007 (पूर्वाह)
10. श्री अजय कुमार दत्त	11.07.2007 (अपराह)
11. कुमारी (डॉ.) एस. एन. नौटियाल	11.07.2007 (अपराह)
12. श्रीमती संध्या टण्डन	11.07.2007 (अपराह)
13. श्री सुशील भान	11.07.2007 (अपराह)
14. श्री दीनेश कुमार वारशनै	11.07.2007 (अपराह)
15. श्री डी. वीरभद्रैया	11.07.2007 (अपराह)
16. श्री अशोक रॉय	11.07.2007 (अपराह)
17. श्रीमती एस. लता	11.07.2007 (अपराह)
18. श्री चिन्मय चौधरी	11.07.2007 (अपराह)
19. कुमारी कल्पना के. देशमुख	11.07.2007 (अपराह)

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते : महानिदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

एन. एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. ए-31014/1/2000-प्र.-I--कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, श्री शैलेन्द्र को विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में दिनांक

14.07.2007 से विपणन अधिकारी (ग्रुप-I) के पद पर मूल रूप से नियुक्त करते हैं।

आर. एस. थरेजा
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 18 मार्च 2008

संदर्भ : पीडी/4 (4)/2005-आर-III/2008/2322--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री जयराजन ई. के., निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) को दिनांक 20.02.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/4 (4)/2005-आर-III/2008/2324--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती शोभना कुन्जुणी कुरूप, निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) को दिनांक 03.03.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/4 (4)/2005-आर-III/2008/2325--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री रमेश यू. आर., निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) को दिनांक 03.03.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/4 (4)/2005-आर-III/2008/2326--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती वीणा रामानाथम, निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) को दिनांक 03.03.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/4 (4)/2005-आर-III/2008/2327--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कुमारी विमल सिदराम हलिपथि, निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) को दिनांक 03.03.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों

तक रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/4 (6)/2007-आर-III/2008/2329--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती त्रेस्याम्मा जेम्स, आशुलिपिक श्रेणी-I को दिनांक 03.03.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में निजी सचिव (गैर सचिवालयीन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. 1/6 (3)/2005-पावर/214--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एहतेशाम अहमद, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर एफ, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्त पर हैं, को दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक, स्थानापन्न आधार पर रुपये 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-जी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

श्री एहतेशाम अहमद, ने दिनांक 01.08.2007 (पूर्वाह्न) से उनके द्वारा धारित निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 5 मार्च 2008

सं. 6(2475)/2008-प्रशा./299--राष्ट्रपति, श्री अ. गीतेश शर्मा, आईएफएस (86) को दिनांक 27 फरवरी 2008 को पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए रुपये 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 13 मार्च 2008

संदर्भ : भापाबो/भर्ती/1 (16)-तूतीकोरिन/2008/283--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रवर श्रेणी लिपिक, श्री वी. विवेकानंदन को दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) में रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

आर. पी. आचार्य
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2007/65--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों और उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी को प्रत्येक के नाम के सम्मुख दर्शाए गए ग्रेड और प्रभावित तारीख से इसी इकाई में, स्थानापन्न हैसियत में, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	ग्रेड से	पदोन्नति	ग्रेड को	पदोन्नति की तारीख
1	2	3		4	5
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/ई-रु. 12,000-375-16,500/-					
(सर्वश्री/श्रीमती)					
1.	सी. मधुसूदन	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
2.	जी. साईबाबा	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
3.	वाई एस. आर. मूर्ति	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	02.08.2007
4.	ए. चलपति राव	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
5.	एम. बालाकृष्णा	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
6.	यू. बी. मिश्रा	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
7.	जी. सौन्दर राजन	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
8.	एस. राजू	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
9.	टी. श्रीनिवास राव	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
10.	सुरेश प्रभु	वैज्ञा. अधि./डी		वैज्ञा. अधि./ई	01.08.2007
वेतनमान उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सी)-रुपये 12,000-375-16,500/-					
1.	एस. प्रसाद राव	उमुअग्निशमन अधिकारी/बी		उमुअग्निशमन अधिकारी/सी	01.08.2007
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/डी-रुपये 10,000-325-15,200/-					
1.	वी.आर. के. प्रसाद	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
2.	के. विजयन	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
3.	सी. एस. राजेन्द्रन	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
4.	जगदीश प्रसाद	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
5.	लाल मोहन पंडित	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
6.	ए. पेण्टय्या	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
7.	एन. कृष्ण कुमार	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
8.	बी. शिव रेड्डी	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
9.	आर. एस. नायर	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
10.	आर. एन. पाठक	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
11.	सीएच. एस. के. चारी	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
12.	जी. मल्लिकार्जुन	वैज्ञा. अधि./सी		वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007

1	2	3	4	5
	(सर्वश्री/श्रीमती)			
13.	के. प्रभाकर	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
14.	संजोय साह	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
15.	जी. प्रदीप कुमार	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
16.	ए. डी. देशमुख	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
17.	ई. सूर्यनारायण	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	10.08.2007
18.	जगदीश राम जाट	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
19.	एम. बी. एस. आर. रवि कांत	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
20.	पी. बी. चौधरी	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
21.	जोबिन कोसी	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
22.	महक गर्ग	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
23.	के. लक्ष्मी	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
24.	लिजी जॉर्ज	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
25.	जी. श्रीनिवास कुमार	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	01.08.2007
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/सी-रु. 8,000-275-13,500/-				
1.	जी. एन. के. गणेश बापु	वैज्ञा. अधि./एसबी	वैज्ञा. अधि./सी	01.08.2007
2.	आर. आनंदरमण	वैज्ञा. अधि./एसबी	वैज्ञा. अधि./सी	01.08.2007
3.	पी. बी. रमना	वैज्ञा. अधि./एसबी	वैज्ञा. अधि./सी	01.08.2007
4.	एन. विजय कुमार	वैज्ञा. अधि./एसबी	वैज्ञा. अधि./सी	01.08.2007
5.	एस. श्रीनिवासन	वैज्ञा. अधि./एसबी	वैज्ञा. अधि./सी	01.08.2007

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2008

सं. ए-32013/9/2006-ई-II--राष्ट्रपति महोदय, श्री ए. एस. कौशल, उड़नयोग्यता अधिकारी को 27.02.2008 (पूर्वाह्न) से एवं अगले आदेशों तक नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ उड़नयोग्यता अधिकारी के ग्रेड में महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मीना शर्मा
उपनिदेशक प्रशासन

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स राजपूताना डेयरिज एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 11 फरवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./560/7270211--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स राजपूताना डेयरिज एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया

गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स जयपुर सिटी हैरिटेज
डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./560/20929/323--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स जयपुर सिटी हैरिटेज डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स महाराणा खनिज उद्योग
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 3 मार्च 2008

सं. आर.ओ.सी./560/2011/331--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स महाराणा खनिज उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. एस. एसोसिएट्स
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 फरवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./9455/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स ए. एस. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेसकोन मशीनरीज
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./14674/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स मेसकोन मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लोन्जा फार्मास्यूटिकल्स
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./45597/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स लोन्जा फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पेक्ट्रम टेक्नीकल सर्विसिस
प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./23536/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्पेक्ट्रम टेक्नीकल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोलीड 2000 ट्रेड
लिमिटेड के सम्बन्ध में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. आर.ओ.सी./31606/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोहन एग्रो फार्मस्
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. आर.ओ.सी./29369/एसटीए/560/2007-08--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स रोहन एग्रो फार्मस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अर्जुना फूड प्रोडक्ट्स
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00485/101054/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स अर्जुना फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जैकोवेन केमिकल्स
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00494/101264/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स जैकोवेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वामी शांति प्रकाश
फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00489/101190/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्वामी शांति प्रकाश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परपल-टुलिप्स इस्टेट
डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00497/101516/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स परपल-टुलिप्स इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऑनलाइन कुरियर एण्ड
कार्गो प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00518/102574/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स ऑनलाइन कुरियर एण्ड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सीशोर ट्रेडिंग कम्पनी
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00637/108140/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

4-6 GI/2008

सं. 00473/100841/560 (3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

सं. 00607/102673/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

5—6 GI/2008

सं. 00271/116840/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स ओमकारनाथ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंगल दिन लीजिंग एण्ड फायनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00069/106849/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स मंगल दिन लीजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पार्क इलेक्ट्रो कंसलटेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00737/117212/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्पार्क इलेक्ट्रो कंसलटेंट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिलिओनेर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00743/117222/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स बिलिओनेर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अन्कोलोन टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00309/117464/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स अन्कोलोन टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे.वी.एस. मरीन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00169/116659/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स जे.वी.एस. मरीन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनीकॉर्न मैनेजमेंट एण्ड कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00349/118178/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स यूनीकॉर्न मैनेजमेंट एण्ड कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

मुंबई-400002, दिनांक 23.नवम्बर 2007

मंई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

मंडई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

महेन्द्र. कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

सं. 00032/110522/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स उल्लाल फाईनैस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया

सं. 00161/116638/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स यूनिग्रीप हेल्थ एण्ड रिहब प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रिया स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00681/129212/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स प्रिया स्ट्रक्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. के. कोइलमारी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00625/118348/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (2) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स एम. के. कोइलमारी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्ट्रुटेक कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

संख्या-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00423/115882/560 (S)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्ट्रुक्टेक्व कंसेलरिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रांतिकृत कारण दर्शित नहीं

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयेम रीट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

'सं. 00418/115914/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स जयेम रिट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्लिपसल लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00579/112680/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स क्लिपसल लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधत्त कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरसोल एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00648/113976/560 (3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स अरसोल एक्विज्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेन्द्र कपूर गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तान्या प्रोडक्ट्स
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00099/129967/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स तान्या प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हेरीटेज होम्स
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00075/129736/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स हेरीटेज होम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम.वी.आर. एण्ड सन
इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00088/120266/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स एम.वी.आर. एण्ड सन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीजेक्स एग्रो प्रोडक्ट्स
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00067/111330/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स वीजेक्स एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जोगनी ट्रेडिंग
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00058/111191/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स जोगनी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स द्वारसंस इंजीनियरिंग
कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

मुंबई-400002, दिनांक 23 नवम्बर 2007

सं. 00061/110553/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स द्वारसंस इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एस. रेड्डी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :

पुणे-411004, दिनांक 2 फरवरी 2008

सं. आरओसीपी/एसईएस--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सूची में शामिल कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :

क्रम पंजीयन सं. क्र.	कम्पनी का नाम	
1	2	3
1.	11-107224	मैसर्स अलस्ट्रोमेनिया एग्रीको प्राईवेट लिमिटेड
2.	25-17372	मैसर्स ए एस कास्टिंग एण्ड पेरीफरल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	11-28717	मैसर्स अतुर फैब्रीकेशंस प्राईवेट लिमिटेड
4.	11-28796	मैसर्स अतुर मशीनरी एण्ड एक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	11-111018	मैसर्स कैनक्युअर फार्मास्यूटिकल्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
6.	25-12769	मैसर्स करी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
7.	25-15054	मैसर्स दीपलक्ष्मी मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	11-108489	मैसर्स दीपयश लीजिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
9.	11-70269	मैसर्स डीलक्स लॉण्ड्री प्राईवेट लिमिटेड
10.	11-94732	मैसर्स इनवॉर्नमेंटल पॉवर इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड
11.	11-87413	मैसर्स ईस्संत मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	11-68333	मैसर्स फेअर इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	11-20873	मैसर्स फौर आईज कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	11-41574	मैसर्स गणेश कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	11-71875	मैसर्स ऋषिकेदार लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड
16.	25-17367	मैसर्स इंटीन्सिक सॉफ्टवेयर सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड
17.	11-104072	मैसर्स जेटलाइन हाय-फाय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
18.	11-60421	मैसर्स महावीर टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	11-12615	मैसर्स मनचंदा इंजीनियरिंग एण्ड मार्केटिंग कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
20.	11-96754	मैसर्स मानिकचंद लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
21.	11-38544	मैसर्स मनीषा प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
22.	25-12835	मैसर्स मधुसूदन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
23.	11-24949	मैसर्स मेकेशी फायबर ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
24.	11-41575	मैसर्स राधा बिल्डर्स एंड कान्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	11-103362	मैसर्स रानडे ऑफिस ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
26.	11-95274	मैसर्स सावित्री-यशवंत फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
27.	25-16788	मैसर्स शिप्लागिरी शुगर्स लिमिटेड
28.	25-14509	मैसर्स शोभा पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	25-12656	मैसर्स श्रीहंस एप्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
30.	11-32951	मैसर्स श्री महेश इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	11-68437	मैसर्स श्रीलक्ष्मी एक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	25-14053	मैसर्स सिद्धांत थर्मल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
33.	25-13810	मैसर्स सॉफपेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	25-13742	मैसर्स सृजन इन्फोटेक सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड
35.	11-108133	मैसर्स स्टेबल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	11-89773	मैसर्स स्वाको फायबर (इंडिया) लिमिटेड
37.	25-16974	मैसर्स टेन्य केअर फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	11-68013	मैसर्स थर्मल टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
39.	11-49502	मैसर्स यशश्री इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुणे

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वान कम्प्यूटर सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

पणजी-403001, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. V-30007 GA 1997 PTC 002360--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स स्वान कम्प्यूटर सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डायस कम्प्यूटर अकादमी प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

पणजी-403001, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. 24-02727--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स डायस कम्प्यूटर अकादमी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फ्रंटलाइन फिल्मस एण्ड लेबल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

पणजी-403001, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. 24-02728--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस

तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स फ्रंटलाईन फिल्मस एण्ड लेबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मौली फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

पणजी-403001, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. 24-02729--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स मौली फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :-

हैदराबाद-500195, दिनांक 17 मार्च 2008

सं. आरएपी/560 (3)/सुओ मोटो/KBR/2008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

क्रम सं. नं.	कम्पनी का नाम
1	2
3	
1. 000322	मैसर्स इंजीनियर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
2. 000701	मैसर्स डेक्कन प्रिंटिंग प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
3. 000762	मैसर्स श्री साधनाश्रम प्राईवेट लिमिटेड
4. 000770	मैसर्स गोवर्दना गोल्ड फील्ड प्राईवेट लिमिटेड
5. 000822	मैसर्स तमरावती प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
6. 000848	मैसर्स महालक्ष्मी खंदश्री शुगर्स फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
7. 000850	मैसर्स टॉय हाउस प्राईवेट लिमिटेड
8. 000859	मैसर्स श्री सतयानारायण सुगर्स प्राईवेट लिमिटेड
9. 000877	मैसर्स वेंकटेश्वर फिल्मस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
10. 000900	मैसर्स रेडियो इन्स्ट्रूमेंट्स एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
11. 000904	मैसर्स वी एण्ड के एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12. 000905	मैसर्स रेड्डी स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड	
13. 000972	मैसर्स बेनिफिट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	
14. 001061	मैसर्स ईस्टन केमिकल्स एण्ड पैन्ट इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	
15. 001073	मैसर्स भारत स्कूटर्स एम एफ जी को प्राईवेट लिमिटेड	
16. 001120	मैसर्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स लिमिटेड	
17. 001147	मैसर्स आर. वी. कॉमर्सियल को प्राईवेट लिमिटेड	
18. 001148	मैसर्स भानुडेस एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड	
19. 001158	मैसर्स हैदराबाद स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड	
20. 001176	मैसर्स ममता मैन्स प्राईवेट लिमिटेड	
21. 001206	मैसर्स आंध्रा गोवर्दन कृषि एन्टरप्राइसेस लिमिटेड	
22. 001219	मैसर्स एम.वी.एम. प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
23. 001223	मैसर्स हरीस टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	
24. 001253	मैसर्स विनोद शुगर्स प्राईवेट लिमिटेड	
25. 001283	मैसर्स ससलार मल्लेबल्स प्राईवेट लिमिटेड	
26. 001290	मैसर्स कन्डिमाल्ला राघवैरुया एण्ड कन्डिमाल्ला राममूर्ती को प्राईवेट लिमिटेड	
27. 001312	मैसर्स शीट्स एण्ड वैर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	
28. 001318	मैसर्स एपरटिफस प्राईवेट लिमिटेड	
29. 001363	मैसर्स इन्सीकोन केमिकल इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन को प्राईवेट लिमिटेड	
30. 001367	मैसर्स ईस्ट कोस्ट वेजीटेबल ऑयल प्राईवेट लिमिटेड	
31. 001406	मैसर्स ज्वाला पिरियोडिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	
32. 001428	मैसर्स सिरामिक मेग्नाटिस प्राईवेट लिमिटेड	
33. 001432	मैसर्स सर्विसेस फर इण्डियन मार्केटिंग एण्ड कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	
34. 001474	मैसर्स बोम्बिलि डिस्टिल्लरीज प्राईवेट लिमिटेड	
35. 001476	मैसर्स बोम्बिलि थियेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	
36. 001487	मैसर्स बोम्बिलि खनदासारि शुगर्स प्राईवेट लिमिटेड	
37. 001523	मैसर्स दी जेमिनी प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड	
38. 001532	मैसर्स राधाकृष्ण होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	
39. 001533	मैसर्स जगन्नाथ मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	
40. 001534	मैसर्स एल्लैड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
41. 001538	मैसर्स एसोसिएटेड स्टोरेज बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3	1	2	3
42.	001576	मैसर्स सूर्यावन्ती सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	71.	002050	मैसर्स बेल्लार मेटल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
43.	001582	मैसर्स रेडियम बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड	72.	002122	मैसर्स डेक्कन ऑटोमेटिव प्राईवेट लिमिटेड
44.	001601	मैसर्स इण्डस्ट्रीयल ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड	73.	002126	मैसर्स ए एम एफ फोन्डरीस प्राईवेट लिमिटेड
45.	001609	मैसर्स कोस्टल फाइबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	74.	002164	मैसर्स श्री विजया सागर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	001616	मैसर्स एस्वि ऑइल्स प्राईवेट लिमिटेड	75.	002181	मैसर्स वसवि सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
47.	001617	मैसर्स सेरवेल एस्टेट्स एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	76.	002189	मैसर्स श्रेष्ठ ड्रग होल्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	001619	मैसर्स स्कोफील्ड एण्ड बेरिंग प्राईवेट लिमिटेड	77.	002240	मैसर्स सिमकोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	001631	मैसर्स मिट्टल स्पीनिंग एण्ड बीवविंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	78.	002242	मैसर्स सरोजनी सोलवेंट ऑइल्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	001681	मैसर्स चन्द्रा स्टील द्युब्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	002246	मैसर्स प्रिकास्ट सीमेंट ब्लॉक्स एण्ड बिल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	001684	मैसर्स राजन्ना मेटल रिसेल्लिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	002250	मैसर्स स्टील वुड मेन्युफैक्चरिंग को. प्राईवेट लिमिटेड
52.	001698	मैसर्स श्रीरामा स्टॉ बोर्ड्स लिमिटेड	81.	002253	मैसर्स वर्दमान ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
53.	001701	मैसर्स इण्डियन सी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	82.	002258	मैसर्स फालको केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	001703	मैसर्स श्रीनिवासा सीड प्रोवर्स को प्राईवेट लिमिटेड	83.	002261	मैसर्स सरस्वती मिनिरल्स इण्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
55.	001714	मैसर्स ड्यूराल्युमिन एल्लोय प्राईवेट लिमिटेड	84.	002266	मैसर्स प्रकाश मैन्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	001759	मैसर्स आंध्र सोलवन्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	85.	002275	मैसर्स मैरुसम डोमेस्टिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
57.	001774	मैसर्स ओबराय एल्लोय एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड	86.	002278	मैसर्स अल जम जम ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	001789	मैसर्स श्री सीताराम अंजनेया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	87.	002293	मैसर्स विजया पेपर एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
59.	001792	मैसर्स अकफा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	88.	002294	मैसर्स बे बोट बिल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	001807	मैसर्स बोबिली होटल्स प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	89.	002309	मैसर्स समिस्टी स्विचगीयर प्राईवेट लिमिटेड
61.	001812	मैसर्स रिसर्व एण्ड डेवलप ऑफ इण्डस्ट्रियल बायो-केमिकल्स एण्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	90.	002319	मैसर्स वियाकाम कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	001830	मैसर्स श्री वेकटेश्वारा हे प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	91.	002325	मैसर्स चरमीरार मिनिरल्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	001849	मैसर्स यूनिवर्सल आर्गेनिक इंटरमीडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	92.	002395	मैसर्स राघवन्ना पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	001857	मैसर्स अक्वा फूड्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	93.	002396	मैसर्स नाम्प फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	001858	मैसर्स श्री मल्लिकार्जुना सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राईवेट लिमिटेड	94.	002409	मैसर्स सरस्वती मिनिरल्स इण्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
66.	001914	मैसर्स सत्या कंसलटेन्ट्स फर नेचुरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	95.	002427	मैसर्स नगवली होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	001917	मैसर्स एक्सेल ट्रोनिक्स लिमिटेड	96.	002517	मैसर्स सिन्द पाल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
68.	001920	मैसर्स वेंकटेश्वारा पोल्ट एण्ड केंट्रल फिड्स प्राईवेट लिमिटेड	97.	002522	मैसर्स वेहल अर्थ लैंड स्केपिंग कांस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
69.	002003	मैसर्स सुरेश टेक्सटाइल्स एण्ड ऑयल प्राईवेट लिमिटेड	98.	002543	मैसर्स सामन्ता पेपर्स एण्ड पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
70.	002042	मैसर्स वेंकटेश्वारा मेनेजमेंट कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	99.	002544	मैसर्स ब्राइट लैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड
			100.	002615	मैसर्स पकोल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
			101.	002147	मैसर्स आंध्र सिलीकेट्स प्राईवेट लिमिटेड

डी. रामकृष्णन

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

कटक-753001, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. आर.ओ.सी./560 (3)/5229--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और सभी कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी।

क्रम	कम्पनी	कम्पनी का नाम
सं. नं.		
1	2	3
1.	15-000439	मैसर्स राउरकेला प्रूफिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
2.	15-003580	मैसर्स मा भरोसा फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड

1	2	3
3.	15-004212	मैसर्स सेफ्टी प्वाइंट प्राइवेट लिमिटेड
4.	15-005568	मैसर्स इद्रावती कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	15-007757	मैसर्स इलाइट क्लब लिमिटेड

बी. मोहंती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--

चेन्नै, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. 14005 से 50125 तक/560(5)/SUO MOTTO-2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	14005	फुट राइट प्राइवेट लिमिटेड
2	14008	दक्षिण टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
3	14016	सी टी हीट एण्ड मास प्राइवेट लिमिटेड
4	14023	पारामाउण्ट ऑईल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	14035	ट्रीटोन ट्रांसर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	14053	मोती फिशिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
7	14069	यू एण्ड मी कन्स्यूमर्स सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
8	14077	प्रियदर्शनी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	14080	ईस्टर्न डोर्स & पेनल्स प्राइवेट लिमिटेड
10	14081	एन.के.एस. प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
11	14103	के बी सुब्रमण्यम असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	14106	एनजे फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	14113	लोटस अडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
14	14118	चक्रा होममेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	14126	कैलाश ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	14140	लक्ष्मी मोरोक्स प्राइवेट लिमिटेड
17	14142	केटलिस्ट टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
18	14145	एम. एस. डीपर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	14159	इन्ट्रोनिक्स वेहनेस्स प्राइवेट लिमिटेड
20	14164	विन्स (इण्डिया) फार्माटेक प्राइवेट लिमिटेड
21	15114	सिल्वरशिप रियल एस्टेट कं. प्राइवेट लिमिटेड
22	15117	ग्रिनसीस शिपिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड
23	15119	किरगो शूज प्राइवेट लिमिटेड
24	15127	एसक्यूब टेक्नोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड
25	15134	दर्शन एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
26	15138	प्रभा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
27	15143	बोजाज बोट्स प्राइवेट लिमिटेड
28	15147	कारैकुडी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	15158	रैनबो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
30	15169	आर आर प्लास्टो प्राइवेट लिमिटेड
31	15187	सिन्धुबाद सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
32	15221	बिल्लमस. एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	15224	शाशीस मार्केटिंग कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
34	15228	कुमार रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
35	15242	वासन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
36	15243	लायन ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
37	15249	सदर्न कार्बाइड्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
38	15251	अमरावती इंजिनियरिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड
39	15255	मोडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
40	15262	प्रेसटाइन मार्बल एण्ड ग्रेनाइट्स इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
41	15264	बी एस जे कन्सलटेन्सी प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड
42	15281	क्रिस्टल एयर कन्डिशनर्स प्राइवेट लिमिटेड
43	15290	टेलिसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
44	15291	श्री बेलकोम्प सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
45	15295	टाप-स्टिच प्राइवेट लिमिटेड
46	15319	टेक्निकोन पवन इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
47	15343	एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
48	15347	सोलार एनर्जी एण्ड वाटर रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
49	15348	अन्वु इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	15352	शुभा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
51	15354	पायलेडिस शिपिंग एजेन्सिस प्राइवेट लिमिटेड
52	15356	मंत्रालया इलेक्ट्रॉनिक्स इन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
53	15357	श्री डीन्स अक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
54	15359	वेन-जोह स्पाइसस प्राइवेट लिमिटेड
55	15361	बायो-केर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
56	15364	से. मेरिस कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
57	15372	एवीएस एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
58	15375	बल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
59	15376	सीडीई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
60	15377	यूनिक इन्टेजिन्स एजेन्सी एण्ड सेक्युरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
61	15381	वन्डर टेक्नोआर्ट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
62	15386	छारत फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
63	15392	अन्नामार टरमेरिक एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
64	15398	मल्ली पेन प्राइवेट लिमिटेड
65	15402	कोरोमण्डल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	15405	रमणी फिशिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड
67	15411	अन्नामलैयार जेनरल एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
68	15446	जी बी मिनेरल्स एण्ड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
69	15447	कन्द एण्ड सूरी लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
70	15449	डेल्टा ब्रॉइलर फार्म प्राइवेट लिमिटेड
71	15452	स्काइलाइन कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
72	15473	ओसियन ब्लू शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
73	15502	मेघालिथ लिमिटेड
74	15520	रोलाघेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
75	15530	अशिपन मेडीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
76	15534	सुबीक्वाम केमिकल एण्ड फर्टीलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
77	15549	सेन्टर फॉर कम्प्यूनिटी एक्शन प्राइवेट लिमिटेड
78	15550	श्री मूकाम्बिनै फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
79	15600	कोबलर वन लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
80	15616	श्री अंजानेय चिट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
81	15617	अडवान्ड जीयोनेविगेशन एण्ड एनेर्जेटिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
82	15620	सारथी ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
83	15631	रेक्स ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
84	15634	ओम-इण्ड इलेक्ट्रीकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
85	15640	श्री लक्ष्मी ओर्नामेन्ट्स मेन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
86	15677	एनरिच केमिकल्स एण्ड रिफायनेरी प्राइवेट लिमिटेड
87	15679	क्रेडम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
88	15702	केन्नेज फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
89	15708	विजया नायलो इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
90	15732	मंगल चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
91	15736	रिक्स होटल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
92	15743	तिरुचिरापल्ली थेवर फण्ड्स लिमिटेड
93	15745	सोलार ट्रिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
94	15753	बी के एस एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
95	15754	बाल सिवा ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
96	15761	आर परमसिवम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
97	15762	ओयसिस विडियोट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
98	15767	शान्ति मात्सुओका फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
99	15769	प्लान ओ ट्रेवल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
100	15779	रेक लेदर प्राइवेट लिमिटेड
101	15781	ट्रस्टवेल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
102	15790	शान्ति कन्स्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
103	15796	आदिपराशक्ति विविग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
104	15804	कोडरा पेन्टागन प्राइवेट लिमिटेड
105	15807	रामजे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
106	15808	किरण फेब्रीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
107	15823	राजश्री प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
108	15831	मेडीसोनिकस प्राइवेट लिमिटेड
109	15843	लवन मरीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
110	15846	लेण्डमार्क कन्सलटेन्ट्स एण्ड कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
111	15848	वेनी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
112	15855	विश्वादिती प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
113	15865	केसी फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
114	15867	विडियो बैंक प्राइवेट लिमिटेड
115	15869	तेज फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
116	15870	नील्स टेक्नो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
117	15878	गंगाधरन स्लिपनिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड
118	15884	एस.एम. अंसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
119	15889	कम्प्लीट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
120	15893	सझारीना सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
121	15897	फाइब्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड
122	15900	सुपरचेफ किचन एक्जूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
123	15904	प्रीमियर अप्टायेसस प्राइवेट लिमिटेड
124	15905	सी पल्स फिशरीस प्राइवेट लिमिटेड
125	15909	ईमयम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
126	15917	इन्टर एड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
127	15930	स्वीसीरा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
128	15931	एक्सीक्यूटिव मेनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
129	15945	लेक्स शूस प्राइवेट लिमिटेड
130	15946	माकाबीस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
131	15952	प्रीमियर कन्सलटेन्ट्स एण्ड सर्वैयर्स प्राइवेट लिमिटेड
132	15959	प्रसाद शू अप्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
133	15964	पिरामिड कारिंटिंग्स लिमिटेड
134	15965	वडीवाम्बिकै चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
135	15969	फिल्म फेसिलिटीस प्राइवेट लिमिटेड
136	15983	एयरविंग टेक्सटाइल्स लिमिटेड
137	15998	जाबेझ शूस प्राइवेट लिमिटेड
138	16011	मुल्लै चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
139	16017	आर्या गेलवानिसिंग प्राइवेट लिमिटेड
140	16018	बीहियर टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
141	16024	पोन्नी वालानाडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
142	16042	मद्रास केमिकल एक्जूपमेन्ट्स एण्ड लाइनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
143	16043	तिरुच्ची टेन्निंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
144	16044	बारर पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
145	16046	रेनी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
146	16057	लाशा मार्केटिंग एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
147	16063	कुलथैवम फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
148	16064	श्री साईलाम एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड
149	16081	शोरलाइन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
150	16083	विंगोन टायर्स लिमिटेड
151	16085	इन्टान केम्स प्राइवेट लिमिटेड
152	16087	विजया आदित्या सोह सेना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
153	16092	पेस ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
154	16102	नाज इलेक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
155	16109	श्रीचक्रा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
156	16117	एरीयस स्ट्रक्चरल एनेर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
157	16119	सीरीन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
158	16122	श्री विष्णुकुमार मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
159	16123	लोकित कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
160	16140	जकारा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
161	16141	कोजी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
162	16144	ओवरसीस डाईस एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
163	16157	चक्रवर्ती ग्रेनाइट्स & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
164	16159	ओलिवर मार्क एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
165	16160	एस होमनीड्स प्राइवेट लिमिटेड
166	16170	प्रोग्रेसीव सिने आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
167	16174	सदर्न केरीयर्स & डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
168	16177	ओक्सालिक केमिकल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
169	16198	अद्यालक्ष्मी कोनसोलिडेट्स प्राइवेट लिमिटेड
170	16201	जेनेक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
171	16215	फ्रन्डली फूड एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
172	16224	सनपलो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
173	16225	शान्ति ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
174	16227	फोटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड
175	16231	वेन्च्यूर गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
176	16235	कॉमनवेल्थ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
177	16244	सेलेक्ट टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
178	16253	नेल्स ट्रेडिंग एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड
179	16254	कल्पक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
180	16257	शटल कूरियर प्राइवेट लिमिटेड
181	16259	गिरी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
182	16262	श्री मरुधरकेसरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
183	16270	सनजीत लूम्स प्राइवेट लिमिटेड
184	16297	राखी ग्रेनाइट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
185	16315	शालिमार (टूटिकोरिन) पेपर एण्ड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
186	16319	कॉलेज ब्रूक्स-लॉयड्स प्राइवेट लिमिटेड
187	16331	डोव टेलिमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
188	16333	सूयामेन्डर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
189	16334	इन्ड-सर्वो प्राइवेट लिमिटेड
190	16336	इन्सटेन्ट ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
191	16347	मद्रास लेदर गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर्स कन्सोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
192	16359	स्वाति कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
193	16364	कीर्तन पब्लिसिटीज प्राइवेट लिमिटेड
194	16366	वेगा इंजिनियर्स एण्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
195	16367	सिस्टेमेटिक कूरियर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
196	16377	विरुधा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
197	16402	त्रिची कम्प्यूटर फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
198	16408	कावेरी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
199	16432	चेन्नई रबबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
200	16439	गुडविल शूस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
201	16440	पी डी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
202	16445	हाईटेक अडेटिव्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
203	16446	पोलिमर मशीन्स मेन्यूफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
204	16447	यू टेक अल्यूमीन प्राइवेट लिमिटेड
205	16450	अरुणा फिशेरीस प्राइवेट लिमिटेड
206	16451	अरुत जोथी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
207	16456	इण्डो वेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
208	16462	रॉयलक्स कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
209	16463	एससार पम्प्स प्राइवेट लिमिटेड
210	16488	तमिलनाडु वायर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
211	16491	ललित पोलिपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
212	16508	धनप्रिया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
213	16514	शान्ता फेब्र प्राइवेट लिमिटेड
214	16515	बुद्धा ग्रेनाइट्स इम्पोर्ट्स & एक्सपोर्ट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
215	16529	अपेक्स अक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
216	16538	ग्नानम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
217	16544	एम ए यू आइल्स प्राइवेट लिमिटेड
218	16548	केयेम इण्डस्ट्रीयल वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड
219	16553	तमिलनाडु एसिटीलीन प्राइवेट लिमिटेड
220	16570	सदर्न पारबोइलिंग ड्रायर राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
221	16591	संखव लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
222	16606	गंगापथी सोडियम क्लोरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
223	16620	श्री कृपा मार्केटिंग डेवेलोपमेन्ट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
224	16654	देवी टैन्रीस प्राइवेट लिमिटेड
225	16663	श्रीदेवी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
226	16668	एस पी अल्मनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
227	16681	ओर्गालाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
228	16690	नागास फिशेरीस प्राइवेट लिमिटेड
229	16691	नागास इण्डस्ट्रीयल सोल्वेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
230	16692	न्यूरंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
231	16713	रमेश एंजेन्सीस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
232	16717	पेटमुर एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
233	16721	मेट्रीक्स अडवरटाइजिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
234	16730	इवान्गिलाइन रबबर प्राइवेट लिमिटेड
235	16733	रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड ऑटोमोबाइल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
236	16742	एच रुस्तम कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
237	16744	गेटवे कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
238	16755	जैवासरास फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
239	16762	सिनेटेज्म कम्प्यूटर डियाइसस प्राइवेट लिमिटेड
240	16769	पुरुषोत्तम चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
241	16770	ब्लू बैण्ड शूस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
242	16775	आईएसपीके इन्डेक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
243	16783	प्लस प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
244	16796	बेसिक प्लास्टिकैजर्स प्राइवेट लिमिटेड
245	16803	विजय लक्ष्मी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
246	16807	आशीर्वाद लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
247	16808	पोलिमेट लेबोरेक्टोरीस प्राइवेट लिमिटेड
248	16825	आर. जे. ग्लास एण्ड प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
249	16829	बालसरवणा चिट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
250	16842	ऐसक्येर रेपोग्राफिक्स इंक प्राइवेट लिमिटेड
251	16849	पेकेज्ड कस्टमाइस्ड सॉफ्टवेयर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
252	16851	ऐन्स कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
253	16869	रेडहेक्स कोरेशन कन्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
254	16894	इन्दु फोम प्राइवेट लिमिटेड
255	16899	उषोदया क्लियरिंग एण्ड फोरवार्डिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
256	16906	वीक्स एण्ड सीम्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
257	16912	रेफफीस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
258	16919	मंजुला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
259	16923	अवन्त ग्रेड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
260	16931	शक्ति शूस प्राइवेट लिमिटेड
261	16932	मंगलदीप ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
262	16955	टेलिकॉम पॉवरनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
263	16966	एक्स्ट्रुप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
264	16975	एक्सेस गोल्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
265	16978	नेचुरल प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड
266	16980	आस्था प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
267	17005	सेंट. ज्यूड मैराइन्स प्राइवेट लिमिटेड
268	17012	जे पी अनालीटीकल टेस्टिंग एण्ड रिसर्च लेबोरेटोरी प्राइवेट लिमिटेड
269	17014	ट्राईओ इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
270	17019	ईस्टमन कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
271	17026	होम फिट गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
272	17043	गायत्री केल्सियम एण्ड अलाइड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
273	17050	एन वी कन्सल्टेशन्स एण्ड इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
274	17053	तुलीप बिजनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
275	17059	ब्लोसम केम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
276	17064	मदुरा लैम्प्स एण्ड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
277	17072	एम. के. फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
278	17087	सिवसक्ति फिशरी प्राइवेट लिमिटेड
279	17097	अराकोणम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
280	17116	राम परफेक्ट प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
281	17117	सुगीसा एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
282	17120	श्री रम्या रेक्विजन प्राइवेट लिमिटेड
283	17141	श्री कामाटची कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
284	17142	एडाकाट्टु प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
285	17149	मद्रास जिप फास्टनर्स एण्ड एक्सेसोरीस प्राइवेट लिमिटेड
286	17153	मानस ह्यूमन रिसोर्स डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
287	17155	स्पेसवे डिजाइन इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
288	17157	मारब्लाइट टाइल्स एण्ड टॉप्स प्राइवेट लिमिटेड
289	17175	कोनवेक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
290	17178	वेनी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
291	17204	आप्लो वाल्व प्राइवेट लिमिटेड
292	17230	आर.एन. इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
293	17231	नट्स एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
294	17238	थापासु चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
295	17241	डाटमेट्रिक्स पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
296	17248	सीनीयर सीटिजन रिजोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
297	17250	रॉक्स 'एन' रॉक्स ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
298	17255	इण्डस्ट्रीयल ड्राईंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
299	17257	अल फरहान इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
300	17270	सिदार्थी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
301	17276	एलेनार ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
302	17277	क्यूट कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
303	17278	पॉवरपाइप इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
304	17280	फ्लेक्सी क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
305	17281	विजयलक्ष्मी प्रियदर्शनी लेदर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
306	17289	मद्रास टाउनशिप डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
307	17295	पोली ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
308	17303	अम्मा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
309	17307	पर्ल फिशनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
310	17324	श्री चक्रा रबबर इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
311	17326	वीना इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
312	17327	प्लास्टिक फेन्स प्राइवेट लिमिटेड
313	17342	वेदिक औषधालया प्राइवेट लिमिटेड
314	17353	जनीश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
315	17354	सिनारा मैका माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
316	17357	शानी लेदर इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
317	17363	जोशी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
318	17368	रिलायेन्स लेटेक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
319	17388	अलार्थी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
320	17404	पेनिनगुलार कम्प्यूटर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
321	17408	आल्कोट इन्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
322	17412	इन्टॉप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
323	17422	नल्ली हॉर्न्स प्राइवेट लिमिटेड
324	17431	अनै अबिरामी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
325	17436	फार लेप अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
326	17439	अलीशा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
327	17444	के.जी.एल. हाउसिंग एण्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
328	17449	सॉफ्टसेन्स मेनेजमेन्ट सिस्टम्स डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
329	17456	अडोर शूस् प्राइवेट लिमिटेड
330	17459	नूरानी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
331	17475	हरीरोन इंजीनियरिंग एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
332	17477	फाउण्डेशन इंजीनियरिंग एण्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
333	17478	ट्रान्स अल्यूमीनियम कण्डक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
334	17484	स्टेल्लर बिजनेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
335	17496	बिल्डिंग इन्वेस्टमेन्ट एण्ड डेवेलोपमेन्ट सिण्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड
336	17503	एस आर एम मेटालिन्क प्राइवेट लिमिटेड
337	17507	मनीष वेन्चयर्स प्राइवेट लिमिटेड
338	17508	गामा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
339	17519	एस.पी. सोलवेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
340	17525	सीटी रियल एस्टेट एण्ड कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
341	17530	श्री ह्याग्रीवा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
342	17536	अमूक इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
343	17538	पी सी बी टेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
344	17540	मोस्फेट टेकनिकस प्राइवेट लिमिटेड
345	17543	शक्ति एसीटेट एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
346	17552	शिवासंकरा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
347	17553	भक्ति लिजिंग फण्ड्स लिमिटेड
348	17568	श्री कामाक्षी टाइल्स एण्ड मोनुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
349	17584	विनायक शूस् प्राइवेट लिमिटेड
350	17596	निदया ट्रेड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
351	17599	न्यू सेन्चुरी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
352	17605	गिलक्रिस्ट मारीटाइम ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
353	17618	सफारी पैक प्राइवेट लिमिटेड
354	17621	सुप्रतिष्ठा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
355	17627	कुमार ट्रेडर्स ऑफ मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
356	17628	कोब केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
357	17631	फिट वेल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
358	17635	केमेरोन अक्वा फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
359	17636	सेम्बी कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
360	17641	ब्लू मून एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
361	17644	भाबा प्लास्टिक्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
362	17649	कोन्दुरा रबबर प्राइवेट लिमिटेड
363	17650	गुरु राघवेन्द्रा इंजीनियरिंग कान्ट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
364	17671	तुंगभद्रा एल.पी.सी. एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
365	17685	प्रदीप ऑटो कन्सलटेन्ट्स लिमिटेड
366	17690	जीवन ज्योति प्रेस एण्ड पब्लिशर्स
367	17691	अरुल कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
368	17700	सैनमेड एंटीबायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
369	17714	फोइनिक्स फिल्म रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
370	17717	फोर स्क्वायर लेदर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
371	17722	एस्थेटिक डिस्पोसेबल मेडीकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
372	17724	क्रेफ्टार लीफ सिंगर्स प्राइवेट लिमिटेड
373	17728	समा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
374	17736	टेबल टॉप टी प्राइवेट लिमिटेड
375	17740	एयरसी सर्वाइवल एक्स्प्लोमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
376	17745	बेस्ट रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
377	17748	अमृता एक्सीम प्राइवेट लिमिटेड
378	17749	अमृता मिल्क बिबिरेजस प्राइवेट लिमिटेड
379	17760	फेर्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
380	17772	एच.टी. एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
381	17791	ऑलमाइटी पोलिमर्स एण्ड रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
382	17802	रिच रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
383	17813	जी जी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड
384	17814	ल्यूटरच्यू एयर प्राइवेट लिमिटेड
385	17818	एन ए के ऑटोमोबाइल्स इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
386	17820	सत्या ट्रान्स ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
387	17822	सुसरुथा मार्केटिंग क. प्राइवेट लिमिटेड
388	17828	कावेरी एनरिच फीड्स एण्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
389	17830	जीआर मैनेजमेन्ट एण्ड फायनेन्सियल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
390	17837	सनराइस फ्यूल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
391	17846	गौतम पब्लिसिटीस प्राइवेट लिमिटेड
392	17864	गैलेक्सी केबल एण्ड कण्टेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
393	17871	एविस कार रेन्टल्स प्राइवेट लिमिटेड
394	17891	राज्हा कार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड
395	17895	विसुधा कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
396	17896	धर्मपाल न्यूसप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड
397	18012	सप्तगिरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
398	18015	एसआरबी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
399	18018	श्री मीनाक्षी क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
400	18040	साबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
401	18064	श्वेतागणेश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
402	18065	श्री आण्डाल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
403	18067	फिदा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
404	18068	वैयापुरी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
405	18072	वेस्टएण्ड येल्लो पेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
406	18084	अन्टो पोलिमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
407	18116	आर्ट एण्ड कलर्स मेन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
408	18118	श्वेता इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
409	18120	मदुरा यीस्ट एण्ड केमिकल्स एमएफजी कं. प्राइवेट लिमिटेड
410	18122	प्रोवेस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
411	18131	स्टरलिंग स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
412	18132	नित्या दर्शनी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
413	18136	सनटेक प्लास्टिक इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
414	18137	मदुरा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
415	18141	गोल्डन सेण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
416	18156	एलेक्सको मार्केटिंग एण्ड कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
417	18185	सुन्दर एण्ड कम्मल (मेन्यूफैक्चर एण्ड एक्सपोर्ट) प्राइवेट लिमिटेड
418	18189	सरवना पाम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
419	18195	सुकभोग डोर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
420	18197	नेनसन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
421	18199	चिन्नामेनर ओम शक्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
422	18204	बिनोद ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
423	18205	तवक्कल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
424	18216	फ्यूचूरा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
425	18225	एम.के. एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
426	18226	ब्रिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
427	18237	कोस्टल मेराइन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
428	18243	बी.वी.एस. लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
429	18244	लीफिन सी फूड्स लिमिटेड
430	18247	सौम्या फार्म सर्विसस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
431	18254	शिप्स एण्ड कार्गो एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड
432	18259	जेमिनी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
433	18262	लेसर ग्राफिक्स रेप्रो सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
434	18270	फार्मा हुवेट प्राइवेट लिमिटेड
435	18271	गूनाइटेड टेन्कर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
436	18283	बॉस बैटरीस प्राइवेट लिमिटेड
437	18285	कूक पेक फिशेरीज प्राइवेट लिमिटेड
438	18294	जेन्यून माइन्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
439	18300	होचल गीता (विल्लुपुरम) प्राइवेट लिमिटेड
440	18303	सत्या फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
441	18320	एस.सी. ग्रेनाइट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
442	18322	मणीभारती इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
443	18334	कोरोमण्डेल ऑक्सिजन प्राइवेट लिमिटेड
444	18343	थैन्डाडु पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
445	18355	बार्टर मार्केटिंग एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
446	18381	अलंकार मरीन प्राइवेट लिमिटेड
447	18383	एनेमटेक इण्डस्ट्रीयल एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
448	18384	श्री सुंदरकोडी टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
449	18387	डेट रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
450	18395	एवोम एप्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
451	18397	विन्शार सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
452	18402	टेल्स बर्ड प्राइवेट लिमिटेड
453	18410	सूसेवेल्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
454	18413	कावेरी कलर लेब प्राइवेट लिमिटेड
455	18417	सान्ता इण्डस्ट्रीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
456	18429	श्री रामचन्द्रा केटल फीड इण्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
457	18432	लिगम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
458	18441	सुकला चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
459	18444	वथीयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
460	18455	सुन्दरम अप्लायेंसस रेफ्रिजरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
461	18461	सैकोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
462	18463	श्रीराम इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड अप्लायेंसस लिमिटेड
463	18468	वेल्यूएबल स्टील्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
464	18480	चेम्बर ऑफ हाउसिंग डेवेलोपमेन्ट लिमिटेड
465	18482	श्री लता ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
466	18491	इस्वर्या पैकेजस प्राइवेट लिमिटेड
467	18497	तुलसी डिवाइसस प्राइवेट लिमिटेड
468	18499	सेवर कोडियाओन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
469	18500	टाइल्स एण्ड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
470	18501	लेदर आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
471	18516	विजय टेक्सटाइल्स एण्ड वाटर प्रूफिंग इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
472	18520	स्टार एलिवेटर्स एण्ड एक्स्पेन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
473	18525	प्रागमेटिक एक्सीम्पो प्राइवेट लिमिटेड
474	18529	विष्णु प्रिया होम एप्लायेंसस प्राइवेट लिमिटेड
475	18536	टेकनौ डिजाइन कन्सलटेन्सी रोड प्रोजेक्ट्स एन
476	18538	ब्राइटवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
477	18544	ईस्ट कोस्ट ग्रान डेवेलोपमेन्ट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
478	18548	आरसीएम फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
479	18566	लीडर ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
480	18570	डेगा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
481	18573	चोलापुरम रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
482	18576	ग्रेनाइट कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड
483	18578	ओडिस्सी ट्रेड लिन्क्स प्राइवेट लिमिटेड
484	18580	एमसी कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
485	18581	जेमिनी स्पिनिंग मिल (त्रिची) प्राइवेट लिमिटेड
486	18584	एमक्यूब एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
487	18591	पोलकॉन कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
488	18598	अनु स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
489	18600	मदरलेण्ड सेटलमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
490	18634	श्री राघवेन्द्रा डिटेरजेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
491	18636	सिल्वर स्ट्रीक अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
492	18639	साज विजन प्राइवेट लिमिटेड
493	18640	स्केजोन-केम प्राइवेट लिमिटेड
494	18647	निर्मल लेदर गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
495	18648	श्रेयास माइक्यूटरियेन्ट्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
496	18653	टेलीस्केन आर्ट क्रियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
497	18657	नीरा केप्स लिमिटेड
498	18664	स्काईलाइन मरीन्स प्राइवेट लिमिटेड
499	18674	स्वाति क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
500	18687	मेस्सीना शिपिंग एजेन्सीस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
501	18689	डोक्युमेड लेबोरेटोरीस प्राइवेट लिमिटेड
502	18692	ब्रिल्लीयन्ट इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
503	18695	श्री प्रभा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
504	18705	पैरामिड बिल्डर्स एण्ड इंटरियर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
505	18711	सिरीयस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
506	18716	गारडियन कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
507	18718	विनस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
508	18719	मैईलै राज चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
509	18720	एम ए रामकृष्णा नायडु स्टैनलेस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
510	18726	लेदर स्पेशियलिस्टीस प्राइवेट लिमिटेड
511	18731	मेनचिट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
512	18746	बिल्डटेक हाउसिंग (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
513	18748	इण्डविन पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
514	18759	एस ए फिश नेट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
515	18760	क्रोमेटन लेदर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
516	18763	मनीअम्मे फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
517	18764	श्रेष्ठा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
518	18770	मेगन्म रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
519	18774	मार्क एग्रेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
520	18783	हाल मार्क इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
521	18788	अजन्ता गारमेन्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
522	18790	जेनलाइट सेल्स एण्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
523	18791	कोसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
524	18799	विसकोस लेदर मेन्यूफैक्चर एण्ड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
525	18803	बेडरॉक इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
526	18804	अल्फा प्लेट वेन्टिलेटर प्राइवेट लिमिटेड
527	18823	जय भुवनेश्वरी फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
528	18825	पेलिकान ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
529	18826	विनस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
530	18828	रेड फील्ड्स फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
531	18837	श्री विजय फिन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
532	18857	मोनार्क एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
533	18858	मोनिका फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
534	18860	राधामोहन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
535	18866	स्टीलेडो लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
536	18868	हाई-इटा पम्पेन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
537	18882	अबारजिता एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
538	18886	मेहेर-हम शूस प्राइवेट लिमिटेड
539	18890	महासुदर्शना टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
540	18893	देवी सोलवेन्ट एक्सट्राक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
541	18895	लेट्राग्राफी साइन्स प्राइवेट लिमिटेड
542	18897	कॉसमॉस फ्राइट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
543	18900	अरुण लियो शूस प्राइवेट लिमिटेड
544	18910	थर्मल कन्ट्रोल सिस्टम (मट्रास) प्राइवेट लिमिटेड
545	18912	इन्फा इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
546	18915	रिलायन्स सीझर्स एण्ड वेयरहाउसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
547	18931	रेक्सोन्स ओवरसीस प्राइवेट लिमिटेड
548	18963	ओम वेल फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
549	18965	श्री अनुशम कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
550	18977	वीटीआर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
551	18980	पेन्नारासी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
552	18992	अम्बिका फ्लोरिंग टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
553	19004	कोरवेटाइट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
554	19011	सन लेदर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
555	19013	लोकएयर एजी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
556	19020	पोन-फाइन लेदर्स एण्ड शूस प्राइवेट लिमिटेड
557	19023	ईस्वरी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
558	19025	जेमपेक कन्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
559	19026	स्टेलिंग ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
560	19027	हाइ टेक ऑटो लायनगोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
561	19035	गौतम बेनर्जी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
562	19040	ओल्गा थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
563	19049	स्टेण्डर्ड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
564	19052	माइको-फिनो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
565	19070	श्री वल्लुवर टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
566	19073	आल फाइन कॉस्मेटिक इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
567	19082	रेवती क्रोम-केम प्राइवेट लिमिटेड
568	19091	शक्ति बोन मिल प्राइवेट लिमिटेड
569	19092	बालाजी डिटेरजेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
570	19100	बी एन टी एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
571	19101	इन्टेक्स स्टाइल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
572	19113	बालाजी लेदर फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
573	19116	चर्पी कन्सट्रक्टर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
574	19119	जिन्ना स्टील एण्ड अलॉयस् लिमिटेड
575	19120	करन्ट ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
576	19126	आल्विनफेब प्राइवेट लिमिटेड
577	19128	लोटस मीनरल एक्सपोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
578	19131	डेक्कान टेलि-कॉम प्राइवेट लिमिटेड
579	19132	राजाली कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
580	19135	वैकटेस्वरा प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
581	19144	प्रगती अडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
582	19150	जीयूसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
583	19154	येस्सार अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
584	19158	टेलिग्राण्ड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
585	19163	बोन अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
586	19166	पाइपलाइन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
587	19167	डायना ऑटोमोटिव कोम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
588	19173	उदया हेचेरीस प्राइवेट लिमिटेड
589	19174	महाकाली चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
590	19178	वर्मा कोल मूर्वर्स प्राइवेट लिमिटेड
591	19179	वर्मा कोल लिकेज प्राइवेट लिमिटेड
592	19187	न्यो पेक एक्स्ट्रूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
593	19202	नाजीउल्लाह वासीमुल्लाह एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
594	19206	पेक सील मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
595	19209	ब्राइट आयरन डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड
596	19211	कमलम कलर एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
597	19225	प्रिंस शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
598	19253	श्री वेलवन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
599	19256	बेटा बाइट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
600	19257	सायी पोली पेपर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
601	19263	वेडन्तानाल फार्म प्राइवेट लिमिटेड
602	19276	राघव कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
603	19283	मेक्सवेल रेमेडीस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
604	19291	एमीको ट्रोफीस प्राइवेट लिमिटेड
605	19292	ब्लू चिप्स ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
606	19302	इथेटिक इण्डिया लेबोरेटरीस प्राइवेट लिमिटेड
607	19304	कोप्पारम मोनीटर्स प्राइवेट लिमिटेड
608	19322	अरगुस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
609	19325	टूटिकोरिन आरबीयेस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
610	19351	विजया अलुमिनाल्फे इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
611	19352	विजया केमएग्रो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
612	19354	श्री विर्गो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
613	19367	निरम स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड
614	19372	बोजेन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
615	19376	श्रीकास प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
616	19391	पाइमरैइन फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
617	19392	यूनिटी लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
618	19400	कॉसमोस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
619	19405	हुन्डयै इण्डो स्टोन इण्डस्ट्री कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
620	19409	के एन एस स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड
621	19418	भारद्वाज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
622	19422	केप्सन ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
623	19437	हन्ना इन्वेस्टमेन्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
624	19439	राजलक्ष्मी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
625	19440	अडलर हम्सा लाइम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
626	19441	होटल शिवलोक प्राइवेट लिमिटेड
627	19451	सन फिशेरीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
628	19469	गीतांजली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
629	19476	वेम्बु फार्मस एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
630	19479	मक्केना कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
631	19489	बेस्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
632	19496	रिक्नटिला कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
633	19497	कोरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
634	19502	सनराइस पेपर एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
635	19508	विजया स्केनर्स प्राइवेट लिमिटेड
636	19519	कोरियम अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
637	19525	बापरोह केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
638	19527	वेस्टल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
639	19543	ललित श्री सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड
640	19547	यूनिफ अलायंस मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
641	19549	साउथ इण्डियन पाइप्स (पायनिग्रस) प्राइवेट लिमिटेड
642	19550	वन्दवासी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
643	19556	प्रियदर्शनी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
644	19557	कोवलम पाकर्स प्राइवेट लिमिटेड
645	19564	पारकर असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
646	19567	से टेक्सटाईल एस्सेसोरीस प्राइवेट लिमिटेड
647	19570	श्रीमती ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
648	19575	तिरुमलै डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
649	19576	जगनमोहन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
650	19578	एस. सन्तोसनाडार एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड
651	19582	क्लास शूस कं. (मुद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
652	19585	बीसीआई ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
653	19589	मेनेजमेन्ट सर्विस एण्ड इन्फोर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
654	19613	अमाजिन कन्सलटेन्ट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
655	19623	चांदनी अल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड
656	19637	पुष्पवल्ली तंगवेलु टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
657	19644	श्रीवल्ली वीविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
658	19653	इडंगकोट्टै फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
659	19681	ए पी एस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
660	19716	पेन एशिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
661	19720	श्री दुर्गा सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड
662	19740	सदर्न ओलियोरेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड
663	19760	फायबर बॉण्ड पोलिस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
664	19779	चारित्रा लेदर एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
665	19805	एरिक एण्ड शान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
666	19822	रामकृष्णा मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
667	19827	प्रिया मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
668	19832	शशिरेखा एक्सपोर्ट (आई) प्राइवेट लिमिटेड
669	19834	तमिलनाडु सिथवुड लिमिटेड
670	19835	आइडियल लेदर एक्सपोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
671	19838	विग्नेश शूस प्राइवेट लिमिटेड
672	19840	जे आर बी बी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
673	19844	ऑटोमोबाइल ट्रेड लिन्क्स प्राइवेट लिमिटेड
674	19845	सोलिड फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
675	19848	अलवर रबबर फेक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
676	19851	सैनर्जी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
677	19853	मेचलेस मेच्यूफेक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
678	19856	टेकनो लिडर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
679	19869	थायर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
680	19873	सणबस्ट हौसिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
681	19878	वोगू एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
682	19886	फेलक्स एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
683	19901	सुरज एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
684	19906	जार्ज टर्नर फैनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
685	19911	अस्तलक्ष्मी फैनान्स एण्ड रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
686	19918	टाक्सनिल पालीवेइल प्राइवेट लिमिटेड
687	19920	श्री लक्ष्मी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
688	19968	सदर्न टूल्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
689	19975	रोटमेक्स कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
690	19976	स्वागद कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
691	19977	पी.एन.गणेशन होसिंग प्राइवेट लिमिटेड
692	19994	परफेक्ट प्लेस्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
693	19995	श्री देवी तुगा लक्ष्मी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
694	19999	युशोडयम् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
695	20006	बेटी इन्सुलेशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
696	20026	नाफा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
697	20031	देवराज हाउसिंग एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
698	20053	राजदूर्गा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
699	20054	एस के पेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
700	20066	श्री आर.बी.एस. स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड
701	20071	नेट फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
702	20075	सेट्रेन्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
703	20076	सैल रोक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
704	20089	कुमार एक्सट्रूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
705	20117	श्री दुगा देवी स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड
706	20128	टीएनटी प्लास प्राइवेट लिमिटेड
707	20131	शिवानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
708	20135	ब्रूकलैण्ड्स मोटल्स एण्ड हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
709	20137	सिटिजन इन्व्यूलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
710	20144	वृन्दावन अप्लायन्स प्राइवेट लिमिटेड
711	20146	गायत्री इलेक्ट्रीक एण्ड इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
712	20147	रजीनी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
713	20154	मुबीन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
714	20156	प्रिया इन्टिग्रेटेड एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
715	20163	बंगाल पर्ल शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
716	20170	जमानी पेपर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
717	20172	गेलेक्सी फोजिंग एण्ड मेटल कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
718	20181	हक्स कुडिल्स प्राइवेट लिमिटेड
719	20202	दिव्या पेकेजिंग सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
720	20220	विच्युअल सैनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
721	20226	एक्टूडर फूड प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
722	20242	थील्लर लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
723	20245	सिन्थेटिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
724	20258	श्याम सुन्दर आइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
725	20268	विकास लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
726	20272	सिइजेर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
727	20273	ड्यूटरचे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
728	20275	स्प्रिंगफील्ड कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
729	20278	थाई इण्ड केमिकल्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
730	20288	लॉरेल एजेन्सिज प्राइवेट लिमिटेड
731	20292	रिसर्च एण्ड मिडिया कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
732	20293	स्टोन टेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
733	20294	जेन्सल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
734	20301	राजा एस्टेट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
735	20324	एनडीआर इन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
736	20326	एबीसन्स पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
737	20336	एन वी आर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
738	20344	गेलेक्सी ग्रेन्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
739	20347	अग्रोटेक सिस्टम्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
740	20357	लिनटेक्स ओवरसीस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
741	20362	रोबा केम प्राइवेट लिमिटेड
742	20379	एवरपेक लिमिटेड
743	20396	ट्रिनीटी फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
744	20411	स्पोर्ट्स शूस प्राइवेट लिमिटेड
745	20423	रिहोबोध चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
746	20429	निशान्त प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
747	20436	श्री श्रीनिवासा विडियो प्राइवेट लिमिटेड
748	20437	विन्टेक्स पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
749	20439	नवीन स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
750	20453	विल्लुपुरम चक्रा असोसियेट्स एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
751	20477	हेक्स टीम क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
752	20507	जी ट्रेवल्स एण्ड टूरर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
753	20508	सिग्मा कन्ट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
754	20512	श्री श्रीनिवासा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
755	20517	अनुशका कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
756	20518	बंसल केमलाइन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
757	20519	के एस एम टेक्सटाइल्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
758	20530	गजानन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
759	20531	ई आई टी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
760	20532	ईस्टर्न टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
761	20536	गौतम प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
762	20548	डीएलएस एसवी एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
763	20550	लक्ष्मी साइन सर्व्यूट्स प्राइवेट लिमिटेड
764	20555	न्यू पुष्पम मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
765	20562	इन्डोमेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
766	20572	इम्पिरियल स्टोन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
767	20574	सिलिकॉन सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
768	20577	एन जे शाह फुच प्रोडक्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
769	20591	हिमालयन पोलिमर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
770	20593	बूमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
771	20596	आर के बी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
772	20597	राजिन्द्रा सूरि इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
773	20599	रॉकसिटी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
774	21004	तिरुच्ची लाइट लेदर प्राइवेट लिमिटेड
775	21016	केजीएम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
776	21022	इन्दुमति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
777	21055	वीयेन पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
778	21057	यूड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
779	21058	यूड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
780	21059	यूड ओवरसीस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
781	21060	यूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
782	21065	येसेमेल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
783	21066	काली ब्राण्ड होम अप्लायसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
784	21079	एसोसियेटेड एक्पोरियेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
785	21092	कनारा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
786	21118	सदर्न मैराइन फिशरिज एण्ड प्रॉन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
787	21130	यूनिफेब मेटो प्राइवेट लिमिटेड
788	21138	स्कोरपियो वेहबेचिंग प्राइवेट लिमिटेड
789	21164	ओम विनायगर इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
790	21172	मेन्सफील्ड चिटफण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
791	21174	सर्वमगला चिटफण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
792	21177	सदर्न फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
793	21186	अनु विजय अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
794	21194	कुलशेखरा पाण्डियन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
795	21195	टेक्नो कम्प्यूटर प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
796	21201	पोन्नी अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
797	21202	कार्तिक फिशेरीज प्राइवेट लिमिटेड
798	21213	दौलानी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
799	21232	सी बी एम फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
800	21236	इन्सिस्ट्यूशन अ मार्केटिंग एजेन्सीस (इलेक्ट्रॉनिक्स) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
801	21238	यूबेरस स्टेशनर्स लिमिटेड
802	21243	ऐश्वर्या फ्राइट कनेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
803	21252	भारत फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
804	21256	पीआरएस ओवरसीस एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
805	21257	अप्सरा ग्रेनाइट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
806	21263	एतिराज एम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
807	21267	सेकेम प्राइवेट लिमिटेड
808	21285	नाथोनी एक्सीम प्राइवेट लिमिटेड
809	21290	वेनस्बार ओर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
810	21294	अमालगेमेटेड ओसियनरकेन प्राइवेट लिमिटेड
811	21298	अम्बासेडर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
812	21302	जनरल फ्राइट केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
813	21311	रिलायन्स कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
814	21326	टेकोट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
815	21327	राजदर्शनस लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
816	21332	गौरीशंकर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
817	21337	प्लेटिंग प्रोसेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
818	21340	एमको सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
819	21344	रानी फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
820	21348	फेक्ट लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
821	21349	रेवलोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
822	21350	मा ऑनलाइन सिस्टम्स एण्ड मैनेजमेंट कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
823	21353	आर जे आर फर्नीचर एण्ड फेब्रीकेटर प्राइवेट लिमिटेड
824	21355	रॉकफोर्ट फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
825	21357	एक्सेल कोम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
826	21371	पवर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
827	21374	बैट राइट डाटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
828	21377	सारटोरिया लेदर स्टोर्स लिमिटेड
829	21393	अलीम एण्ड इकबाल कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
830	21405	बेटामेक्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
831	21411	मद्रास मूवी लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
832	21412	सरोजिनी पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
833	21423	सीमाकॉन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
834	21440	करपगम कमर्शियल क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
835	21451	ओप्टिमा डाटा लोजिक प्राइवेट लिमिटेड
836	21452	धनधारा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
837	21453	रेगा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
838	21458	श्री रंगा गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
839	21466	केरवेल्ल होम्स प्राइवेट लिमिटेड
840	21468	कोवलम केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
841	21469	प्रदान इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
842	21470	बी के चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
843	21472	अरुणा मरैन प्रोटक्ट्स एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
844	21480	उत्तम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
845	21482	तमिलनाडु इन्सुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
846	21483	हॉडोन प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
847	21484	वैष्णवी होम प्रोडक्ट्स एण्ड अप्लायन्स प्राइवेट लिमिटेड
848	21487	ट्रिनिटी सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
849	21488	आधारम अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
850	21491	अम्मीराजु इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
851	21493	पॉम्स प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
852	21502	श्री रंगा टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड
853	21508	अभ्युदया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
854	21510	हैटेक रिफ्रेक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
855	21541	राम रजित कम्प्यूटर फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
856	21553	सुजलाग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
857	21558	पोन्मणी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
858	21599	आरणी श्री राजलक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
859	21602	विष्णुवर्धन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
860	21607	मोडर्न कम्प्यूटर ग्राफिक्स एण्ड इन्फोरमेशन सिस्टम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
861	21608	श्री लक्ष्मी टेक्नोफेब्स प्राइवेट लिमिटेड
862	21609	अल्फाबेटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
863	21610	बर्लीस होमफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
864	21628	प्रीमियर ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
865	21636	सेरन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
866	21650	धीयाञ्ज कन्सट्रक्शन एक्पमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
867	21667	न्यू भारत सूज प्राइवेट लिमिटेड
868	21668	यूनिफाइन लिजिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
869	21669	शाविन इन्स्ट्रुमेन्टेशन कन्ट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
870	21674	एलएसजेड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
871	21675	इन्टर-इंजिनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
872	21676	भानु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
873	21691	एसवीएस रोक्कीन स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
874	21698	शेरबुड ग्रेनाइट ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
875	21721	हिन्दुजा एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
876	21752	इम्मेल ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड
877	21753	होरिजोन क्राफ्ट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
878	21780	मक्कल नेसन पब्लिकेशन (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
879	21788	सिल्वर कलर लेब प्राइवेट लिमिटेड
880	21805	राधकन्धा लेबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
881	21810	सूर्या रोलोन प्राइवेट लिमिटेड
882	21822	बीवीएम रिजोर्टस् कॉम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड
883	21831	श्री कुमारन चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
884	21848	विजयश्री हाऊसिंग एण्ड डेवेलोपमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
885	21869	अल्मेक इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड सिस्टम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
886	22012	एनिटाइम फूड्स एण्ड बिबेरेजस प्राइवेट लिमिटेड
887	22013	अर्गुस सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
888	22024	रिप्रो लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
889	22025	हनीफा प्लान्टेन्स प्राइवेट लिमिटेड
890	22034	सेल्सियन डाटा फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
891	22037	श्री वडुवामबैगै ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
892	22061	मैनियर इम्पोर्टर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
893	22066	शुभश्री इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
894	22082	बेस्को एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
895	22084	टेली विक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
896	22085	साउथ इण्डिया कोरुबॉक्स नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
897	22102	बालाजी ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
898	22106	स्वामी डेन्टल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
899	22107	पीसी पाइन्ट सिस्टम्स एण्ड सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
900	22114	डायना फ्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
901	22130	धरनी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
902	22132	श्री शक्ति साई इडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड
903	22133	फ्यूल सेवर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
904	22156	पुष्पावल्ली फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
905	22162	अमारी मार्केटर्स एण्ड डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
906	22172	मोनार्क ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
907	22179	श्रीपती चिट्स मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
908	22183	अल्टिमेट एयरफ्राइट प्राइवेट लिमिटेड
909	22186	अंडिधरवरा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
910	22188	नागा एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
911	22189	जेम्स-नॉर्टन मेशिन्स प्राइवेट लिमिटेड
912	22190	स्टेला मॉरिस स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
913	22198	योगम रियल एस्टेट्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
914	22202	इन्जापनेड गेरिटा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
915	22203	निधिप्रिया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
916	22204	प्रभात ट्रेवल्स एण्ड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
917	22205	तिरुमला होसियेरीस प्राइवेट लिमिटेड
918	22206	ग्लिट ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
919	22215	विक्टरी मूवीस प्राइवेट लिमिटेड
920	22218	रादीप डेवेलोपमेन्ट एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
921	22226	टैलानियम जिर्कोनियम प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
922	22252	वसुन्धरा टिम्बर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
923	22265	कोन्सोलिडेटेड अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
924	22267	एसजी अल्लोय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
925	22273	ट्रेमेन्डाऊस लेडर प्राइवेट लिमिटेड
926	22276	ए एण्ड ई ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
927	22282	अबीरामी सरफेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
928	22285	एवीआर-भारत ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
929	22286	के एल एण्ड एम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
930	22287	वर्जिता होसियेरिस प्राइवेट लिमिटेड
931	22288	अरुणोधयम स्ट्रक्चरल्स एण्ड अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
932	22290	स्काई हाई टेक प्राइवेट लिमिटेड
933	22295	अप्पोलो निच वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
934	22297	मिडिया अनिमेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
935	22324	एस पी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
936	22326	एनरिच एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
937	22338	जेफफकोट्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
938	22339	कीवितार्स शू एण्ड लेदर प्राइवेट लिमिटेड
939	22342	विन्टेज इन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
940	22353	पाशामाउन्ट रबबर प्राइवेट लिमिटेड
941	22372	इक्सको (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
942	22383	पॉक बे इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
943	22393	मोनिंग्यू अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
944	22407	एमआरपी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
945	22415	पेलिकॉन इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
946	22427	रेलटेक्स टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
947	22437	नेयवेली चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
948	22443	क्रिश माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
949	22448	गौवेल गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
950	22474	स्टाइल सेरेमिका प्राइवेट लिमिटेड
951	22780	कन्नवारीस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
952	23010	मनली लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
953	23011	हनीवेल पेकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
954	23014	नयन रोड टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
955	23022	केर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
956	23030	गौरी ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
957	23032	प्रीमियर टीक फार्म प्राइवेट लिमिटेड
958	23046	प्रोग्रेसिव प्लान्टेशन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
959	23049	ए के केमिकल्स प्रोडक्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
960	23068	दरन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
961	23073	हाउसेर शूस प्राइवेट लिमिटेड
962	23074	सन प्लास्टिक कोम्पोसाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
963	23080	रॉयल प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
964	23085	इन्टर-फ्रेश फूड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
965	23090	वेन्कीस केपिटल मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
966	23095	कॉसमोस पेटेन्टर्नल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
967	23099	मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
968	23103	श्री एसवीएस चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
969	23106	मेनहट्टन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
970	23108	फैर डील शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
971	23110	के एण्ड के निटवेयर प्राइवेट लिमिटेड
972	23111	एम्डीयार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
973	23114	कॉनमेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
974	23122	पाम्पा ग्रैनाइट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
975	23128	अरुमी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
976	23133	शक्ति लक्ष्मी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
977	23137	गोल्ड सिनेमा (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
978	23138	रिक स्पाइसस् एण्ड टॉप डेलिकेसीस प्राइवेट लिमिटेड
979	23139	बेलांगन्नी विजन होटल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
980	23142	एसुन ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
981	23143	सन्नी रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
982	23144	साबी प्लाई प्राइवेट लिमिटेड
983	23147	जेम्स गार्डन प्राइवेट लिमिटेड
984	23169	सुरेश गणेश हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
985	23177	श्री वेंकटेश्वरा निट्रिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
986	23189	रॉयल मेरायन प्रोडक्ट्स (तंजावुर) प्राइवेट लिमिटेड
987	23190	चेन्नई आर्क प्राइवेट लिमिटेड
988	23213	तमिलनाडु टीक प्राइवेट लिमिटेड
989	23215	शिवशक्ति प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
990	23216	कामीज टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
991	23218	वीआइएसएस पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
992	23223	ए.आर. पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
993	23224	पेकार फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
994	23235	सिम्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
995	23245	शर्मिला इम्पेक्स एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
996	23247	एन.जी.आर. एकजीम प्राइवेट लिमिटेड
997	23249	अलीफ एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
998	23256	माधवी होम अप्लायन्सस् प्राइवेट लिमिटेड
999	23260	अबेरदीन स्टीमर एजेन्सीस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1000	23281	कुटिपुलान एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1001	23289	मयूरम कामाक्षी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1002	23290	वीके एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1003	23300	सेल्वा अरसी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1004	23301	तेनाम्बिका चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1005	23342	पांडियन क्राफ्ट पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1006	23346	सैफलेक्स सिस्टम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1007	23347	सदर्न एलेवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1008	23349	रोयल अक्वा प्रोटक्टस प्राइवेट लिमिटेड
1009	23352	राधवेन्द्रा एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
1010	23362	ट्रान्स क्विक प्राइवेट लिमिटेड
1011	23363	मैर्लिन होटल्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
1012	23396	थेनी श्री शक्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1013	23398	नोहस फिशेरिस प्राइवेट लिमिटेड
1014	23399	श्री लैंड्स चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1015	23410	श्री गौरी अम्बिका चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1016	23411	श्री सेल्वा तिरुपति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1017	23415	कूइसेर राइटिंग इन्ट्रुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1018	23425	ओप्टिमल एनेर्जी सोलुसन्स प्राइवेट लिमिटेड
1019	23428	शुक्रा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1020	23433	राजेश्वरी पेकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1021	23464	एस एफ चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1022	23467	सरन टोय्स प्राइवेट लिमिटेड
1023	23468	डेय्टी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1024	23492	यामिन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1025	23498	प्रागोसा वेन्चर्स लिमिटेड
1026	23501	कान्धेरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1027	23507	कल्पना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1028	23514	त्रिशूल ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
1029	23515	केसीआर प्लान्टेशन्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1030	23518	जे जे मेराइन प्रोडक्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1031	23520	कुमारी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1032	23531	असेण्ड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1033	23535	शक्तया मणिकण्डन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1034	23537	रत्ना इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
1035	23539	कॉम्पैक्ट माइक्रो लोजिक प्राइवेट लिमिटेड
1036	23542	होटल माही (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड
1037	23545	युनाइटेड कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड
1038	23548	अल्लेग्रे कन्सल्टैन्सी एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1039	23549	कल्याणा चक्रवर्ती टेक्स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1040	23551	थरनी लेदर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1041	23560	मोसागा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1042	23565	विशाल हॉस्पिटल एक्यूपमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1043	23567	के आर वी पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
1044	23569	लेक्लान्चि इंजिनियरिंग एण्ड रबबर लाइनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1045	23571	हेन्नेस्सी इन्टरनेशनल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1046	23572	गुडविल इलेक्ट्रीकल्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1047	23574	श्री राघवेन्द्रा ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
1048	23576	निशान्त स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1049	23577	श्री वेंकटेश्वर चिट्स (तंजावुर) प्राइवेट लिमिटेड
1050	23597	ग्रामि प्लान्टेशनस (इण्डिया) लिमिटेड
1051	23608	भाग्यलक्ष्मी डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1052	23618	होरिजोन हॉस्पिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1053	23624	सुपरसन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
1054	23626	आस्मा एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1055	23628	रांका स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
1056	23638	कुरुंची ग्रेनाइट इण्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
1057	23658	एच के कॉसमॉस एक्पोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1058	23667	बीआरबी ट्रेडर्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1059	23678	रवीराग चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1060	23680	पीनाकिनी पैप्स प्राइवेट लिमिटेड
1061	23682	एसएमपी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1062	23683	जी.टी. रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1063	23691	बानु चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1064	23715	गोल्डन चिट फण्ड्स (कोविलपट्टी) प्राइवेट लिमिटेड
1065	23719	नासी ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
1066	23742	स्पान पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1067	23744	सोफिन चिट्स कम्पनी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1068	23754	एस.ए. केमिकल आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
1069	23756	बेस्ट आग्री आयिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1070	23768	रुस्टीक आग्री प्लान्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1071	23771	एम.एस.के. पील्लै चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1072	23777	काट्टन क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1073	23791	विंग एण्ड व्हील्स कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1074	23792	इन्टर डायनेमिक्स टेलिकम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1075	23794	विक्टरी हाऊस कीपिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1076	23807	गंगा हाऊसिंग प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1077	23810	नवधान ग्रेनाइट्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1078	23819	नोगा बिल्डर्स एण्ड डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1079	23820	रामकृष्णा कम्प्यूटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1080	23843	बोरडिअक्स फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1081	23859	इमेज डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1082	23864	साई संगम फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1083	23868	ए.एन.वी. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1084	23874	एस.एस.पी. फूड्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1085	23879	क्लासिक डाटा फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1086	23892	इसीए ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1087	23896	तंगम चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1088	23901	वी केयर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1089	23911	अक्वा कन्सलटेन्ट्स एण्ड कन्सल्टेशन्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1090	23917	यूनियन फार्म एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1091	23920	गुड पम्प प्राइवेट लिमिटेड
1092	23929	फारचून स्टाक्स प्राइवेट लिमिटेड
1093	23935	श्री गायत्रीदेवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1094	23940	धनज्योति एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1095	23945	ग्रीनग्रोव एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1096	23966	ऑरकाट श्री कलैमगल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1097	23987	केमट्रोन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1098	23990	सुगम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1099	23992	बोबिन्स कन्फेक्शनेरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1100	23996	टेप्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1101	23998	मेड्रास कोरिया फिशरींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1102	24004	श्री अम्मानावारु प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1103	24008	रोहिणी नैल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
1104	24010	जे.बी. पेकेजिंग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
1105	24014	जग्गा चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1106	24015	एस.ए.एस. ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1107	24021	आराम सिटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1108	24023	मेडिमेटिक्स कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1109	24034	कालहरी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1110	24039	एक्थूपमेन्ट मार्केटिंग (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1111	24040	केपशेल्स लेबोरेटोरीस प्राइवेट लिमिटेड
1112	24041	अरुण कवी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
1113	24045	रिजोय्स रिजोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1114	24053	युनाइटेड इम्पेक्स (कोयम्बतूर) प्राइवेट लिमिटेड
1115	24056	विक्टरी केमिकल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1116	24058	केड केर कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1117	24060	आन्जनैया प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1118	24067	सुपरफिश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1119	24068	बे ऑफ बेन्गाल सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1120	24074	सिटी-लिन्क एयरवेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1121	24083	श्री सौन्दर्या चिट्स (तंजापुर) प्राइवेट लिमिटेड
1122	24087	मेट्रो कुरियर एण्ड कारगो प्राइवेट लिमिटेड
1123	24090	हारमोनी अडरवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1124	24102	सीसन्स रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1125	24125	सी रॉक ट्रेड-एक्सपो (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1126	24126	श्री कृष्णा बोरवेल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1127	24129	अंजली पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1128	24136	बरकत एण्ड रहमत फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1129	24137	वीबीसी फाइनेन्सियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1130	24156	स्वेज लोकस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1131	24162	कारुमुत्तु टीक प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1132	24182	किंग प्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
1133	24199	शिवा काम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1134	24201	जोदी तिरुमणा मण्डपम् प्राइवेट लिमिटेड
1135	24213	अगस्तिया हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1136	24239	स्थिटोन एक्जीम प्राइवेट लिमिटेड
1137	24256	श्री अंगाला परमेश्वरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1138	24258	माइक्रोडाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1139	24266	वैश्या चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1140	24271	श्री अलमेलू मंगै ट्यूब वेल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1141	24272	टेक्स-इन-टेक्स इम्प्रोइडरी प्राइवेट लिमिटेड
1142	24279	हाईफ्रीक शूस एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1143	24285	ओरीक्स अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1144	24287	एमेराल्ड वेड-लॉक प्राइवेट लिमिटेड
1145	24290	लेदर ट्रान्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
1146	24297	केप्रो एक्पोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1147	24300	प्रकाश केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1148	24303	डेन्टल अमालगेम्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1149	24305	चक्रा एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
1150	24307	फालन्क्स गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1151	24310	जे.बी.एस. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1152	24324	बेथल इण्डस्ट्रीयल इंजिनियरिंग फेब्रिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1153	24325	अधा टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
1154	24339	अस्टर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1155	24340	रॉकटाउन क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1156	24345	वीआर फोर्वाडर्स प्राइवेट लिमिटेड
1157	24346	गार्डन ऑफ इडेन एस्टेट्स मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
1158	24351	न्यू जेर्सी फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1159	24359	तिरुपति बालाजी टीक ट्री फार्म एण्ड गेस्ट हाऊस प्राइवेट लिमिटेड
1160	24364	विक्टरी इम्पेक्स एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1161	24379	श्री सरवना स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
1162	24381	वावर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1163	24383	एल.ए.बोय्स (फैशन्स) प्राइवेट लिमिटेड
1164	24384	नवदीप क्रेडिट एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1165	24385	जे.एम.एस. वीट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1166	24393	ब्लू सी अक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड
1167	24408	सुपर रिट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1168	24409	श्री शारता स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
1169	24411	एल.वी. प्लानटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
1170	24438	बेस्ट कार्बन प्राइवेट लिमिटेड
1171	24452	रिवफ्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1172	24456	एमेराल्ड ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1173	24457	श्री एचसीएस ट्रेवल्स एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
1174	24463	एथलान केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1175	24470	विजय कृष्णा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1176	24507	श्री राज राजेश्वरी गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1177	24527	किरण रैजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1178	24532	के.सी.एस. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड
1179	24535	विवेक कम्प्यूटर एण्ड रेप्रोग्राफिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1180	24544	न्यू ग्रीन टीक प्लानटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
1181	24550	कान्नावरीस इन्टरनेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
1182	24552	श्रीनिवास शेयर एण्ड सेक्युरीटिस प्राइवेट लिमिटेड
1183	24553	श्री भगवान चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1184	24565	गोल्डन बे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1185	24569	अकिता टॉय्स प्राइवेट लिमिटेड
1186	24572	विमोचनम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1187	24579	मेगलै ट्रेवल एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1188	24582	एस्पना स्टीमर एजेन्सीस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1189	24596	अरुणोदया सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1190	24598	गोल्डवायर क्रियेटिव एण्ड डिजाइन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1191	24610	रूपम मैरायन एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1192	24615	हेप्पी होलिडे रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1193	24631	फाइनेस्स इटालिया प्राइवेट लिमिटेड
1194	24637	एस्सारवी एक्पोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1195	24652	हीजो इम्पेक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1196	24676	टेम्पल ट्री प्लानटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
1197	24679	मास्टर क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1198	24687	टी.जी. इन्व्हेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1199	24729	मुसीरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1200	24730	सेल्बग अग्रो कार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1201	24733	सन प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1202	24734	फैकर रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
1203	24744	रुबिकॉन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1204	24745	सी ब्रीज फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1205	24747	केसवम वेंकटेश्वरा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1206	24749	विसु एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
1207	24753	अल्टरामेक्स स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
1208	24759	श्री गणेश पब्लिसिटी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1209	24760	ग्रोमोर प्लान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
1210	24770	बानु गार्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1211	24783	न्यूट्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1212	24795	रुबिकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1213	24817	जी.एस. फाइबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1214	24825	सुरभी चिट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1215	25022	वायलुरान ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1216	25059	खलीत अक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड
1217	25073	मिड्रास टच कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1218	25080	रॉयल डोमेस्टिक एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
1219	25086	एसजी एण्ड एसएस चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1220	25105	क्लोवर इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1221	25112	न्यो ओरगानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1222	25121	एबी मार्केटिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1223	25128	एयर विंग कार्गो (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1224	25147	गीन पेस्टर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1225	25148	मेघा प्लान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
1226	25158	करपह विरुटचम प्राइवेट लिमिटेड
1227	25181	जोदी सैट बिडी प्राइवेट लिमिटेड
1228	25215	फ्यूचर कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1229	25225	जेया कुमार विवर्स प्राइवेट लिमिटेड
1230	25241	लीरा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1231	25244	हाई रिजोलूशन विडियो इमेज प्राइवेट लिमिटेड
1232	25248	फेल्सपार मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1233	25256	हस्तारा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1234	25275	गुरुनाथ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1235	25295	एम.एल.जी. हाईटेक प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1236	25311	गंगा-कावेरी अक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1237	25509	मिल्कीवे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1238	25523	सुक्रा एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
1239	25541	रामशेकर सर्जिकल कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1240	25557	प्रहती अम्यूसमेन्ट्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1241	25558	गैपर वाली प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1242	25564	अलिया प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1243	25573	क्वीन अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
1244	25580	तमिलनाडु अब्रासीक्स प्राइवेट लिमिटेड
1245	25603	ग्रीन पार्क प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1246	25632	पूवन होसियेरीस प्राइवेट लिमिटेड
1247	25634	सूमोरा टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
1248	25649	मद्रास ऑटोमेशन कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1249	25651	एस.जे.ए. चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1250	25671	ग्राफिटी ग्रेनाइट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1251	25687	केस्टल एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1252	25690	विजेय शक्ति होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1253	25696	सुमंगली चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1254	25703	एग्रो एण्ड अनिमल फार्म्स (नीलगीरीस) प्राइवेट लिमिटेड
1255	25741	पवित्रा प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1256	25745	गैलेक्सी एस्टेट्स एण्ड हाउसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1257	25759	साउथ इण्डिया सोल्स प्राइवेट लिमिटेड
1258	25763	ऐडसोल ट्रेवल्स एण्ड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
1259	25781	सेन्दुरन प्रान फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1260	25798	ग्रीनपीस ओरचार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1261	25812	क्लब रेन्डेजवाउस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1262	25825	एवरग्रीन टी प्राइवेट लिमिटेड
1263	25836	केप केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1264	25841	आण्डवार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1265	25846	ग्लोरिया जेम क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1266	25860	कर्पाधारु फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1267	25911	पारामाउण्ट ऑटो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1268	25928	अवर लेडी कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1269	25929	मनीयन्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1270	25953	लाइन सिटी डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
1271	25958	मेचलेस फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1272	25987	श्री राम अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1273	25990	श्री साई लक्ष्मी एस्टेट्स लिमिटेड
1274	25992	बॉडी ओम नारायणा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1275	26006	एपीएल पोली बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
1276	26007	रामबाबु इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1277	26022	खोडै एस्वरय्यास होलीडे रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1278	26024	माक्सिमा विट्स (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1279	26039	कमलेश फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1280	26063	ओरियाण अक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1281	26069	वीरा अक्वाकल्चर एण्ड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1282	26086	मुकेश प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1283	26090	ब्रिन्दावन आग्रो फार्म्स एण्ड रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
1284	26108	मेट्रो डिटेकटीव एजेन्सी (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
1285	26109	श्री गणेश साल्वेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1286	26112	पीसेस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1287	26120	रवी बायो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड
1288	26128	सेलीन्को निड्रिंग प्राइवेट लिमिटेड
1289	26139	कोको अक्वामिनरल प्राइवेट लिमिटेड
1290	26164	मद्रास फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1291	26180	पापैन आग्रो फार्म्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1292	26202	मार्था अक्वा प्राइवेट लिमिटेड
1293	26211	निकिता अक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
1294	26219	अग्नि टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
1295	26249	विशनेल्ले प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1296	26254	सिग्नेट अक्वा फार्म्स लिमिटेड
1297	26258	ग्रेस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1298	26269	सैनो क्लीन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1299	26321	त्रिबुवन प्रोपर्टीस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1300	26334	अमेरिकन लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1301	26368	सररश लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1302	26372	विजयाराम टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1303	26379	पेरफामन्स कम्प्यूटर & इलक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1304	26421	करपगा केमिकल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
1305	26438	बेस कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1306	26456	सुभा श्री चित्राम्माल चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1307	26462	वैभव प्लान्टेशन्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड
1308	26472	राव एम्प्लोयमेन्ट एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
1309	26497	अभीरामी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1310	26521	प्रीतम कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1311	26539	शान सू प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1312	26559	एसन्यू लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1313	26566	डार्ट वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
1314	26583	पेन्टा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1315	26586	श्री सदासीवम चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1316	26588	अनन्थु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1317	26601	साउथ कोस्ट कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1318	26680	सृष्टि टीक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1319	26692	जगलक्ष्मी प्लान्टेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड
1320	26717	राज एण्ड यश अल्लोई प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1321	26722	फोइनिक्स डेकोरेटिव पोलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1322	26737	कोन्गु चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1323	26772	सुरबी क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1324	26776	आई वी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
1325	26790	कन्सै ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1326	26799	अम्बुली इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1327	26824	सीमेन एल्सी प्राइवेट लिमिटेड
1328	26828	तिरुमगल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1329	26839	वाटन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1330	26855	श्रीराम शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1331	26892	श्री उदयम चिट फण्ड्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1332	26953	के.ए.के. चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1333	26985	विष्णु टेकनिकल कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1334	27021	सनसुला फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1335	27024	होटल जास्मिन प्राइवेट लिमिटेड
1336	27029	मथुरा पॉवर कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
1337	27041	गोपी प्रिया ट्री प्लान्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
1338	27067	चन्द्रकान्त फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
1339	27077	नयणशान्ती होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1340	27090	कुम्भाकोणम आरवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1341	27108	वेट्री डेयरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1342	27116	टॉरस ओवरसीस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1343	27118	ग्राण्डलेयोन टेक-मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1344	27148	श्री विजया सरस्वती स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1345	27161	टी.डी. बालाजी अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1346	27225	वसन्त सेल्वीस चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1347	27230	फूल मूण प्रोपर्टी प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1348	27233	अच्युता केमटेक प्राइवेट लिमिटेड
1349	27238	ब्लू बेस अक्वा हारवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
1350	27247	कोविलपट्टी ओम आदिपराशक्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1351	27254	ट्राईलक्स पॉवर एक्वूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1352	27255	स्प्रिंग शील्ड फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1353	27293	राजा गिरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1354	27302	क्यूबिक मारकेटिंग (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1355	27319	यूनिकोर्न सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1356	27351	नेल चिट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1357	27362	अक्षय ब्रीडर्स प्राइवेट लिमिटेड
1358	27367	श्री साई पारधा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1359	27375	फ्रागरेन्ट फार्म्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1360	27377	श्री राजम चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1361	27413	इन्का केब्स प्राइवेट लिमिटेड
1362	27418	एलील पदमा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1363	27419	टेद्रा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1364	27448	मयूर ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड
1365	27453	के.के.आर. रेसिडेन्सी क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1366	27489	डैनापावर इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1367	27492	टूटिकोरिन सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
1368	27495	प्लेक्स सरजीटेक प्राइवेट लिमिटेड
1369	27507	मल्टी फोकस एक्सपोर्ट्स एण्ड मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1370	27575	शेयर क्राफ्ट फायनेन्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1371	27576	बालाजी ऑटोमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1372	27588	श्री पाण्डियण चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1373	27598	सक्सा स्टाक्स & सेविंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1374	27614	गोल्डन हारट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1375	27621	क्लाम्स पाली-किस्टेल प्राइवेट लिमिटेड
1376	27625	श्री लक्ष्मीचैदन्या आग्रो फाम्स एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1377	27627	आर.आर. आग्रो फाम्स एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1378	27630	मास मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1379	27639	प्लासेम्स टूरस & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
1380	27679	विमल आग्रो फाम (तूत्तुकुडी) प्राइवेट लिमिटेड
1381	27692	श्री देवी अक्षया चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1382	27727	एस.आर. प्लाश बड वेल्डींग प्राइवेट लिमिटेड
1383	27731	श्री सिवानन्दा चिट फण्ड्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
1384	27741	नवरुघ्ना फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
1385	27748	मण्णारगुडीयम्मा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1386	27791	जे.जे. हेल्थ केर सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
1387	27794	आल्फा काम्पस सरवीस प्राइवेट लिमिटेड
1388	27815	लेदर एण्ड लेदर गूट्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
1389	27851	चैदन्या वैशनवी कोपियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1390	27855	फिरेन्स मानपावर कणसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1391	27861	वी.एस.आर. आग्रो फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
1392	27868	भागिय महालक्ष्मी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1393	27872	अम्रिता फैनान्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1394	27879	नेल्लै टेक्सटैल्स प्राइवेट लिमिटेड
1395	27883	सी क्रियण अक्वा कल्चेर प्राइवेट लिमिटेड
1396	27895	अनुप्रिया हौसिंग एण्ड प्रोपर्टी डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
1397	27896	इकोसिस सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1398	27907	मल्टीप्रोप्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1399	27912	महाजना ट्रेड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1400	27927	अरवी सिम्प प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1401	27937	जीएनआर फैनान्शियल रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
1402	27947	न्युलिनि कार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1403	27949	हारमिणी एक्सप्रेस सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड
1404	27956	मानावाटी ट्रेटरस प्राइवेट लिमिटेड
1405	27962	पूर्णालया मेडिकल इक्विप प्राइवेट लिमिटेड
1406	27971	श्री अनुमण फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड
1407	27988	बाम्बण टूरस & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
1408	28003	साई सिद्धार्थ होटल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1409	28005	विष्णु प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1410	28007	मईलै वैलान्कन्नी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1411	28009	सुनिप साफ्टवेयर कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1412	28014	भारत कम्प्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
1413	28015	एससिएनटावि आग्रो फार्म्स & एन्टरटेन्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1414	28016	जयाविजय एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1415	28018	अमर आठो फोरजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1416	28033	स्टार प्रान्स कल्चर प्राइवेट लिमिटेड
1417	28039	एनटी मीडियावेयर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1418	28068	सुभा मुनाक्षी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1419	28076	यूनिक अक्वा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1420	28077	राकशैण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1421	28083	तेनी ओम श्री प्रकाश चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1422	28092	अक्कूर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1423	28093	स्रवना सेक्यूरीटीस प्राइवेट लिमिटेड
1424	28094	एम.बी.आर. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1425	28105	मेगालित फेब्रीक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1426	28134	बिल्लीयन्स मारकेटिंग कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1427	28149	पीकोक अडवैसोरिस प्राइवेट लिमिटेड
1428	28150	एवरग्लो कूरियर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1429	28153	सिएमसि सोफ्टे प्राइवेट लिमिटेड
1430	28162	श्री लेक्ष्मी अक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1431	28166	पाण्डीविलै पाण्डियन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1432	28178	अक्षया बेकरस & प्रोसेसरस प्राइवेट लिमिटेड
1433	28184	ए.के. इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1434	28199	बीएमएन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1435	28204	सॉफ्टलिनक कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1436	28208	माइको एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1437	28210	माइको इरीगेशन प्राइवेट लिमिटेड
1438	28226	टीसीएम फाउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड
1439	28232	कार्तिक शेयर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
1440	28241	भगवधोअम्मण चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1441	28244	हापी स्टे इन्स प्राइवेट लिमिटेड
1442	28256	श्री हरीगुरु गारमेन्ट्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
1443	28270	टीवीके-मेक्सराय फैनान्स & कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1444	28274	ओयोसिस सीफुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1445	28304	श्री वन्नी विनायगर चिट फण्ड्स (सातुर) प्राइवेट लिमिटेड
1446	28305	बान्सीय लेदरस प्राइवेट लिमिटेड
1447	28306	राजी अप्पारेल्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
1448	28310	मेगनम न्यूस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1449	28311	बेरशीबा इन्फोरमेटिक सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1450	28319	चका राजा रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1451	28320	के.के. कन्सल्टेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1452	28328	वेक्कालीअम्मण् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1453	28336	मड्डोन्ना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1454	28343	बोडी श्री लक्ष्मी गणेश चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1455	28344	प्रशान्ती इन्जीनियरिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1456	28350	मेगनम बेटरीस प्राइवेट लिमिटेड
1457	28355	थम्बी इजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1458	28358	इन्डो-फिल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
1459	28359	वीयेण ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
1460	28360	मनसे ऐरिकेशन एक्स्पमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
1461	28380	कवि फूटवेयरस प्राइवेट लिमिटेड
1462	28381	कुमरण ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1463	28387	जी.के. अक्वा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1464	28388	बोडी श्री रंगा आण्डाल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1465	28392	सदर्ण जेनरल मेरगन्डैस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1466	28393	सन कन्ट्रोल फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
1467	28396	नाचू चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1468	28404	श्री अमरप्पन फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1469	28416	श्री सुका एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1470	28446	डेल्टा चिट्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
1471	28462	स्वर्णा अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
1472	28474	वल्लवन चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1473	28484	लीरा फैनान्शियल कणसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1474	28490	जी.पी. केयेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1475	28491	आजकल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1476	28494	अरसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1477	28508	ग्रीन पार्क फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
1478	28512	सेन्दील आण्डवर इन्जीनियरिंग & एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1479	28513	कम्बाइन्ड कूरियर्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1480	28516	ही सी इमेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1481	28517	वी अक्वा फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
1482	28534	इन्डस रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1483	28536	तमिलनाडु गैस प्राइवेट लिमिटेड
1484	28539	वेदगिरी विमलक्ष्मी अग्रीकल्चरल् रिसर्च & डेवलपमेन्ट कन्सोर्डियम् प्राइवेट लिमिटेड
1485	28542	इन्टर मोड फ्राइट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1486	28544	रान्स फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1487	28548	माग ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
1488	28555	मायुरम श्री रेगा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1489	28557	श्री पाक्कीयलक्ष्मी चिट् फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1490	28563	प्राभाट चिट्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
1491	28570	स्टालवार्ट कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1492	28571	राधा राणी स्पिन्नरस प्राइवेट लिमिटेड
1493	28573	प्रार्थना लेदरस प्राइवेट लिमिटेड
1494	28588	एक्सेल कार्स्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1495	28598	मेर्कुरी सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1496	28601	मेडरास फैब्रेर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1497	28603	जेन्नी फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1498	28610	अरघणास पाली मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1499	28627	गोल्डन मीडोक्स प्राइवेट लिमिटेड
1500	28630	अल् अफ्टाब हायशेरी प्राइवेट लिमिटेड
1501	28637	सीबीएम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1502	28640	कोको-लैम प्लानटेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1503	28660	एसबिआर फेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1504	28661	लिप्पो मरैन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1505	28685	लैफगॉड मेडिकल डैक्नास्टिक सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
1506	28699	जीएणआर एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
1507	28700	मेरलिन प्लेसमेन्ट सरवीरास प्राइवेट लिमिटेड
1508	28701	एक्सेल शिपिंग एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
1509	28712	प्रिन्स फार्म्स एण्ड एग्री कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1510	28728	मार्स कार्स्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1511	28730	ज्ञान भारती चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1512	28732	जे.के. मरीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1513	28745	शिवलोग प्रिन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1514	28753	जेबीआर ट्रेड एण्ड प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1515	28764	सी-टेक इलक्ट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1516	28768	सुप्रीम्स गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1517	28769	पद्मश्री फायनेन्सियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
1518	28770	रापीकुर रेमेडीस प्राइवेट लिमिटेड
1519	28772	श्री अकल्या चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1520	28774	तिल्लै लक्ष्मी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1521	28786	श्री कालीअम्माल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1522	28795	एनकेएन चिट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1523	28820	बुड हेवन एस्टेट्स एण्ड एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
1524	28825	श्री कमला ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
1525	28835	इन्टरनोवा ऑर्थो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1526	28837	शारीक्स सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
1527	28838	ड्रास टॉप आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1528	28856	बो कार्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1529	28859	शील्ड इन्फ्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1530	28862	सन रोस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1531	28863	सन सम्मर रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1532	28869	श्री सर्वसिद्धिविनायगर चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1533	28870	लिंग टीक ट्री इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1534	28885	जेम ओरचार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1535	28894	वेस्टर्न घाट्स हिल प्लान्टेशन्स लिमिटेड
1536	28904	मेरक्यूरी इलेक्ट्रिकल असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1537	28924	ट्रेड स्पेक्ट्रम प्राइवेट लिमिटेड
1538	28925	नरबवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1539	28931	वैरवन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1540	28932	मदुरै अक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1541	28938	रेई ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1542	28941	अग्रोहा ग्रीन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1543	28963	वाटन स्टील प्राइवेट लिमिटेड
1544	28964	आईसीआरसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1545	28968	रेमैन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1546	28973	कार्गो पूल इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
1547	28982	आरोन फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1548	28987	अबीथा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1549	28990	मीरा फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1550	28992	कलिका देवी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1551	29012	वेरज फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1552	29016	इन्टरनेट ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड
1553	29022	वीणस फारमा प्राइवेट लिमिटेड
1554	29026	एक्सल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1555	29054	पाल एण्ड प्रिया एस्टेट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1556	29062	वी.ए.टी. अक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1557	29067	नेलफीन आग्नो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1558	29068	एस्सार सेक्युरीटीस प्राइवेट लिमिटेड
1559	29069	जे जे सूपर सिमेन्ट्स (अरियलूर) प्राइवेट लिमिटेड
1560	29082	ट्राइनेट फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1561	29094	एमएसएसी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1562	29100	मीमॉस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1563	29111	केजेएम अक्वा हट्चेरी प्राइवेट लिमिटेड
1564	29123	ब्लू सी मरैन सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1565	29124	सूपर डूंपर टीवी प्राइवेट लिमिटेड
1566	29139	कुमरन एण्ड कुमरन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1567	29148	एम्बासी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1568	29157	विनायगा हौसिंग & प्लान्टेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1569	29170	ड्यू ड्रॉप अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1570	29172	सुबुकी ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1571	29175	फास्ट फोरवार्ड कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1572	29194	योगी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1573	29197	श्री उप्पीली चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1574	29199	बोसेस इन्टिग्रेटेड फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1575	29201	मेक्सिमा इंटरियर डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1576	29209	एकनाथ कम्प्यूनिकेशन्स लिमिटेड
1577	29213	वीजया एमआरए प्राइवेट लिमिटेड
1578	29214	पाथ फैंडर फैनपान्शियल सर्वीसस (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1579	29215	औरा मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1580	29227	चिप्लेस इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1581	29232	जी.के.एलपीजी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1582	29234	डीप्ती कोयर इन्डस्ट्रीरीस प्राइवेट लिमिटेड
1583	29239	सिटीजन्स टीम (काण्दाक्टर्स & रियल एस्टेट) प्राइवेट लिमिटेड
1584	29254	रोल आण इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1585	29256	दीपनिक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1586	29262	जेनित मार्केटिंग एण्ड सेल्स सर्विसस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1587	29276	प्रोक्सी-मेट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1588	29279	सीएमएस स्टोन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
1589	29303	मेट्रो इन्वेस्टमेन्ट्स सिडिकेट प्राइवेट लिमिटेड
1590	29313	सन चिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
1591	29319	रधनम् फेब्रीक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1592	29327	आरगस ग्राफिक्स विशण प्राइवेट लिमिटेड
1593	29344	जेन पॉवर इलक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1594	29345	फेशन कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
1595	29346	फेशेण् वाशिंग प्राइवेट लिमिटेड
1596	29348	ज्योती अक्टक इन्डस्ट्रीरीस प्राइवेट लिमिटेड
1597	29356	मेटर एण्ड मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1598	29378	हयर लेडीस प्रोप्लीशेर्स प्राइवेट लिमिटेड
1599	29386	मेकफेब इंजीनियर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1600	29408	रेणुका इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1601	29428	एम.के.फाम्स & रेसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
1602	29435	सरस्वती क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1603	29441	बीबीए सेक्यूरिटीस एण्ड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
1604	29448	इन्जीनियरिंग एक्स्प्लेन्ट वोरक्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
1605	29450	अन्नातूर डेयरी एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1606	29451	जे.एस. हेरिटेज रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
1607	29469	जुपिटर गारमेन्ट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1608	29475	अलकप्पा फैनाशियल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1609	29477	शारोन फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
1610	29491	टेस्को कन्सट्रक्शन्स एण्ड कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1611	29497	अधिद्या काम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1612	29498	अकाश कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1613	29509	रैनबो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1614	29514	पटनम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1615	29521	होशिया इम्पोर्ट & एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1616	29543	क्लारिन्स सोप्स प्राइवेट लिमिटेड
1617	29544	अनु बिल्डरस प्राइवेट लिमिटेड
1618	29562	जी.डी.आर. फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1619	29570	जी.पी. ग्रेनाइड्स प्राइवेट लिमिटेड
1620	29591	लियो होडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1621	29594	एआरएस गारमेन्ट्स लिमिटेड
1622	29596	श्री सक्ती सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
1623	29614	अल्फा कम्प्यूटर प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1624	29615	आन्ध्रा एग्रो एण्ड अक्वा सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1625	29619	ट्रान्सलंगा टूरस एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
1626	29621	एस.पी.एस. मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1627	29628	श्री सैला अक्वा फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
1628	29629	अली & अली आल इण्डिया ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1629	29637	मधुरा फार्म्स हाउस एण्ड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1630	29641	एस एस हेरबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1631	29645	एलजेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1632	29646	जेन्टिलमेन लाट्री एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
1633	29648	मन्ने टी.एम.आर. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1634	29649	न्यू लिंक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड
1635	29667	वी.एन. अक्वा फुड लिमिटेड
1636	29669	ट्रेजर ट्रोव कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1637	29692	वर्ड्सवर्थ फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड
1638	29701	कार्डिनल फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1639	29721	एसपीएम होटेल्स एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
1640	29730	ओरियन्टल सीम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1641	29770	देवीकृष्णा अक्वा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड
1642	29802	वाई.के. लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1643	29813	कोम्पोनेन्ट्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1644	29833	पेरलसिटी सिनीमा कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1645	29866	अल् फर्टा दावल्स प्राइवेट लिमिटेड
1646	29876	एवरशैन शिपिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1647	29933	प्रिन्सू मल्ली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1648	29940	मिरलिन स्टाक एण्ड शेयरस प्राइवेट लिमिटेड
1649	29953	आईसा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
1650	29972	मोनामी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1651	29973	इन्डेक्स फैमान्शियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1652	29998	बुल मारकु इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1653	30028	हाईड्रो-मेक एण्ड अक्वा टेक कन्सलटेन्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1654	30032	रत्ना चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1655	30040	एम्प्लोई-नेट प्राइवेट लिमिटेड
1656	30041	सेफनेट फायनेन्शियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1657	30042	टी.के.एन. होलिडे रिसोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1658	30043	टी.के.एन. हाउसिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1659	30061	पीक-एन-पेक पोली इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
1660	30072	मेट्रो एक्सप्रेस कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1661	30092	राफेल डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1662	30096	एस वी फायनेन्शियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1663	30123	बालाजी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
1664	30136	केएनपी ट्रेडिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1665	30166	टवेल्को फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1666	30175	यूनि बिल्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
1667	30183	मेक्सीमा मेटल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
1668	30188	अमीका लेदर प्राइवेट लिमिटेड
1669	30191	ग्रीन हेवन प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
1670	30196	श्री सामी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1671	30200	वेककालीअम्न रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
1672	30204	सूरज सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
1673	30225	ओम गणेश स्टील प्राइवेट लिमिटेड
1674	30230	मडोन्ना फायनेन्शियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1675	30234	राजा रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1676	30245	सीकर्स फार्म्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1677	30255	सीवाश्री चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1678	30260	ए.जी.आर. अमरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1679	30261	इस्कावयर फायनेन्शियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1680	30269	कोरोनेशन ज्वेलरी मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1681	30274	प्रोरिच फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1682	30281	मास अक्वा हाटचेरी प्राइवेट लिमिटेड
1683	30283	बोडी श्री कवितालया चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1684	30289	श्री राम कोको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1685	30311	एम्बियेन्स लीजर होलिडेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1686	30313	एक्सेल मेडीकल टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
1687	30324	वेल्स फेब्रिक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1688	30327	अक्रोन पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
1689	30332	मोडर्न लेदरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1690	30335	विजया प्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
1691	30349	इन्डा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1692	30353	श्री करपगा विनायगर सेक्युरीटिस प्राइवेट लिमिटेड
1693	30360	जैन्ट ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1694	30365	श्री शक्ति भगवती प्राइवेट लिमिटेड
1695	30381	श्री वैष्णवी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1696	30390	टेमवेल्ल (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1697	30400	एसबीआर एग्रो एण्ड शीप फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1698	30409	स्टार एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1699	30422	मेडिया नेट प्राइवेट लिमिटेड
1700	30423	एन्कार केश्यू गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड
1701	30425	वेंकटेश कोकोनट प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1702	30432	बार्नाबास अर्थ मूविंग प्राइवेट लिमिटेड
1703	30433	फेक्सटोन कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1704	30457	रॉयल मेरीटाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
1705	30458	प्राइम लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1706	30489	फ्रीज लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1707	30490	धवल फिल्मस् इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1708	30497	सुरेखा हेरबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1709	30505	इन्फिनाइट केरियर डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
1710	30506	ग्रेन्डयूर मशीनरी एण्ड एक्जूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1711	30507	अटलान्टा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1712	30516	रामसरोज अक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1713	30523	आदी भगवती स्टील्स एण्ड फेब्रीकेशन प्राइवेट लिमिटेड
1714	30532	इम्प्रेसिव फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1715	30567	रौनबो इन्वेस्टमेन्स एण्ड सेक्युरीटिस प्राइवेट लिमिटेड
1716	30572	सीकर्स रिजोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1717	30576	एमपीके इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1718	30583	क्रेसेन्ट ट्रेडिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1719	30606	मोहना प्लास्टिक पाइप प्राइवेट लिमिटेड
1720	30619	क्वालिटी स्पाइस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1721	30627	के एण्ड के कम्प्यूनिक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1722	30630	टोटल सेफ्टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1723	30637	मेघ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1724	30647	जया सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1725	30648	ब्लूसी फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1726	30664	मूलचन्द शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
1727	30670	फोनिकस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
1728	30680	थाकडी फार्मा लिमिटेड
1729	30686	रजीनी कन्फेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1730	30688	श्री विनायगा फ्लोरी एण्ड होटी प्राइवेट लिमिटेड
1731	30704	सेल्वा अडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
1732	30705	रुपर फाइन टेक्स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1733	30714	बुल्स आई फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1734	30724	ग्रीन वेल्ली रीयल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1735	30735	केडमेक्स कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1736	30742	श्री सरसु एण्ड कम्पनी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1737	30757	स्ट्राटेजिक इक्विटी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
1738	30763	सागर इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1739	30775	अम्बिका प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1740	30777	वल्ली सुधन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1741	30784	गोखर सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
1742	30793	सी रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1743	30805	शोभा कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1744	30814	टॉप पोइन्ट अग्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1745	30833	वर्धमान फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड
1746	30835	प्रणाम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1747	30836	चांदनी अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1748	30870	ऐश्वर्या फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1749	30875	ब्लू बेल्स फायनेन्सियल सर्विसस लिमिटेड
1750	30879	न्यूट्रेण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1751	30894	रोनक फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1752	30896	श्री सत्यासाई स्पाइसस प्राइवेट लिमिटेड
1753	30905	अग्मा बिल्डर्स एण्ड डेवेलोपर्स लिमिटेड
1754	30913	सीजेएसके कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1755	30914	वेन गोघ डेवेलोपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1756	30926	टेलेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1757	30941	मा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1758	30971	कावेरी कैपिटल एण्ड फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1759	30979	मोटोरन ऑटो एक्सेसोरीस प्राइवेट लिमिटेड पीपीआर
1760	30981	परफिक्स शू कोम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1761	30982	मास एनेर्जी एंड्सर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1762	30990	टेरी कोसमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1763	30996	लेखा सोनोटोन रिकॉर्डड म्यूजिक लाइब्रेरी प्राइवेट लिमिटेड
1764	31004	फ्रन्ट लाइन केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1765	31013	टेकनिक्स जियोसिस्टम्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1766	31015	सिरेमल हीराचन्द ऑटोपार्ट्स लिमिटेड
1767	31034	मेक्सीमा ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
1768	31037	विलियम्स फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1769	31038	स्काइलाइन फ्राइट फोर्वार्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1770	31049	स्वर्ण रत्ना फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1771	31057	सार्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1772	31073	राम-सुन्दर कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1773	31095	तेनी श्री वेकटा लक्ष्मी चिटफण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1774	31101	तमिलनाडु एक्स-रे एण्ड स्केन्स प्राइवेट लिमिटेड
1775	31102	श्री गुरु शान्ति अग्रो फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1776	31106	वर्क मेट्स इन्टिरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1777	31110	ग्लो ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
1778	31111	डीप वूड्स एण्ड वाइल्ड फ्लोवर्स प्राइवेट लिमिटेड
1779	31112	मोलासर ओरचार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1780	31117	ए.एस.मुत्तू प्लान्टेशन्स डेवेलोपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
1781	31124	सुजैन कमर्शियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1782	31138	मेल्कोन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1783	31139	सिन्डीकेट फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1784	31145	मीना एण्ड मीना लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1785	31154	जी.आर.वी. सेक्युरीटिस प्राइवेट लिमिटेड
1786	31174	सोमसुन्दरम चेष्ट्रियार ज्वेलरी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
1787	31188	ज्ञानम् चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1788	31190	अमेजर लेदर प्राइवेट लिमिटेड
1789	31209	मार्स्को ग्रानेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1790	31215	श्री बालाम्बिका चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1791	31268	राजा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1792	31300	पोन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1793	31304	माइक्रोफिट ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1794	31305	एक्सेल क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
1795	31313	महा दीपम् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1796	31320	विक्टर्स इन्कोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1797	31326	स्वाति फाइनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1798	31355	तेन्ल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1799	31357	तमिलमगल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1800	31361	सदर्न ग्लूस् प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1801	31368	नेचर टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1802	31379	योगम सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1803	31390	प्लैन पेपर कोपियर्स सिस्टम्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1804	31391	रामलाल इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1805	31425	टोपो ग्राफिक्स एण्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1806	31432	मेक्सीमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1807	31433	के.जी. स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1808	31434	मेक्सीमा क्लोथिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1809	31440	सरवना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1810	31452	पोन कार्तिक मेनपॉवर एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
1811	31458	एबीटी अक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1812	31459	एम.टी.आर. ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1813	31460	अडरोइट ट्रान्स प्राइवेट लिमिटेड
1814	31467	ट्रान्सलाइन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1815	31478	नूरज अग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1816	31479	पोजिटिव एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1817	31480	पीकॉक इलेक्ट्रॉनिक्स फाउण्डेशन लिमिटेड
1818	31491	मनी पॉइन्ट फायनेन्सियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
1819	31511	बीएसएस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1820	31528	फ्रेण्ड्स फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1821	31533	नाजिल अपार्टमेन्ट कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
1822	31536	ग्रीन इन्वेस्टमेन्ट फार्म एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
1823	31542	अलानविस होमलिव्स प्राइवेट लिमिटेड
1824	31547	श्री एलुमलैयान चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1825	31555	अबीरामी अक्वा अन्नेक्सा मद्रास लिमिटेड
1826	31569	आईसी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1827	31571	एएलपी कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
1828	31577	विशेष शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड
1829	31588	मेरीटेक एन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
1830	31599	चोय्स फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1831	31601	शक्ति दुर्गा इंजीनियर्स एण्ड कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1832	31616	विन्टेज हरबल्स प्राइवेट लिमिटेड
1833	31622	डिजिटल इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1834	31628	सेल्का वाटर ट्रीटमेन्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1835	31635	साई सत्या नारायणा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1836	31644	मेक्सीमा कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
1837	31650	नवी इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
1838	31652	के.के. इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
1839	31655	एम.एस. कन्सट्रक्शन्स एण्ड डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1840	31661	केवीयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1841	31665	ओरियन्टल ग्लूकोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1842	31671	संदर्भ ट्रान्सएयर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1843	31673	शक्ति दुर्गा होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1844	31675	श्री सेल्वाबालाजी चिट प्राइवेट लिमिटेड
1845	31694	सिप्पी हाउसिंग एण्ड एग्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1846	31696	रिलायबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1847	31706	ओम्कार चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1848	31708	सतीश लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड
1849	31712	भूपति डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1850	31715	बेस्ट इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1851	31716	के.जे.आर. पौलट्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1852	31721	एस.एन. स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1853	31740	दिवियान लेदर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1854	31758	मास मार्केटिंग एण्ड फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
1855	31764	गुम्मीडीपुण्डी आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
1856	31781	मद्रास मेटल प्राइवेट लिमिटेड
1857	31791	झिग्मा एक्सपर्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
1858	31792	सेन्दिल शिवशक्ति चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1859	31794	मनी मेनेजमेन्ट सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
1860	31815	वेप ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
1861	31817	श्री लेड्स फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1862	31828	श्री जोदी लक्ष्मी टीक वुड प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1863	31829	केपरैन फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
1864	31836	इण्ड एयर ट्रीटमेन्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1865	31844	श्री कोपुडैअम्मन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1866	31864	नेताजी सेक्यूरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
1867	31868	सीटि ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड
1868	31925	पीक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1869	31981	मेजरवेल इन्ट्रामेन्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1870	31983	निक्वी कन्सलटेन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1871	31997	एयर मास्टर इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1872	32003	हिलिओस एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
1873	32011	वेन्टेज अडवरटाइजिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1874	32014	पेन्टागन सेक्यूरिटी सर्विसस लिमिटेड
1875	32046	एञ्जिल कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1876	32048	लाया कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1877	32056	सरवना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1878	32061	माइटी टेक्स लिमिटेड
1879	32079	जार्डिन एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
1880	32089	वी.आर. इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड लिसिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1881	32090	एम.के.ग्रानैट्स & मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1882	32093	मूकाम्बीकै एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1883	32108	औरो इक्वीटी मैनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1884	32114	युरो शूस प्राइवेट लिमिटेड
1885	32122	आरती टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1886	32130	राफियल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1887	32137	गुडवर्थ ओरचार्ड्स लिमिटेड
1888	32142	अशा इण्डियन एयरवेस प्राइवेट लिमिटेड
1889	32143	अशा विन्ड एनरजी कणसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1890	32144	अशा विन्ड एनरजी प्राइवेट लिमिटेड
1891	32150	श्री विग्नेश्वरा प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1892	32151	तमिलनाडु फार्म्स एण्ड हारवेड्स प्राइवेट लिमिटेड
1893	32161	श्री साईराम टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1894	32166	केरला ट्रांसपोर्ट सर्विस (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
1895	32169	शिल्पा आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1896	32174	अनुभव सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1897	32179	स्वास अप्पेरेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1898	32197	ऐसक & पाल आग्री फार्म्स & फैनान्स प्राइवेट लिमिटेड
1899	32205	सम्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1900	32206	वेरजिन टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
1901	32207	जे सिल्वरहिल्स शीप फार्मिंग लिमिटेड
1902	32215	ग्रीन पार्क गारडेन्स प्राइवेट लिमिटेड
1903	32218	श्री जयम स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड
1904	32220	ब्रिलियन्ट ऑटो स्पेर्स प्राइवेट लिमिटेड
1905	32228	जीवीएल ब्रेडर्स विंग इलक्टीक जेनरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1906	32232	डेल्टा फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1907	32244	पुदुक्कै पेक्टीन प्राइवेट लिमिटेड
1908	32254	गलन मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
1909	32258	कोकून टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
1910	32259	अब्लूम फैनान्सियल सर्विसेस & इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1911	32261	ईया इलक्टीकानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1912	32263	वेन्यू ऐस रिटोर्ट फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1913	32285	पल्लमुदीर सोलै आग्री-टेक प्राइवेट लिमिटेड
1914	32304	फ्लाई हाई सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1915	32308	पी&डब्ल्यू ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1916	32323	फेब्लेक्स एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1917	32324	ब्रूकम्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1918	32331	श्री विरिजेरश्वरी मेरगन्डैसरस प्राइवेट लिमिटेड
1919	32335	अवे फिन्स्टाक प्राइवेट लिमिटेड
1920	32337	सूर्या ईस्ट कोस्ट फार्म्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1921	32342	मिराण्डा रबबर फेक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
1922	32346	आर्च बिसिनेस लिन्क प्राइवेट लिमिटेड
1923	32350	ईगल इम्पेक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1924	32357	कपिटल शिप्पर्स एण्ड कोरियर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
1925	32369	मीरा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
1926	32390	फैव फाल्स होटल्स & रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
1927	32403	फारमालाइड्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
1928	32407	इन्टिग्रेटेड बिजनेस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
1929	32446	पकालोन शिप्पिंग प्राइवेट लिमिटेड
1930	32448	वेस्टर्न घाट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1931	32460	गोल्डन हिल ग्रीन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1932	32465	सउद फसिपिक लेदर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1933	32469	एनएसएम ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
1934	32470	सशी फैनान्शियल एण्ड टेक्निकल सर्वीसेस लिमिटेड
1935	32481	कसिनो रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1936	32486	गेलाडा रीम्स प्राइवेट लिमिटेड
1937	32488	प्रोफेशनल असोसियेट्स कणसल्टेन्ट्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1938	32491	कन्सूल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1939	32514	नैरा निट्टेर्स प्राइवेट लिमिटेड
1940	32516	सदर्न एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1941	32518	आर.के.सिस्टमिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1942	32522	मूलचन्द टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1943	32524	इसण बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1944	32526	ओम शक्ति पेकेजिंग मेटिरियल प्राइवेट लिमिटेड
1945	32534	श्री राजेश्वरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1946	32542	जियन्ट ब्लूमेन्टल्स प्राइवेट लिमिटेड
1947	32543	न्यूटन इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कणसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1948	32548	मेक मेनेजमेंट सर्विसस लिमिटेड
1949	32554	आशीमा हॉस्पिटल एण्ड हेल्थ केयर लिमिटेड
1950	32560	मल्टीपल एग्रो-टेक लिमिटेड
1951	32562	मार्स हारडवेर्स प्राइवेट लिमिटेड
1952	32569	ग्रीन हेवन बिल्डर्स एण्ड डेवलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1953	32571	ग्रीन हेवन होलिडे रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1954	32574	ररमी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1955	32577	श्री अयप्पा ओइल मिल प्राइवेट लिमिटेड
1956	32578	अमासिना शिप्पिंग एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1957	32586	यू.एच.एस. शूस प्राइवेट लिमिटेड
1958	32615	रतीनवेल सुब्रमणीयम् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1959	32648	सिग्नल टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
1960	32659	आरक है-टेक कम्प्यूटर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1961	32672	क्यूक मैन्डेयिनेन्स सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
1962	32676	मायोपुरा होली रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
1963	32688	श्रीसिवा ट्रेवल्स एण्ड बिजनेस कॉन्सोरटियम प्राइवेट लिमिटेड
1964	32707	डिकवीजै मारकेटिंग सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
1965	32711	पेगासस कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1966	32716	ए एण्ड बी सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
1967	32719	धनुषराम ग्राफ प्राइवेट लिमिटेड
1968	32720	फ्रिक्वीयेन्सी मिडिया सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
1969	32722	श्री कैवीयेन इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
1970	32731	शुभा रियलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1971	32736	अडवान्स्ड हैटेक एक्सपोर्ट लिमिटेड
1972	32744	एमबीआरएन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1973	32749	लक्ष्मीदेवी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1974	32750	सिलोम् इवनजीलिकल मिशिन प्राइवेट लिमिटेड
1975	32756	रामजयम बिल्डर्स लिमिटेड
1976	32763	विकेवी हिल्ल गार्डन प्राइवेट लिमिटेड
1977	32768	श्री गुगन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1978	32781	क्रिस्टाल बिसिनेस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
1979	32796	शिम्ला रशील एण्ड अलाइड प्राइवेट लिमिटेड
1980	32800	अक्शीता गारमेन्स प्राइवेट लिमिटेड
1981	32802	अण्णै चिन्ता मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1982	32812	राडम वेदर सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
1983	32813	साइनाड् सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1984	32823	गोल्डन डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1985	32835	इम्पाक्ट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1986	32876	रेम इम्पेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1987	32887	एस्सेम ग्रीन वोरट् प्राइवेट लिमिटेड
1988	32891	डी-वेल एकाडमी फॉर इको टूर्स एण्ड अडवेन्चर स्पोर्ट्स लिमिटेड
1989	32897	जेवीआर फार्म रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
1990	32907	देनी ओम सक्ती चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1991	32919	वीजीएम गोड फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1992	32920	क्लीफ इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1993	32929	आर.डी. टेडलिग्स प्राइवेट लिमिटेड
1994	32932	जीके इन्वेस्टमेन्ट्स रियेचर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
1995	32939	रायल टीक एण्ड आग्री प्लान्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1996	32945	पिच्चावरम् गोल्डन अक्वा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1997	32952	एम्मास्सी रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1998	32955	एमएमआर प्रोपरटीस प्राइवेट लिमिटेड
1999	32959	आर्म्स मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2000	32960	अग्नि मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2001	32977	इग्लू रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2002	32985	कौशिक चिट फण्डस् प्राइवेट लिमिटेड
2003	32987	ग्रो बेस्ट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2004	32994	श्री तिरुमलै लक्ष्मी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2005	33008	अमेरिसन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2006	33014	शेल्डन ब्लू मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2007	33015	मार्लिन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
2008	33016	करेन ब्लू मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2009	33020	मेन्यूलसन्स प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2010	33025	वेक्स कम्प्यूटर फोर्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2011	33029	हाई पॉवर इलेक्ट्रीकल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2012	33030	लेण्डस्केप मेटिरियल एण्ड रटोन प्राइवेट लिमिटेड
2013	33051	जेबीआर प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
2014	33057	एसजे प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2015	33060	ई सी वी एग्रो फार्म्स लिमिटेड
2016	33067	वांगल डेयरिस प्राइवेट लिमिटेड
2017	33069	श्री अय्यनार स्पिन्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2018	33074	विश्वास चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2019	33075	टेलन्ट इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फायनेन्सियल्स प्राइवेट लिमिटेड
2020	33079	सदर्न तार प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2021	33085	जुआनी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2022	33089	एनएमके फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2023	33091	एनएमके कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2024	33095	क्लैरवोयी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2025	33097	लतास टेक्सटाइल्स लिमिटेड
2026	33121	डी.पी.बिटमेट प्राइवेट लिमिटेड
2027	33126	तेनी श्री अंगालेश्वरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2028	33143	ग्रेन्ड्यूर सर्वैयर्स प्राइवेट लिमिटेड
2029	33147	लोयला फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2030	33158	प्रिसेस ऑफ हिल्स प्लान्टेशन्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2031	33163	इकनेट शिपिंग लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
2032	33169	एस.बी.ए. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2033	33175	होटल प्रिंस प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड
2034	33176	मद्रास जनरल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2035	33219	केर वेल गोल्ड्स फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2036	33222	एन्को मार्केटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2037	33229	कलाकृति इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2038	33237	साकल्या एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2039	33238	साउथ कोस्ट एविएशन टेक्नालॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
2040	33239	श्री करपगाविनायगर स्टॉक एण्ड शेयर्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2041	33246	विराघिटी लेदर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2042	33261	रोला एग्रोटेक फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2043	33262	अल्पाइन केस्टर प्राइवेट लिमिटेड
2044	33264	फ्रन्ट लाइन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2045	33304	पूर्वलागिन नम्बरगल कन्सुलिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2046	33306	घेन्जी ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
2047	33342	अदुलाथ फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2048	33352	परीमलेश्वरर फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2049	33355	एजेटी सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
2050	33363	श्री रासी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2051	33368	गंगा कावेरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2052	33375	वाटन फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2053	33377	रॉक टाउन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2054	33392	अबीरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2055	33420	शेन्डफथूर क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2056	33421	विन्फ्रेड असोसियेट्स एक्जीम प्राइवेट लिमिटेड
2057	33425	पेन्टागन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2058	33445	बुचानन कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2059	33469	पाडियन सेक्युरीटी ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड
2060	33477	इमयम क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2061	33478	पी आर के फायनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
2062	33490	केफास कान्टेक प्राइवेट लिमिटेड
2063	33495	वी आर स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
2064	33505	एवरस्ट कन्ड्री क्लब प्राइवेट लिमिटेड
2065	33508	मोहता फार्म्स एण्ड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2066	33511	कुना सीफुड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2067	33526	टैटान बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
2068	33536	बालासाई शेयर्स एण्ड सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
2069	33542	कलंगी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड सेक्युरीटिस् लिमिटेड
2070	33547	फू जेन सिरटम्स प्राइवेट लिमिटेड
2071	33554	पेरफिक्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2072	33559	क्रिश डाटा (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2073	33587	नन्दीनी डेयरी एण्ड एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2074	33607	यूनिकार्ड मार्केटिंग सीबीई प्राइवेट लिमिटेड
2075	33627	क्वीनटैरसेन्स मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2076	33629	सागा नीटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2077	33639	क्लासिक सुपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड
2078	33641	फेशन्स कोस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2079	33651	गे फिन्सोर कॉरपोरेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2080	33659	अनुभव इन्फोरमेशन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2081	33661	ए जे इन्फोरमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2082	33667	सन्धान चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2083	33672	ऐश्वर्या क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2084	33674	कौसमोस फोरेस्ट लिमिटेड
2085	33679	मंजु ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2086	33688	विल्मेनमेचैड प्राइवेट लिमिटेड
2087	33691	प्रमोद स्क्रटरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2088	33696	नटराज सेक्युरीटिस एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड
2089	33698	आलयम फायनेन्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2090	33703	रॉयल फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2091	33712	मेट्रो ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड
2092	33719	एएटी सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2093	33733	जीसेन फायनेन्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2094	33734	जी डी हाई टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2095	33739	राजा मरिटाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
2096	33742	सिटिवाइड एक्सप्रेस कुरियर प्राइवेट लिमिटेड
2097	33743	आंजनेया पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड
2098	33746	कान्द्रास्ट अडवरटाइजिंग एण्ड डिजायनिंग एजेन्सिस प्राइवेट लिमिटेड
2099	33754	आरएम इन्वेक्स लिमिटेड
2100	33762	लॉगमेन ट्रेडिंग इण्डिया लिमिटेड
2101	33764	मेक्सवुड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2102	33772	इन्डस मिल्क मेगनम प्राइवेट लिमिटेड
2103	33773	केडल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2104	33779	सुबीश प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
2105	33789	अनुग्रहा गोत फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2106	33815	तिरुमगल लिजिंग लिमिटेड
2107	33825	तुसान इण्डिया मेग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2108	33828	आरएसएम अप्पारेल् प्राइवेट लिमिटेड
2109	33843	ट्रोपिकाना सॉफ्टवेयर लिमिटेड
2110	33854	एलिम हाउसिंह एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2111	33863	रिलोझ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2112	33870	मदुरै विनायका विविंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2113	33874	अन्नै गार्डन प्राइवेट लिमिटेड
2114	33878	वैगै सिमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2115	33879	स्टेरलिंग मेटालुर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2116	33882	इभार फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2117	33900	कोडी अन्नामलै एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2118	33906	जोदी इण्ड फिन कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2119	33908	सीम्मीन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2120	33910	सित्वर हेम्पर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2121	33920	वारतु होम्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2122	33934	के एल सेफ रेकूइयर्स प्राइवेट लिमिटेड
2123	33937	तिरुमगल ट्रेडिशनल चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2124	33941	सुकसुस पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2125	33960	हिन्दुस्तान चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2126	33979	राइट चॉयस प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2127	33982	मेरलिन कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2128	34001	डिजिटल चेनल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2129	34005	जायनाको कम्प्यूनिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2130	34016	सुगन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2131	34031	गोल्डन विंग एड्स प्राइवेट लिमिटेड
2132	34044	संघमित्रा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2133	34060	ओस्मानिक आइल मिल प्राइवेट लिमिटेड
2134	34063	पाम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2135	34065	कलिमा ट्रेवल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2136	34069	सी एन ए सॉफ्ट विजन प्राइवेट लिमिटेड
2137	34071	टेक्नो ट्रेसिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2138	34079	टॉपनोटच कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2139	34086	लेजेण्ड इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड
2140	34092	पैलेस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
2141	34094	गीत सागर प्रोपर्टिस प्राइवेट लिमिटेड
2142	34097	तिरुच्ची केटल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2143	34107	गलाक्जिका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2144	34108	श्री मूकाम्बिकार चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2145	34112	स्वाति स्पाईसस एण्ड कोण्डिमेन्ट्स लिमिटेड
2146	34119	राजाराजन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2147	34123	जागिरदार स्टोक्स प्राइवेट लिमिटेड
2148	34134	रिच सी फुड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2149	34141	वेत फायनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2150	34143	मीझान कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2151	34170	सनशाइन हेल्थ फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2152	34172	मणी मणी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
2153	34176	जेट होलिडे टूर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2154	34177	मेक्रो चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2155	34194	एस.वी.एस. कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2156	34199	रान फ्रूट प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2157	34217	भगत मिनरल्स प्रोसिसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2158	34237	विजयलक्ष्मी प्लोरिटेक प्राइवेट लिमिटेड
2159	34256	जीवीआर फाउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड
2160	34259	ट्रेवल सर्विसस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2161	34292	स्विफ्ट एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2162	34314	मदर इण्डिया गोट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2163	34335	हिरोटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड
2164	34373	ईस्ट वेस्ट अक्वा वेन्च्युर्स प्राइवेट लिमिटेड
2165	34377	डेक्कान एयरलायन्स प्राइवेट लिमिटेड
2166	34399	इल्लमोर्या स्क्रीप्स एण्ड सेक्युरीटिस प्राइवेट लिमिटेड
2167	34410	शक्तिवेल असोसियेट्स आरकटेक्चर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2168	34411	श्री कालीगाम्बाल एग्रो गोट फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2169	34424	जेयास चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2170	34435	श्री वैद्यनाथ टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
2171	34458	लेवी कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2172	34484	वी जी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2173	34499	आरबी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2174	34505	जे आर मैराइन फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2175	34528	सरवना फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2176	34532	अल्फा केड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
2177	34534	जार्ज बदर्स फ्लेट प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2178	34581	झीयोन फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2179	34585	कीर्ति गोट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2180	34599	चेन-राफा प्राइवेट लिमिटेड
2181	34600	एम सी ए डिपार्टमेंटल स्टोर्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2182	34612	हरिधा लेब्स प्राइवेट लिमिटेड
2183	34614	मे इण्डिया एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
2184	34618	वैशाली होम्स लिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2185	34627	नट्टरामैन काजूस प्राइवेट लिमिटेड
2186	34652	गौरी एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2187	34657	केवीआर लेदर प्राइवेट लिमिटेड
2188	34662	गोल्डन बायो टेक प्राइवेट लिमिटेड
2189	34669	शिरडी साई होम वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2190	34673	के जी पंचलाइन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
2191	34675	श्री नारायणा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2192	34680	मेरुर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2193	34689	अमफहज मार्केटिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2194	34692	कोनकोर्ड एयर वोयेजस प्राइवेट लिमिटेड
2195	34712	तमन्ना प्रोजेक्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2196	34714	पी जे एकसीम्स प्राइवेट लिमिटेड
2197	34741	क्लीन वे ड्राई क्लीनर्स प्राइवेट लिमिटेड
2198	34742	एक्सीओम कन्सलटेन्ट्स एण्ड कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2199	34751	बी के आर प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2200	34767	धारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2201	34790	सागा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2202	34795	केलिप्सो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2203	34796	जोडियाक इन्टरग्रेटेड एग्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2204	34828	महा विष्णु चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2205	34847	शक्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ हाउसकीपिंग प्राइवेट लिमिटेड
2206	34863	सुन्दर चिट्स मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
2207	34866	प्लेसेन्ट प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2208	34872	सेनग्यूनो मेडी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2209	34873	राजदान बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2210	34879	ग्राम्स स्ट्रक्चर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड
2211	34880	तमिल पाण्डियन चिट्स तिरुच्ची प्राइवेट लिमिटेड
2212	34892	तमिलनाडु थर्मोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
2213	34897	ब्लूमाउण्ट एग्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2214	34904	आरफा (इण्डिया) फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2215	34906	माबेल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2216	34907	केनान टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
2217	34930	जे के डिकोइलर्स प्राइवेट लिमिटेड
2218	34948	अप्पाका इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2219	34949	भार्गवा मल्टीमीडिया इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड
2220	34952	डीएमआर लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
2221	34956	यलर होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2222	34957	श्री शंखेश्वरा फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2223	34959	आरुधरा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2224	34960	अहाना सेक्युरीटिस् प्राइवेट लिमिटेड
2225	34974	जे ए जे टेलिकोम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2226	34983	इण्डो एशियन स्टील्स एण्ड एल्लोयस् प्राइवेट लिमिटेड
2227	34996	चक्रा अप्पारेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2228	35020	ऐजीजीए होमटेल्स लिमिटेड
2229	35032	एमए कान्टेक्ट क्लब प्राइवेट लिमिटेड
2230	35039	धनवन्तरी मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट लिमिटेड
2231	35041	वीटेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
2232	35092	राकेश मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2233	35093	प्रिल कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2234	35100	सुरेश फैब्रिकेशियल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
2235	35113	जी एस पी फूड्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2236	35115	वारियर आयूरवेदिक नरसिंग होम प्राइवेट लिमिटेड
2237	35118	औरविन्द ओक्सिजन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2238	35127	जूम विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड
2239	35134	वाण स्टाक्स एण्ड इन्वैस्टमेंट्स लिमिटेड
2240	35141	हाक इन्जीन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2241	35177	द्रास टेली नेटवर्क्स लिमिटेड
2242	35182	एन्नारै रिब्रण्स प्राइवेट लिमिटेड
2243	35183	प्रोटिप इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2244	35197	सदीश ग्रोट ग्रीफ्ट (टीक) प्राइवेट लिमिटेड
2245	35205	जे पी वी पेप्परस & बोरडस प्राइवेट लिमिटेड
2246	35206	राकविण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2247	35225	ई.एस. केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2248	35231	भाइरव सीफुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2249	35240	ग्रोमेक्स इन्वेस्टमेन्ट फिडेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2250	35248	पीक कम्प्यूनिक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2251	35250	मद्रास रेसिनो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2252	35262	जीयेस अक्वा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड
2253	35268	देवकी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2254	35271	कादी मरैन फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2255	35287	कान्गोर्ड रोडवेस प्राइवेट लिमिटेड
2256	35308	शिव सक्ति मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
2257	35309	बोकाडिया पालीटेक प्राइवेट लिमिटेड
2258	35310	छिरैया मेटल्स & पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
2259	35327	ग्रीन्चे चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2260	35330	मिनाक्षी इन्वेस्टमेन्ट सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2261	35341	कुरुण्जी प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2262	35375	श्री वेंकटलक्ष्मी डेयरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2263	35384	जेय सण डैमण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2264	35386	श्री सरय्यराम किराण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2265	35395	है-टेक पॉवर लाण्डरि प्राइवेट लिमिटेड
2266	35400	श्री कमलेश अग्री डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2267	35406	विशण कणस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2268	35408	मानसरोवर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2269	35439	ग्राफिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2270	35444	मूर्ति फार्मा टेटरस प्राइवेट लिमिटेड
2271	35448	जेएम फेर्न एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2272	35465	वीएक्सएल चिट्स (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
2273	35475	अडोनिश अप्पारेल्स एण्ड मेरगन्डैस प्राइवेट लिमिटेड
2274	35500	सेवेन्त सेन्ससाफ्टवेर एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2275	35501	है ट्रिम डेक्कारस प्राइवेट लिमिटेड
2276	35511	हिल पार्क ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
2277	35523	इन्टेक पॉवर यूटिलिटीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2278	35530	आर.ए.आर.पी. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2279	35531	पासन फुरुट गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड
2280	35534	फेस कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2281	35535	वी वी ट्रेट लिग्स प्राइवेट लिमिटेड
2282	35540	आप्पिल फिलिग्स प्राइवेट लिमिटेड
2283	35552	विजयरत्ना फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2284	35568	केल्लीस चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2285	35569	श्री मीरा प्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2286	35589	न्यू गोल्डन रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2287	35590	तिरुवीकामन चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2288	35593	के.टी.एन. सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
2289	35595	दिपक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2290	35602	सीएमएस शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
2291	35613	सी.पी.एन. चिट प्राइवेट लिमिटेड
2292	35615	हैटेक लाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2293	35618	पेरम्बूर पौल्ट्री फाम प्राइवेट लिमिटेड
2294	35625	मोनाच इन्जीनियर्स & कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2295	35627	फिडी फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड
2296	35631	सार एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2297	35632	क्वालिटी चिट्स (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
2298	35656	अटलाटीक कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2299	35668	अश्वीन नीटवेर्स एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2300	35669	अरुल ट्रेड्स & एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2301	35678	रोमला एयर्स मुवर्स प्राइवेट लिमिटेड
2302	35680	सचीया सिन्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2303	35700	गुड् शीप्हेरड गोड्स प्राइवेट लिमिटेड
2304	35708	सरवणा आग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2305	35735	सूरया फौन्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2306	35758	रासी एनरजी सिस्टम्स (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
2307	35778	कासगो फुड् एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2308	35779	मथूरा टूरस एण्ड ट्रावल्स (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
2309	35780	आरटी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2310	35784	बोम्माडेक आग्री प्राइवेट लिमिटेड
2311	35795	होटल कोडे ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड
2312	35797	बेस्ट बान्ड वेलिंग राड्स प्राइवेट लिमिटेड
2313	35808	वजरा राक प्राइवेट लिमिटेड
2314	35823	कार्तिक क्वारिस प्राइवेट लिमिटेड
2315	35830	एन्कार चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2316	35836	केया मारकेटिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2317	35843	जेन्स्टार पॉवर इण्डिया लिमिटेड
2318	35855	स्नोबाल कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2319	35856	पीसी टेक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2320	35861	नेल्सन क्लब्स & रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2321	35869	उन्गल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2322	35879	सौहारडा सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2323	35889	छास फरनिचर्स सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2324	35901	सुमुक्ता प्रोपरटीस प्राइवेट लिमिटेड
2325	35906	प्रभा होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2326	35912	फौसिया कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2327	35918	क्सन्ता भूमि प्रोमोटेर्स प्राइवेट लिमिटेड
2328	35937	महा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2329	35946	पुष्पा चिट्स (मेडरास) लिमिटेड
2330	35947	एमसी कारते कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
2331	35948	एल्.सक्काराम् टेक्सटैल् प्राइवेट लिमिटेड
2332	35968	अमोका होल्डींग्स प्राइवेट लिमिटेड
2333	35970	ए टी लेदर & केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2334	35976	जेएमके रिसारट्स एण्ड प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2335	35981	हिक्मा मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2336	35989	श्री दुरगा केप्स प्राइवेट लिमिटेड
2337	35997	इन-टून एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2338	36007	सुप्रिया सस्पेन्शन् प्रोडेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
2339	36009	नवस्थीना लिसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2340	36017	राजविजेय प्रोपरटीस & इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2341	36025	गणेश डैयरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2342	36029	शोलिंगार लिवस्टॉक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2343	36032	उदयम् फौन्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2344	36042	रिच्चीस & क्लीफ अडवरडैसिंग एण्ड कम्प्यूनिक्शन्स लिमिटेड
2345	36047	न्यू-प्रो फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2346	36054	विक्की चिट्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
2347	36062	यन्त्रा ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2348	36067	टान्जेन्ट मार्केटिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2349	36079	जी.सी.पी. क्रेडिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2350	36080	कल्वीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2351	36081	पी एन के डेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2352	36084	वान्गार्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2353	36088	क्लासिक मिल्क फुड लिमिटेड
2354	36089	एस.एस. इक्वीटीस प्राइवेट लिमिटेड
2355	36090	नोविना फुड्स एण्ड प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड
2356	36092	अय्या तुनै पाडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2357	36099	वीएसएम फ्लोरी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2358	36120	सोलिटी भात्रा कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2359	36121	मेक्सवेल अमुस्सेस & ग्रीन लाण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2360	36123	सोलिटी भात्रा पालीमेर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2361	36133	श्री विक्नम चिट् फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2362	36137	जुवल मोनार्क प्राइवेट लिमिटेड
2363	36151	ओशनिस रिसार्ट्स मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
2364	36156	मेरक्यूरी इन्फरमेशन सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2365	36172	देवनेसन फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2366	36179	मुत्तुराज चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2367	36180	ब्रिज चिट् फण्डस प्राइवेट लिमिटेड
2368	36185	टोनि अडवरडैसिंग प्राइवेट लिमिटेड
2369	36190	गुम्मा स्टाक्स & बान्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2370	36198	कोरिन प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2371	36204	श्रीराज मिनरल्स & ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
2372	36205	अटाण्ट अडवरडैसिंग प्राइवेट लिमिटेड
2373	36209	नोविना प्रेस लिमिटेड
2374	36223	सण एस्टेट (कोडै) प्राइवेट लिमिटेड
2375	36224	हेलन-रुबन हार्टिकल्चेर्से कण्ट्री क्लब लिमिटेड
2376	36225	न्यू-एड पप्लीकेशन्स & कम्प्यूनिक्शन्स लिमिटेड
2377	36230	श्रीनिवास प्रोमोटरस प्राइवेट लिमिटेड
2378	36245	मेक्सवोरद टयूनशिप सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2379	36255	सुमोलेक्सपैप्स प्राइवेट लिमिटेड
2380	36271	वी.एल.बी. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2381	36280	लक्ष्मी कलर केयान्स प्राइवेट लिमिटेड
2382	36285	चेक-इन ट्रावल्स एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड
2383	36289	लोटस सोडवेस लिमिटेड
2384	36305	करपगा विनायगर एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2385	36313	कोडै टेम्पिल टवर फाम्स & रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2386	36330	टारुस इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2387	36338	जूरीच एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2388	36345	एबीडी ट्रेड लिग्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2389	36349	फिनामान होल्डिंग लिमिटेड
2390	36362	वेलनगन्नि रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2391	36367	मँगलम फौण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2392	36380	सदर्ण प्रोडैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2393	36393	कदिरवण होटल्स एण्ड रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2394	36396	एस.एस.वी. केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2395	36397	फाब लैडर गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2396	36403	ननयम् चिट् फण्डस लिमिटेड
2397	36407	प्रिन्स ग्रीन्लाण्ड फाम्स एण्ड रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2398	36415	जेनिद रायल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2399	36451	लैफ्टरट आरचेड्स प्राइवेट लिमिटेड
2400	36457	अक्षिया रायल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2401	36466	क्लासिक कार्डस प्राइवेट लिमिटेड
2402	36473	एबिल बल्क मैलर्स प्राइवेट लिमिटेड
2403	36477	जे.टी.एच.स्टील & वैयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2404	36483	श्री बालाजी प्रोसेस (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
2405	36491	श्री कृष्णा प्रोपर्टीस मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
2406	36494	सेवण हिल्स पिकचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2407	36505	पी.आर.के. इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2408	36509	माक्सफेलक्स रबबर प्राइवेट लिमिटेड
2409	36534	मेडरास सोलार अग्रो प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2410	36538	ग्रिस एक्सपोर्ट्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
2411	36539	डलवाई रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2412	36544	धानुशिका बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2413	36555	पन्थर्वरनेशवरा कणस्थूमर सरवीसेस & शापिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2414	36576	तायम्मा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2415	36577	खोर पयो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2416	36578	वैशनवी फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2417	36580	ज्ञानराज रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2418	36589	मोहिडीन् एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2419	36596	अरिवहम् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2420	36600	रोडमास्टर एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
2421	36601	श्री प्रिन्दावण रशील रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2422	36605	होटल हालीडे इण्डिया लिमिटेड
2423	36613	बालिन्ड कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2424	36628	निजाम एजेन्सिस & डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2425	36631	श्री गुरु दियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2426	36636	वी.जे.एस. इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2427	36651	वी.के.एस. इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2428	36656	वसन्दी राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2429	36659	करोल लेदरस प्राइवेट लिमिटेड
2430	36666	मेसी एक्सपोर्ट & इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2431	36672	मेडिटेक्स हियुमण रिसोर्सस लिमिटेड
2432	36696	एम.डी.वी. टेक्नोजाजिस प्राइवेट लिमिटेड
2433	36701	इन्डोरमेड लबोरट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
2434	36703	मेगास्टोन शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2435	36704	वामशीडार कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2436	36713	माफ्स हौसिंग प्राइवेट लिमिटेड
2437	36715	ग्रोम् एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2438	36716	पुष्पम स्पिन्नींग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2439	36735	कयेम मिट्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2440	36742	श्री हयग्रीवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2441	36743	तिल्लै सुरा चिट् फण्डस प्राइवेट लिमिटेड
2442	36747	कानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2443	36754	बालास इन्फरमेटिक् कणसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
2444	36757	वृक्षा सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2445	36764	वृक्षा कार्स लिमिटेड
2446	36768	शैण केमिकैल्स प्राइवेट लिमिटेड
2447	36785	देवसेना डेवलप्पर्स & एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
2448	36791	केवल एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
2449	36807	मलर फैनाशियल कणसल्टेन्ट्स (मेडरास) प्राइवेट लिमिटेड
2450	36813	नोवा बिल्डर्स & प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2451	36822	के.ए. सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2452	36823	एन्मार्क बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2453	36832	कोडै गेट् रिसार्च होटल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2454	36838	बेस्ट सेक्युरिटी सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2455	36849	एक्सल एक्सप्रेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2456	36852	इणिमै होम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2457	36857	श्रीत्वारकमै प्रोपर्टीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2458	36862	स्काड्स न्यूगलस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2459	36874	मद्रास क्लासिक इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2460	36877	एस्हान होल्डींग लिमिटेड
2461	36879	लेवीन पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
2462	36906	मेकफेब इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2463	36910	शकीला शिपिंग मार्को सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
2464	36915	साउंन्द इण्डियन रियल एस्टेट कम्पनी (मद्रुरै) प्राइवेट लिमिटेड
2465	36923	टीजीटी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2466	36927	ओएसिस गोड् फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2467	36934	इण्वेस्टमेन्ट् एन्टरप्राइस इण्डिया लिमिटेड
2468	36935	श्री एनटीएन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2469	36955	डिजीटल भाजिक मल्टिमीडिया सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2470	36957	अमिटी रब्वर मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
2471	36974	जेयमंगला आग्रो फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2472	36975	सिलाट्टूर श्री राम आग्रो फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2473	36984	उन्डीयल आग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
2474	36985	एम के होल्डिंग्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2475	36991	इम्बीरियल गोल्ड हौस प्राइवेट लिमिटेड
2476	36994	कोडै गायत्रि प्रोपर्टी डेवलप्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
2477	37002	सिनारियो राफ्टकाम प्राइवेट लिमिटेड
2478	37003	एम.टी.कण्णन् हरी आग्रो फाम् प्राइवेट लिमिटेड
2479	37004	सीब्लू नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2480	37005	बारिद्रा एण्ड हसिड लबोरटोरिस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2481	37013	इण्डलाण्ड मेनफोरसेस & बिसिनेस सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड
2482	37015	माशा ग्रानैट्स & मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2483	37017	प्यूरजेन्टा जुवल ग्रेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
2484	37019	महारात इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2485	37020	श्री मीनाक्षी फाम्स एण्ड रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
2486	37032	अन्श कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2487	37036	चेरण सैण्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2488	37041	शारदा इस्टीट्यूट आफ मारकेटिंग मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2489	37047	तिरुमुरुगा चिट् फण्ड्स (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
2490	37055	वैजेयन्दी फोन अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2491	37057	गोल्डण हारवेस्ट आग्रोफाम् (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
2492	37059	सुभलक्ष्मी डन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2493	37076	श्री मीनाक्षीसुन्दरम् मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2494	37077	शाराज आग्रो फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2495	37084	मेलियार एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2496	37086	सीन सीजुरेस एण्ड वेर हौसिंग प्राइवेट लिमिटेड
2497	37088	नशान एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2498	37098	सौउदहेवण प्रोपर्टी डेवलपर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2499	37099	राकवेर एक्सपोर्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2500	37137	डैना काम्प इन्फरमेशन् टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
2501	37138	चेन्नै एस्टेट्स & कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2502	37143	फ्लेयर ट्रेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2503	37157	वसन्तवना फार्म इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2504	37158	फ्लैवोल्ड द्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
2505	37172	आर्कटिक एयर इन्जीनियर्स & काण्ट्राक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2506	37173	सुवा धर्मा चिट् फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2507	37176	वीटल केर प्राइवेट लिमिटेड
2508	37177	लक्ष्मी गोल्ड हारनमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2509	37185	वीएसटी फैनाशियल सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड
2510	37186	लोकस क्लासिकस एवियेशन् प्राइवेट लिमिटेड
2511	37192	नवकार आग्रो & रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2512	37214	यूसीएफएस कारगो (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2513	37237	कोयाटेस टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2514	37238	वीवा पास्कर एन्टरप्राइस (मेड्रास) प्राइवेट लिमिटेड
2515	37274	आदीरै चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2516	37286	ओरिजन कण्ट्रोल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2517	37297	रिच हारचेरड्स एण्ड प्लान्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2518	37315	चेन्नै कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2519	37343	देवसन प्लान्डेशन्स एण्ड डेवलपर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2520	37373	के.एम.सिल्क एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2521	37391	शिश्रवराज चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2522	37401	कोकनसेन्टी फिन् सर्व प्राइवेट लिमिटेड
2523	37419	प्रिचेल दान्सपोरट्स प्राइवेट लिमिटेड
2524	37427	टौरस मेडि सिरस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2525	37446	डैनारटी फौन्डेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2526	37489	मिनाक्षी रियलटर्स & प्रोपरटीस प्राइवेट लिमिटेड
2527	37493	रोमल (इण्डिया) लिमिटेड
2528	37500	जेय प्रोपरटी डेवलप्परस प्राइवेट लिमिटेड
2529	37502	धरुण शापिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
2530	37504	रेहना सीफुड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2531	37516	विकट्री बेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2532	37520	अण्णै प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
2533	37521	विग्नेशवरा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2534	37523	सोलार शेड नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2535	37527	प्रजा इण्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2536	37528	जे.वी.एम. कण्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
2537	37534	डैनामिक फब्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2538	37535	बाबुराज बिल्डर्स एण्ड कण्ट्राक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2539	37540	पीकाडिल्ली क्लब & रिसार्ट्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2540	37546	केएमआर ऐक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
2541	37553	मेगनिफिसेन्ट शिड् मेटल प्राइवेट लिमिटेड
2542	37561	चेन्नै केमटेक वाटर प्रुफिंग प्राइवेट लिमिटेड
2543	37574	डेकोरटीव क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2544	37578	दगमलर फिल्म प्राइवेट लिमिटेड
2545	37595	ए & ए ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
2546	37600	एस & सी क्रियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2547	37608	युव भारती कणसल्टेन्सी रारवीसस प्राइवेट लिमिटेड
2548	37628	ईश्वर कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2549	37644	चिणपेट पालीमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
2550	37651	साक् फुड् प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2551	37671	इण्डो-अमेरिकन एन्वारन्मेन्टल मनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2552	37672	ग्रिह लक्ष्मी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2553	37694	अय्यनार प्लान्डेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2554	37703	एन.पी.आर. इन्जीनियर्स एण्ड फेब्रीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2555	37704	श्री भूमादेवी चिट् प्राइवेट लिमिटेड
2556	37706	सण रवीट होम्स (मद्रै) प्राइवेट लिमिटेड
2557	37777	आरटी इम्पेक्स (इण्डिया) लिमिटेड
2558	37779	भगवती होम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2559	37798	विस.ए.पिस. अडवान्सुड अडवैरटैरर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2560	37831	उदयम् कुरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2561	37835	रेजेन्सी स्कोयर एक्सपोर्ट्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2562	37836	फेर डील फोरेक्स सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2563	37867	ओस्बोरनी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2564	37881	एस.जे. गारमेट्स एक्सपोर्ट्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2565	37890	इन्फोलाब्स साफ्टवेयर लिमिटेड
2566	37893	आशिर्वाद फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2567	37899	मदर मीरा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2568	37900	निवास कम्प्यूटर्स ट्रेनिंग इन्सटिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
2569	37915	मदर एयर्द फाम्स & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2570	37916	बराकद टूरस & ट्रावल्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2571	37917	डीपहोल डिल्लींग सिस्टम्स एण्ड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
2572	37919	पानुम् मानपावर & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2573	37924	ससुकी आगो फाम्स & रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2574	37941	एसएस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2575	37953	सण-क्लो एक्सप्रेस कुरियर प्राइवेट लिमिटेड
2576	37958	एरियस रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2577	37960	आरजे & आर पॉवर अप्पेलन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
2578	37969	जी.पी.आर. मेनेजमेन्ट सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2579	37978	स्कै सी कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2580	37992	हरी ब्रिक प्राइवेट लिमिटेड
2581	37993	एबीनेजर काल्सियम प्राइवेट लिमिटेड
2582	38006	लक्ष्मी मणीग्रो इण्डिया लिमिटेड
2583	38020	फील्ड पाईट इलक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2584	38031	अनुगा फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2585	38070	जे.आर.अग्रीकल्चरल & इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2586	38084	सूरिय गनौ चिट्स मद्रास प्राइवेट लिमिटेड
2587	38088	अमोसा ट्रावल्स सर्वीसस (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2588	38095	सिल्वास आगोटैक प्राइवेट लिमिटेड
2589	38102	लेना ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
2590	38106	पुदुक्कोट्टै श्री सुभ मर्गला चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2591	38111	सुका बिल्डटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2592	38113	मारुती इन्फोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2593	38117	ऐडीयल छीक मीट पेक्कर्स प्राइवेट लिमिटेड
2594	38133	अस्टा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
2595	38142	कटरकरै चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2596	38162	बेदाल इन्टरनेशनल लीसिंग एण्ड फैनान्सिंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2597	38163	तिरुनेल्वेली आगो डेवलपमेन्ट सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2598	38167	चेन्नै कृष्णा कणस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2599	38177	रार प्रोमोटेस एण्ड डेवलपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2600	38179	सुंफर मरैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2601	38185	अरिवालया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2602	38193	कालण्डी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2603	38195	हीटमक आठोमोटीव प्राइवेट लिमिटेड
2604	38201	विजयबानु एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2605	38223	अरचना एन्टरप्राइस (देनी) प्राइवेट लिमिटेड
2606	38225	इरशा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2607	38227	श्री मारुती एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
2608	38253	तारा स्टार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2609	38273	पी.डी.मदाई मिल्क & डैयरी प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड
2610	38279	हेणराक एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
2611	38282	एम.एम. क्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2612	38285	लोयल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2613	38295	सुकी इक्यूपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2614	38297	फोर्टी इम्पोर्ट्स & एक्सपोर्ट्स चेन्नै प्राइवेट लिमिटेड
2615	38320	कौरी पदमम् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2616	38346	हाट-लैण मार्केटिंग (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2617	38347	डोराईटो टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
2618	38359	है-टेक मेटलवेर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2619	38362	श्री जेयागणपती चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2620	38363	फिशन्स डेटा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
2621	38380	सास्ता मिनरल् वाटर प्राइवेट लिमिटेड
2622	38387	विप्रो हैडालिक इक्यूपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2623	38403	वी.डी.आर. फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2624	38411	डिप्लोमाट कण्ट्री क्लब प्राइवेट लिमिटेड
2625	38417	शान्जो केटेरेर प्राइवेट लिमिटेड
2626	38418	बाम्बिनो लेख विव् पार्क होटल एण्ड रिसार्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2627	38422	टाब एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2628	38425	फ्रान्टीयर फेब्रिक एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2629	38426	सौउद इण्डिया गोल्फ अडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2630	38427	ओलिम्पिक टूरस & ट्रावल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2631	38428	स्वरन भमि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2632	38430	पीगासेस इन्फोटेक सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2633	38431	अक्यूटि मार्केटिंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2634	38437	वेन्कटरमणा कणरद्वक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2635	38444	पेत्तू पाली पैप्स प्राइवेट लिमिटेड
2636	38458	वी जी ऐ (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2637	38460	क्वालिटी खोल प्राइवेट लिमिटेड
2638	38477	जेईन्ट प्रिण्टेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
2639	38483	एस.पी.जे. एथर ट्रावल्स एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
2640	38497	राजीव फौन्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2641	38500	एम.एन.के. रबर्स प्राइवेट लिमिटेड
2642	38509	विष्णुयार टेक्नोलाजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2643	38510	टेक्नोसाफ्ट सिस्टेम्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2644	38526	काली सिस्टेम्स इन्जीनियरिंग इण्डिया लिमिटेड
2645	38535	केमसेर्व आठोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
2646	38552	अण्बुकावेरी प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2647	38554	जेयश्री चिट्स (कन्याकुमारी) प्राइवेट लिमिटेड
2648	38611	कियेटीव. बिसिनेस सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड
2649	38618	यूका एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
2650	38632	सण बीम् अग्री-टेक फाम् & रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
2651	38633	सिधी मसाला प्राइवेट लिमिटेड
2652	38646	विष्णुयार ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
2653	38651	सुजाना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2654	38667	द्विवीडर फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2655	38671	वेब इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2656	38672	ए.आर. काफ्फी प्राइवेट लिमिटेड
2657	38673	खोरटेर्स हिन्द अडवरडैसिंग प्राइवेट लिमिटेड
2658	38685	रोलाण्ड प्रोपरटीस प्राइवेट लिमिटेड
2659	38686	आरसीएस कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2660	38689	टाप नाच् मारकेटिंग एण्ड कणसल्टेन्सी सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड
2661	38702	वी.के.आर. मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2662	38704	महारात मरेन प्राइवेट लिमिटेड
2663	38705	वर्दमान कणडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2664	38724	हाप्पी होम कणस्ट्रक्शन्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2665	38728	इन्दरा स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
2666	38740	एपीएम टूरस एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
2667	38742	मैकोटेक इन्डस्ट्रीस (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2668	38752	बोरा टक्सटैल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2669	38753	श्री आण्डाल टान्नेर्स प्राइवेट लिमिटेड
2670	38759	अलैस & चारलेस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2671	38763	चेन्नै मल्टीट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2672	38764	नटराज एण्ड सुप्रीया शोयर्स प्राइवेट लिमिटेड
2673	38774	ट्रूम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2674	38782	सेफ्लेक काम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2675	38789	वीएमआर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2676	38793	फेरवे & कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2677	38794	हरणस पेरफेक्ट मेटिचिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
2678	38795	ओप्पीली है-टेक इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2679	38803	लक्सेर इण्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2680	38804	आल सिसण्स टूरस & ट्रावल्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2681	38811	सात्तूर श्री सेल्वमुरुगण चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2682	38815	जीपी इण्ड-यूरो इन्टरनेशनल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2683	38822	नदाशा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2684	38828	निट्टी ट्रावल्स एण्ड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
2685	38842	डीप्पीका डैयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड
2686	38877	अरुमै अप्पातर्गम् एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
2687	38886	सौउद एशियन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
2688	38896	सिंगार दोट्टम् फाम्स एण्ड रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
2689	38898	नन्दीनी फरवच ओवरसीस सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड
2690	38901	श्री वारी गृहसेवा प्राइवेट लिमिटेड
2691	38904	श्री देवप्रियण एयर्द मुवर्स प्राइवेट लिमिटेड
2692	38912	गानक्यूर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2693	38921	एस.पी.जे. सण शिपिंग & क्लीयरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2694	38922	साय विणयगा ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
2695	38926	टेलीफील्ड सरवीसस (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2696	38934	सण पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2697	38937	एवीटी फोरेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2698	38955	श्रवदालक्ष्मी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2699	38957	गुडलक अफेसिब्स चेन्नै प्राइवेट लिमिटेड
2700	38968	निसाक मेग्नेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2701	38972	लोटस अलोइस प्राइवेट लिमिटेड
2702	38973	रोही इन्वेस्टमेन्ट्स & सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
2703	38981	एक्सेलेन्ट ट्रेडिंग (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2704	38983	अलेस्ट टेक्नोलाजीस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2705	38986	डी.के. & सन्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2706	38987	कोनर रओन एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
2707	38988	सागी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2708	38993	मदुरै मीनाक्षी हेरिटेज पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2709	38994	श्रीरामदेव मानुफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2710	38998	डफ़ोडिल्स एस्टेट्स & रिसारट्स (कोडैकानल) प्राइवेट लिमिटेड
2711	39000	टापलैण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2712	39007	फोरचूण होम्स इण्डिया लिमिटेड
2713	39015	जेवीएस ट्रावल & टूरस प्राइवेट लिमिटेड
2714	39021	सिंगा प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2715	39022	बिकासा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2716	39034	एसवीएन कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2717	39035	इण्मा डलकटोनिक्स मानुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
2718	39064	शबरी फाटो कणसोर्टियम् प्राइवेट लिमिटेड
2719	39069	यूटीलिटी फुड्स एण्ड फेसिलिटीस प्राइवेट लिमिटेड
2720	39072	वी.के. टूल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2721	39109	अरुणा स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2722	39113	इलीसियम् तेरापेटीक्स प्राइवेट लिमिटेड
2723	39118	मेडीकेर टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
2724	39121	सिस्टेक कणसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
2725	39130	बेर्ग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2726	39132	अरुणमदि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2727	39133	विष्णीयार मेटल फोरजींग प्राइवेट लिमिटेड
2728	39142	इलक्कीया फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2729	39143	पीएमएस मैन्स प्राइवेट लिमिटेड
2730	39147	जेरी टेक प्राइवेट लिमिटेड
2731	39168	टी.आर.बी. एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2732	39177	जीहोवा एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
2733	39178	अप्टाप मशीन माट्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड
2734	39182	ए-ओण् शीप फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2735	39188	सिमेन्ट ब्रिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2736	39203	एशियावैड रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
2737	39214	ग्रिन्वेस मिडिया सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2738	39217	सुंपर ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2739	39228	सबरी स्पिन्नींग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2740	39238	रोस काम्काम प्राइवेट लिमिटेड
2741	39241	साक्स कान्ग्रिट पैल्स प्राइवेट लिमिटेड
2742	39251	पवीत्रा रियल्टेस प्राइवेट लिमिटेड
2743	39254	जगद्गुरु केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2744	39273	डीएम एक्सेल इन्जीनियर्स & कणसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2745	39316	श्रीसैलम् आग्री एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2746	39322	भरणी आग्री प्राइवेट लिमिटेड
2747	39341	नागै रिसार्च प्राइवेट लिमिटेड
2748	39350	वैगै इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2749	39352	तिरुमलै बालाजी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2750	39373	इन्फोसाफ्ट सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2751	39381	कडवानाड चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2752	39405	श्रवण अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2753	39412	किस्ट एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2754	39421	श्री महागणपती स्टाक्स प्राइवेट लिमिटेड
2755	39422	मिल्लीनियम् फाम्स एण्ड प्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
2756	39428	कण्णात्ता चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2757	39429	मेक्सेल प्रोपर्टीस & मैन्डेनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
2758	39435	रोम्बोस इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2759	39439	विनायगा विशण प्राइवेट लिमिटेड
2760	39447	नेटवर्क आडोमेशन टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2761	39451	होरिजण केमिकल कलर कम्बैन्स प्राइवेट लिमिटेड
2762	39453	ग्रिन पीस द्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
2763	39455	एजीस अजानिम् प्राइवेट लिमिटेड
2764	39458	विस्वा बिलिन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2765	39484	एसकेएल टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
2766	39485	सेम्प्रास इन्टिटूट आफ फाम्वेर टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
2767	39487	जीआर कान्ग्रिट ब्लॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
2768	39514	वीजीएल टेम बौन्ड कणसल्टेन्सी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2769	39540	पीआरएस राफटेक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2770	39548	मन्ना एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2771	39556	सीएसएमए सिस्टेम्स & सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
2772	39558	विजयलक्ष्मी होम बिल्डर्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
2773	39572	यूरेका हटचेरिस प्राइवेट लिमिटेड
2774	39578	अल्-इब्राहिम् एयर द्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
2775	39580	मेगारस्टोन रिसारट्स & एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2776	39587	शिवशक्ती पॉवरकेम प्राइवेट लिमिटेड
2777	39598	जेम्स काम्बयो प्राइवेट लिमिटेड
2778	39617	एड्विन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2779	39618	नरसिम्हा कारटो पाक प्राइवेट लिमिटेड
2780	39624	प्रोप्टम प्रोपरटी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2781	39643	अल्फरका मीरा बयो-टेक प्राइवेट लिमिटेड
2782	39657	स्पीड फोरेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2783	39658	रहेम् फोरेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2784	39661	कानरि क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड
2785	39662	श्री सिद्धी विनायगा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2786	39673	सेल्वश्राम् चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2787	39679	साफ्टप्रो इन्फरमेशन टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
2788	39680	जेजी डुशमेटल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2789	39686	सेप्टगन् कणसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
2790	39689	गुरु दर्शन हॉलिडे रिसारट्स प्राइवेट लिमिटेड
2791	39692	पेर्फेक्ट एन्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
2792	39693	विण्टेक कम्प्यूटर सिस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2793	39702	नीटी लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2794	39710	हरशिणी कणस्ट्रक्शन्स & प्रोपरटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2795	39720	श्री वसन्दकावरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2796	39739	अध्रेया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2797	39771	तार शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
2798	39774	क्वागेर फैनान्शियल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2799	39778	सत्यसारदा चिट्स चेन्नै प्राइवेट लिमिटेड
2800	39786	शिन्ना ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2801	39787	एकेएसएम राक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2802	39791	वाहार इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2803	39808	चिण्ड फाम इक्वुप्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2804	39813	बिल्डमान फौन्डेशनस प्राइवेट लिमिटेड
2805	39817	आर.आर.शेल ग्राफट्स प्राइवेट लिमिटेड
2806	39825	अल्-अजीस ब्रोइलर फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2807	39830	सेश मल्टीमिडिया प्राइवेट लिमिटेड
2808	39852	कल्ब्रोस सरवीसस प्राइवेट लिमिटेड
2809	39866	अस्त्रा ओवरसीस मारकेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
2810	39871	आरगानिक सेन्ना प्रोडियुसर्स प्राइवेट लिमिटेड
2811	39879	मल्टीपिल मारकेटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2812	39882	सीरा इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड
2813	39889	डिक्सेण डेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2814	39890	धर्मा तेर्माकूल प्राइवेट लिमिटेड
2815	39904	पल्लवा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2816	39914	पिल्लेर्स बिल्डेर्स प्राइवेट लिमिटेड
2817	39918	त्वारकनकर डिप्पारटमेन्टल स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
2818	39921	किरिदिका फौल्टी फाम्स प्राइवेट लिमिटेड
2819	39926	हेवणस्ली लोटस केम टेक इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2820	39950	आकूटी फारमा प्राइवेट लिमिटेड
2821	39963	प्रसन्ना प्रिन्टोग्राफस प्राइवेट लिमिटेड
2822	39968	एस.के. (केप्स) प्राइवेट लिमिटेड
2823	39973	एमपीएन वेबसिटी कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2824	39975	जे.एन.ओयिल्स & लबोरटोरिस प्राइवेट लिमिटेड
2825	39981	चेन्नै सिस्टेम्स & सोलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2826	39995	टान्सेम पेद्रो लिमिटेड
2827	40003	पोदिगै टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2828	40005	काम्पोनेट साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2829	40009	ओम मुरुगा मंदीरम स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
2830	40021	शिरडी साई महाराज मार्केटिंग सर्विसस एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड
2831	40023	विशाल क्लोथिंग्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
2832	40024	गंगा सिल्वर स्ट्रीम कंसल्टन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2833	40030	होटल तरुण इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2834	40037	जयन्ती होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2835	40040	केवीआर फूड्स एण्ड सर्विसस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2836	40053	साराफिन मेडिप्लान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2837	40058	नोवा सिरटम्स प्राइवेट लिमिटेड
2838	40074	नटराजा होल्डिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
2839	40078	ए आर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2840	40097	आर पी के प्लांटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2841	40124	परफेक्ट लिन्क सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2842	40136	ग्राफिक एफेक्ट्स एण्ड अनिमेशन टेक्निक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2843	40140	कदीरवन कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2844	40145	प्रिया इंजीनियरिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2845	40146	श्रिडि आंडवर एण्टर्प्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
2846	40150	नंदिकेश्वरा फैनान्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2847	40156	वेन्निला रेस्टारंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2848	40158	कोनार फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2849	40164	रैटसर्च एचआरडी कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2850	40170	वीएस हास्पिटालिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2851	40185	सन्म्रा एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2852	40192	नामक्कल डायरी प्राइवेट लिमिटेड
2853	40194	मारकोरिलोस सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2854	40200	मेस्ट्रो प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2855	40204	नीला शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
2856	40206	श्री अयप्पन अग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड
2857	40207	वीरम डोरस्टेप सप्लै एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2858	40218	विकिसन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2859	40230	जयमुत्तु चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
2860	40233	केप्लियो फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2861	40240	जीटीआर गोल्डन फिनान्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2862	40251	हेप्पी रेजिडेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
2863	40258	राक्मैन ग्रानैट प्राइवेट लिमिटेड
2864	40260	ग्रेस फ्रैट फार्वर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2865	40268	एक्लाट इंस्ट्रुमेण्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2866	40274	अल सबाह इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2867	40286	जाग्रण टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
2868	40289	पेगासस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2869	40298	एस & डी मेन पवर सक्सासफुल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2870	40304	वीरम इन्नोवेटिव इन्फर्मेशन एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2871	40316	बीआरएस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
2872	40333	धनलक्ष्मी टेक्सटाइल प्राससर्स प्राइवेट लिमिटेड
2873	40336	सावरिन इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2874	40344	शीन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड
2875	40349	आर एस एम चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
2876	40379	जी के एल री मैनिंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2877	40380	रायसन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2878	40384	वी जे आर्गानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2879	40391	हरबा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2880	40395	जयशक्ति एयर ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2881	40400	सैबर सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
2882	40402	चैतन्या फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2883	40403	ए.आर. हाउसिंग एण्ड एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2884	40407	कोरियन फेल्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2885	40410	एआरआर ताम्पूल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2886	40411	रेसॉफ्ट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
2887	40413	वेस्टा मार्केटिंग एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2888	40419	तिल्लै टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
2889	40424	होटल श्रीराम नल्लामणी प्राइवेट लिमिटेड
2890	40433	ओरियन विजन प्राइवेट लिमिटेड
2891	40436	पी.जी. हाई वेल्थू एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2892	40448	लोटस पेइन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2893	40456	श्री वामन सॉफ्टवेयर एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2894	40463	आरके इन्फोटेक सोल्यूशन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2895	40470	अन्नै अरविन्दो सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
2896	40478	विमग्रास शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2897	40479	प्रसन्ना इम्पोर्टर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2898	40483	जी सी एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
2899	40493	टीवी मीडिया मार्केटिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
2900	40495	ओमेगा मारीटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2901	40498	चेन्नई टेलिवर्किंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2902	40504	पी एम एफ चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2903	40507	सुस्जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2904	40509	एस ट्रैन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2905	40517	एलिगेन्ट कन्सल्टेशन्स एण्ड इंटरियर्स लिमिटेड
2906	40518	स्पीड लैन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2907	40527	ऐएनआरए मेडि & बयो-टेक प्राइवेट लिमिटेड
2908	40546	विसागम कन्सल्टेशन्स एण्ड कान्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
2909	40569	सर्टिफाइड मार्केटिंग सर्विसस इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2910	40581	शा टेलिलिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2911	40593	प्रसन्ना सिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2912	40614	ओवैसिया पेट्रो लिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2913	40615	शिवानंदा केटिल ब्रीडिंग एण्ड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2914	40628	जंबो एक्सप्रेस सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2915	40644	इन्टेलिजेन्स फॉर जेनरेटिंग अडवान्स कम्प्यूटर इजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2916	40664	विलयिल चिट्स (कुलित्तुरै) प्राइवेट लिमिटेड
2917	40665	जयदेव इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2918	40671	विशाल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2919	40707	हेप्ता एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
2920	40724	विनो पेपर एण्ड प्लास्टिक बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2921	40735	फ्लेक्सिग्लास शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
2922	40740	ईस्ट फील्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2923	40745	आर्बिट एयर लिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2924	40747	डोल्ला केन्टिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2925	40752	आरएचसी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2926	40758	आर एम के सेक्यूरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
2927	40766	हनुमान मैनपवर कन्सल्टन्ट्स एण्ड कान्स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
2928	40774	रामरान डिस्टिल्लेरीस प्राइवेट लिमिटेड
2929	40777	क्यूबीए ऐटीकाम प्राइवेट लिमिटेड
2930	40785	सानपाक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2931	40787	राजलक्ष्मी पिल्लिमेज प्राइवेट लिमिटेड
2932	40793	अग्रिभा अग्रो फुड प्राइवेट लिमिटेड
2933	40799	रनो एन्टरटेन्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2934	40805	टेल्फोन मौटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2935	40812	मेट्रो लेबोरेटरीस चेन्नै प्राइवेट लिमिटेड
2936	40824	वैकटेश्वरा फोन्स प्राइवेट लिमिटेड
2937	40838	सी ब्रीस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2938	40854	गौतमस आफसेट प्राइवेट लिमिटेड
2939	40862	मुत्तादल टेक्सटैल प्राइवेट लिमिटेड
2940	40863	एरोस्टार एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
2941	40868	प्रोफेसनल हेल्थ केर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2942	40875	एन & एन अग्रिकल्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2943	40877	श्री शक्ति अग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2944	40880	डिजिटनेट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2945	40885	एलन्साबा एन्टरटेन्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
2946	40886	बारुनी ट्रेडिंग कपली प्राइवेट लिमिटेड
2947	40887	पेट एशिया प्राइवेट लिमिटेड
2948	40900	वेल वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड
2949	40925	यण्पीस कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2950	40935	किंवर & पार्कस इंडिया लिमिटेड
2951	40940	ऐसनबर्ग एण्ड असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2952	40955	टेक्सनो असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2953	40963	इन्क्राफ्ट साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2954	40969	अबूवा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
2955	40970	हरिनाथ कन्सल्टरकशन प्राइवेट लिमिटेड
2956	40973	अम्बाडी डेयरी प्राइवेट लिमिटेड
2957	40987	श्री वेलवन पेपर & बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2958	40995	श्रीनिवासा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2959	41004	चित्रा मिन-कैम प्राइवेट लिमिटेड
2960	41006	आनंद कन्सल्टरकन्स & इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
2961	41040	राम वाटरानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2962	41041	वेलप्रभा सागा प्राइवेट लिमिटेड
2963	41045	अव्वै कन्सट्रैक्सन प्राइवेट लिमिटेड
2964	41047	के एम एस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2965	41048	जैवन्त फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
2966	41051	प्रणा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2967	41055	पेन्टा डिसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
2968	41056	जाब्सक कंटेक प्राइवेट लिमिटेड
2969	41059	एसकेएन सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
2970	41076	वेल मुरुगा रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
2971	41101	जी एस एन्टरटेन्मेंट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
2972	41102	प्रेम पेकेजिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2973	41107	बे इजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2974	41111	रंजन कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2975	41129	करूर आल्वा अग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2976	41139	टिरमेक्स इजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
2977	41154	राजको ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
2978	41180	श्री राज राजेश्वरी जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
2979	41182	गुड्डे चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2980	41186	गोविंदराज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
2981	41202	तिल्लै राजन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
2982	41214	जीवीके फुड प्रासर्सस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2983	41218	अल्फ्रेड एन्टरटेन्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2984	41221	युनीग्राण्ड पवर सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
2985	41236	स्पाक इन्फर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2986	41241	रायर शिमा रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2987	41244	विटलशा सिल्क प्राइवेट लिमिटेड
2988	41251	ताय साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2989	41255	जेयगांधी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
2990	41256	यूरोलिक इन्टरनेशनल टूर्स & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
2991	41268	के एस टी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
2992	41281	प्रीमियर टेक्नालजी सोल्यूशन्स लिमिटेड
2993	41287	कार्तिकेयन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
2994	41290	निक्की इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2995	41291	स्वर्णरेखा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
2996	41295	अब्लाय हनिल बटन्स प्राइवेट लिमिटेड
2997	41297	एसएन पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2998	41298	है-लैन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2999	41309	मेक जे पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
3000	41323	मगोस्वरीस आर्ट आफ वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3001	41328	इंडस एचआर कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3002	41329	एस एस एलक्ट्रिकल कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
3003	41340	इंटग्रेटेड सिनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3004	41358	सिल्वर विंग्स ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3005	41388	डायमण्ड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3006	41398	साजिन कोकनट फैब्र प्राइवेट लिमिटेड
3007	41400	कार्तिकेयन सागो फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
3008	41402	न्यू कर्पगम रेडिमेड्स प्राइवेट लिमिटेड
3009	41419	अर्मरल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3010	41420	इंटरस्टिच फैशनस प्राइवेट लिमिटेड
3011	41428	स्पीड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3012	41446	सलुब्रिटी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3013	41453	एस वी एल अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
3014	41460	ईबल लेदर गार्मेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3015	41467	मन्ना इन्नोवेटिव सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3016	41469	यूनी-मेट ट्रीटमेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3017	41476	वीमन कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3018	41479	चेम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3019	41482	आर एस फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
3020	41485	मिडास सैबरकेफ प्राइवेट लिमिटेड
3021	41490	हिच हैकर रिसर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3022	41494	प्रेड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3023	41496	सन सैट प्रापर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3024	41514	युनिमाक अक्वा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3025	41530	वेकटेश्वरा फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3026	41540	जक्का एण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
3027	41542	मोमेण्टम कन्सल्टन्सी सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
3028	41547	एक्साट आटोमेशन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3029	41560	सिनक्स इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3030	41562	इन्नेट ट्रेड सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
3031	41565	डोसी एण्ड डोसी वाच्यस प्राइवेट लिमिटेड
3032	41573	सिटी सर्वीस कार्ड प्राइवेट लिमिटेड
3033	41591	पर्वीण एण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
3034	41805	विन्सी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3035	41851	सिरडी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3036	41867	इलाच्चियम् नारायणन टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
3037	41871	एक्सपेड कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3038	41875	मेटको ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3039	41882	जे एस जे होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3040	41887	माल्गुडी रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3041	41910	एफटीएस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3042	41911	अच्चु टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
3043	41912	वेल ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3044	41930	जीजो एजन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
3045	41933	काव्या इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3046	41937	जोमन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3047	41945	डी जी आर साउण्ड कम्प्यूनिक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3048	41946	नान्मुगी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3049	41958	लेण्ड—सी एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3050	41977	रायल कन्सट्रक्शन्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
3051	41991	जेनटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3052	42003	आईआईएसटी काम प्राइवेट लिमिटेड
3053	42008	कार्निंक रेस्टोरन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3054	42011	आश्रम अग्रो प्राइवेट लिमिटेड
3055	42018	सायपुत्तिरर केम प्राइवेट लिमिटेड
3056	42019	श्री रेणुगाबाल कंप्यूटर अकाडमी प्राइवेट लिमिटेड
3057	42052	नाहर & नाहर कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3058	42059	अनुभवन इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3059	42064	एस्तटिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3060	42078	डीकार्बीस कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3061	42124	चिन्मनूर श्री लक्ष्मी नारायणा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
3062	42125	केल्विन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3063	42140	वीनस पी यू फोम्स प्राइवेट लिमिटेड
3064	42141	बी बी फिल्म्स एण्ड मास एण्टरटेन्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
3065	42143	पासुपोन ग्राफैट्स एण्ड पवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3066	42145	एसीएस सिनीआर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3067	42146	अम्मू ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
3068	42157	मासा फारक्स प्राइवेट लिमिटेड
3069	42160	जेया एजुकेशनल सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
3070	42175	ए हेच भोगीस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3071	42179	टेक्साल सिरटम प्राइवेट लिमिटेड
3072	42200	जेयराम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3073	42221	लाल सिंजेस मेनुफाक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3074	42229	रायल फार्मुलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3075	42234	सुजिन रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3076	42241	रत्तिनम नाडार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3077	42245	टुमारोस टेक्नालजी टुडे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3078	42250	सी शोर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3079	42265	आस्त्र रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
3080	42282	एएएसटी इन्फोसिस लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3081	42286	टी-साफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3082	42305	एमराल्ड शिपिंग सर्विसस (साउथ) प्राइवेट लिमिटेड
3083	42363	जेमिनी सैफर प्राइवेट लिमिटेड
3084	42406	मोरा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3085	42411	शरीफ लेदर इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3086	42415	पी आर बी प्रेम कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
3087	42416	देवीनारायणन होटल्स & रिसर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3088	42417	एएनटी साफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3089	42428	ग्रीण चैनल्स नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
3090	42429	काफ-टी-प्लान्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3091	42435	मेट-टरीट अप्लिकेशन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3092	42451	जीलाट टेक्नालजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3093	42476	सुपर पेक्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
3094	42484	लक्ष्मण टेक्नो प्रासस प्राइवेट लिमिटेड
3095	42489	टीआरआर एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3096	42494	ए वी हेल्थ सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
3097	42504	कामनेट कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3098	42532	मार्क इन्फोकंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
3099	42534	एक्सपेन्स कम्प्यूटर्स सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3100	42537	रूरल इन्स्टिट्यूट आफ इन्फर्मेशन टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
3101	42540	जूपिटर कार्पेट प्राइवेट लिमिटेड
3102	42543	रेप्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3103	42546	प्रांटे इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3104	42553	डॉ. एस सुब्रमणियन एं हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3105	42564	श्रीशा स्टाक्स प्राइवेट लिमिटेड
3106	42571	देवा सिस्टम एण्ड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
3107	42575	पेल कोटेशनस अडवैसरी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3108	42579	वीबीएस फेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3109	42581	एस बी शोर्स प्राइवेट लिमिटेड
3110	42594	सायु संद्रश एण्टप्राइस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3111	42596	माप्ले एनर्जिक्स सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3112	42598	ईगिल हेल्थ केर मार्केटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3113	42600	करास्सी फुटबियर प्राइवेट लिमिटेड
3114	42609	डउन टउन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3115	42610	सिक्टरा इन्फोवेयर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3116	42614	राहल विंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3117	42679	फन बल्ड टाप्स प्राइवेट लिमिटेड
3118	42684	मडगजी टेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3119	42688	होको फ्रैट प्राइवेट लिमिटेड
3120	42690	तूतुकुडी एम पी आर एजसीस लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3121	42713	केआरएस असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3122	42726	न्यू ट्रान्सवर्ल्ड बिसिनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3123	42728	मास्क कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
3124	42731	इंडसे कार्डिं केर प्राइवेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3125	42742	संजीवम्मा कन्सल्टरशन्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3126	42756	लीडर एजुकेशनल कउन्सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड
3127	42757	पासपोर्ट कम्प्यूनिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3128	42768	स्फीक्स मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड
3129	42780	अनिल्ला अग्रो प्राइवेट लिमिटेड
3130	42804	वर्षद अलुमिनियम प्राइवेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3131	42807	चेन्नै एण्टरटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
3132	42820	यू-वी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3133	42823	मिडिल ईस्ट टेलस कंप्यूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3134	42825	साधिका पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3135	42832	देबविन मेन पवर्स प्राइवेट लिमिटेड
3136	42834	वर्डवैस कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3137	42839	डी एस एस इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रियल एक्जुप्लेंट प्राइवेट लिमिटेड
3138	42848	तेनाक्षी चिट फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
3139	42850	एमएमके अग्री एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3140	42851	ट्रान्सक्रिप्सन स्पेशलिटीस प्राइवेट लिमिटेड
3141	42854	जे आर के एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3142	42867	पानाविशन टेक्नालजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3143	42879	विलाश इंजीनियरिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3144	42881	श्री विग्नेश हैडरालिक फिनिश प्राइवेट लिमिटेड
3145	42883	जेसु ट्रावल इनीशियेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
3146	42886	शानराज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3147	42888	वीपीएस कम्प्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3148	42902	फीनिक्स सेफ्टी मेचिस एण्ड फयरवर्क्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3149	42903	फेन हेर्ब्स एण्ड स्पैसस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3150	42914	वायु मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3151	42916	ट्रिनिटी पब्लिक प्राइवेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3152	42917	आर जी सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3153	42923	अक्षय कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3154	42947	श्री शण्मुगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
3155	42953	त्रिशूल अग्री बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3156	42958	वी डी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3157	42960	सिस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
3158	42961	होटेल चिंदंबर राजम प्राइवेट लिमिटेड
3159	42963	बैसन लेबरटरीस प्राइवेट लिमिटेड
3160	42964	किरन स्कोयरवेअर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3161	42977	एफ्फीसियन्ट हेर्बल फूयल प्राइवेट लिमिटेड
3162	42986	बोरस्टन इजीनियरिंग कन्सल्टन्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3163	42988	रश्मि टिबर प्राइवेट लिमिटेड
3164	43001	सहानी इंफेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3165	43016	स्पेक्टरम किच्चन डिवाइसस प्राइवेट लिमिटेड
3166	43019	रेड & ग्रीन इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3167	43026	इनसाइट असोशियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3168	43028	यूटीखस एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
3169	43030	ताम्सन एलपीजी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3170	43037	रेवती ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
3171	43039	मरुदु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3172	43041	चेन्नै सेल्फ रियलेशंसन सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
3173	43042	वास एक्जुप्मेण्ट्स एण्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3174	43050	बैराहा देसी फार्मस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3175	43052	विण्ड इन्फर्मेशन टेक्नालजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
3176	43070	टापनाटच मेनेज्मेंट सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3177	43071	फ्रीडम कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3178	43076	इटल कोमेक्स मेनेज्मेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3179	43078	कामकार इन्वेस्टमेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3180	43081	स्पेशलसेम पेइंट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3181	43084	तारिणी फोम प्राइवेट लिमिटेड
3182	43088	कन्मालै हउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3183	43106	सैनार कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3184	43110	खार्डिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3185	43121	टी एस आर चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3186	43122	रास्य इजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3187	43146	वोलन सुगर्स लिमिटेड
3188	43150	सुम्रा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3189	43159	धर्मा आरएक्स कास्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3190	43176	इंपीरियल सेक्यूरिटी & डिटेक्टिव ब्यूरो आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3191	43178	कोर्नुकोपिया कम्यूनिकेशन सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
3192	43179	डायफ्री हेर्बल कान्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3193	43190	मरुवूर आनलैन सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3194	43191	पोडियम फेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3195	43200	सिलिमिया फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3196	43207	वृंदगिरी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3197	43209	विकविस ट्रेडिंग एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3198	43211	ब्रह्मा फाउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड
3199	43214	ग्रीन वेनल साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3200	43215	है-स्पीड नेटवर्क एक्जुप्मेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3201	43217	ट्रान्सवाल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3202	43310	मेक्सम हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3203	43326	वल्लुवर चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3204	43338	आल्फू इपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3205	43341	शातकला किरियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3206	43343	सोन्नेटो इपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3207	43346	आर ए मुबारक सेक्यूरिटी अशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
3208	43350	विश्वधारा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3209	43355	अरुलमिगु वीजी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3210	43397	शक्ति श्री ट्रान्सकिप्सन्स प्राइवेट लिमिटेड
3211	43417	ओम्स आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
3212	43426	केआरएस सीएनसी प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3213	43437	मिल्लेनियम मेरैन प्राइवेट लिमिटेड
3214	43447	चेन्नै सेटसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3215	43453	सम्स मेरैन प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3216	43462	जवाहर कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3217	43466	के आर वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3218	43524	जीनियस सोल्यशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3219	43560	सीनु प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3220	43580	क्विकान गेस प्राइवेट लिमिटेड
3221	43587	एमपीएल मार्केटिंग लिमिटेड
3222	43593	डबल्यूपी बिसिनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3223	43595	पीआरबी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3224	43598	चेन्नै एयर-सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3225	43605	जूवेनैल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3226	43607	गुहन टेक एण्ड रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
3227	43619	एमराल्ड मार्केटिंग अशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
3228	43620	एसपीएस कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3229	43628	सी आर के कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3230	43629	ले'स फुड प्राइवेट लिमिटेड
3231	43649	बिन्साइ लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3232	43680	लैक चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3233	43687	वासुम साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
3234	43689	सीकस हास्पिटालिटी मेनेज्मेन्ट कन्सल्टन्स सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3235	43705	करेयान इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3236	43707	विशान्ती केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3237	43710	पाडिच्चेरी वाटरप्रूफर्स प्राइवेट लिमिटेड
3238	43715	क्वाड्रा पवर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3239	43719	टेलि डाटा नेटवर्किंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3240	43723	मेल्लड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र. संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3241	43728	सीपीपीएस इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3242	43730	मदुरै श्री राघवेंद्रा आटो एन्सिल्लरीस प्राइवेट लिमिटेड
3243	43737	शैनलक फिनान्सियल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3244	43750	कार्पोरेट एक्सपो & कन्वेंशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3245	43762	जे बी नाग हैजीनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3246	43765	न्येक्विलया इपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3247	43768	विजयविष्णु हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
3248	43774	लारा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3249	43780	मूकाबिगै सिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3250	43781	डार्टर आवेरसीस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3251	43787	कनिमवलम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
3252	44003	एलिंगट प्रिंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3253	44004	प्रामिनेट सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3254	44008	मेक्सेल साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3255	44039	एयरटेल इन्फोसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3256	44040	वेब कम्प्यूटर्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3257	44043	सेन्टम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3258	44091	पुनित साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3259	44107	एस्सेल मेडी ट्रान्सक्रिप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3260	44208	सिंगपूर इन्सुरंस ब्रोकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3261	44209	त्रिटोक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
3262	44210	गास्पी साफ्टवेयर लिमिटेड
3263	44213	डे केर फ़ार्मरन्सस प्राइवेट लिमिटेड
3264	44214	टार्गेट साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3265	44233	सबी इपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3266	44237	सुन्दरागणपति चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3267	44258	श्री मारुती आटो कन्वर्सन किट्स प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3268	44266	एसोक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3269	44282	बोन्साइ इंजीनियरिंग एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3270	44297	विजयन मिल्क प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3271	44298	अरुनै सिटी केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3272	44302	ज्योति रोडवेस प्राइवेट लिमिटेड
3273	44312	बेनरास इंजीनियरिंग एण्ड कन्सल्टन्स सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3274	44319	श्री अभिरामी पौल्ट्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड
3275	44321	ईको फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
3276	44332	शाकें इंडिया एण्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
3277	44334	श्री देवी फ़्लै एश ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3278	44335	नयीत इपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3279	44339	इमेज फ़्यूशन काम प्राइवेट लिमिटेड
3280	44355	श्री भीनाक्षी मेटल कोपोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3281	44358	फर्नोफ मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3282	44359	साम्यु ई-बिजुटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3283	44361	धना बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3284	44378	ग्लोबस्टार इंडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
3285	44391	एल-शील्ड टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
3286	44395	आईसीजी इपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3287	44400	एस आर सिनीटेक प्राइवेट लिमिटेड
3288	44416	जेड कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3289	44434	आल टैम सोल्यूशन्स.काम प्राइवेट लिमिटेड
3290	44448	अल्लीग्रो फ्रैट फार्डवर्डस एण्ड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
3291	44460	एबकान कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3292	44463	गोमतीराम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3293	44480	ब्राडबेण्ड टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
3294	44485	वेब वर्ल्ड डेटा सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3295	44504	ट्रेडिशन टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3296	44511	कारप्लस लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3297	44522	प्रीम्ट इंस्टिट्यूट आफ कन्टिन्युइंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3298	44539	डेनियल एलक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3299	44556	हेच एम हास्पिटल (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
3300	44557	पेटा साफ्टसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3301	44562	वी जे ग्लोबल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3302	44572	उलिस्सस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3303	44580	पीवीपी इन्फोमीडिया सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3304	44581	एडज नेटवेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
3305	44582	आंध्र हेर्बोकेम प्राइवेट लिमिटेड
3306	44588	ए के एस मैक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3307	44590	वर्ल्ड लिंक इंडिया. काम प्राइवेट लिमिटेड
3308	44597	डीसीवीएस हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड
3309	44599	नेक्स्टलिंग्स साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3310	44610	इन्सिट्रा अशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
3311	44614	अन्नम्पै कास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
3312	44632	फेस अडवांस्ड कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3313	44634	एक्सप्लिसिट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3314	44635	पुष्पालोक एक्सपोर्ट्स & इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3315	44666	एजीएस इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3316	44667	क्वेस्ट ई-काम प्राइवेट लिमिटेड
3317	44673	ईएलएसआर कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3318	44676	ओमेगा सिग्नलमेट्रिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
3319	44685	इटिरकेट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3320	44686	श्रीवारी सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3321	44687	माट्टु सन्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3322	44688	वेद्री मारुती पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
3323	44695	क्लाराबेन्स कन्सलटेन्सी एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3324	44697	टूनेट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
3325	44703	श्री येम टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3326	44709	कोरोनेशन प्रोपर्टी डेवोलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3327	44713	टैकून प्रोडक्शन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3328	44729	डोकटनेट प्राइवेट लिमिटेड
3329	44730	औरोविन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3330	44734	मीकामण्डपम् के.पी.एस. फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
3331	44740	प्रिया शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
3332	44743	श्री विद्यालक्ष्मी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
3333	44753	आर.आर.एन. एण्ड असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3334	44786	सुखदेव डेक्कान फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
3335	44797	यामी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3336	44798	अरुहु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3337	44822	मालिक टाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
3338	44836	उषोदया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3339	44838	शोलिगर डाइयिंग एप्प्लिफ्लेंट ट्रीटमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
3340	44840	टू स्टार ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3341	44843	कलैमगल कोच प्राइवेट लिमिटेड
3342	44850	पशुपती डेयरीस प्राइवेट लिमिटेड
3343	44866	जम्प सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3344	44872	प्राइस मिडिया प्राइवेट लिमिटेड
3345	44876	विजयदत्ता मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3346	44881	एषिल प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3347	44882	क्वालिटी क्वेस्ट एक्स्प्लोरेन्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
3348	44884	श्री वाणी स्टील एण्ड फोरजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3349	44892	थर्ड मिल्लेनियम कम्प्यूटर्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
3350	44898	जेसमारिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3351	44900	इण्डोपेल्ल लेदर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3352	44908	जग वरणम फायनेन्सियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3353	44921	एम-डायरेक्ट इण्डिया मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
3354	44958	ईआरएल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3355	44976	आइरोन्नेट.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
3356	44993	थी-टायर टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
3357	44999	पोर्टल पोटेन्शियल.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
3358	45112	इन्फो हाईवे कन्सल्टन्ट प्राइवेट लिमिटेड
3359	45172	मद्रास मरैनसेफ्टी & कं. प्राइवेट लिमिटेड
3360	45186	वीआरजे स्पेसरेडियो प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3361	45192	किगिसन्स & ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
3362	45214	जगदराज बयोपवर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3363	45215	फ्री अडवान्ड कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3364	45226	स्टीफन्स कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड
3365	45242	नेट मेर्ज टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3366	45253	गोल्ड क्रस्ट गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3367	45259	सिटीहोम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
3368	45260	आनंद-जॉन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3369	45268	लाजिक स्कैनिंग टेक्नालजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3370	45271	रेहोबोत मेरिटैम प्राइवेट लिमिटेड
3371	45278	हार्डकोर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3372	45284	प्रणाम टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3373	45291	एस बी के शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
3374	45294	संबा टेक्नालजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3375	45310	अनुविनु ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3376	45313	न्यू लिम्सा एयर ट्रवल्स प्राइवेट लिमिटेड
3377	45341	न्यू एरा जाब्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3378	45349	यंग ट्रान्सपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
3379	45350	ईप्यूपिल कंसल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3380	45363	चेन्नै फ्रन्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3381	45366	हाईटेक चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3382	45370	विशुअलराय इन्फोवे प्राइवेट लिमिटेड
3383	45384	हिमालयन होम नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
3384	45388	इनप्राक्टिस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3385	45395	स्टार फोरेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3386	45402	पाटचमेजिक एक्पोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3387	45405	श्री बालाजी दर्शन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3388	45413	पीसीएस इम्पेक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3389	45427	धनवंत्री एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड
3390	45432	एम. एस. इंजीनियरिंग कंसल्टन्ट्स & कान्ट्राक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
3391	45440	स्कैलैन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3392	45442	नमह टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3393	45446	ब्रालकाम इन्फो सोल्यूसन प्राइवेट लिमिटेड
3394	45448	नैल इम्पोर्ट & एक्स्पॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3395	45453	चेरान आर & डि सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3396	45455	विलवनकोड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3397	45457	क्विकसिल्वर अपियरल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
3398	45476	किनगिनी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3399	45483	पेरडिगम ई-सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3400	45485	शिवरुक ग्रैनेट्स एण्ड मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3401	45502	इनमको (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3402	45505	मण्णा मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
3403	45507	सिक प्रापर्टी डेवलपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3404	45509	टार्गेट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3405	45516	बीनशाप कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3406	45518	मेगासाफ्ट इंटिग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
3407	45563	नान बारगैन अड्वान्टेज सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3408	45566	डिजिटलवेव टेक्नालाजीस & रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
3409	45573	मद्रास ललिता रियालिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3410	45581	पिक्सल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
3411	45600	आरवी फेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3412	45601	आरवी ट्रन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
3413	45602	कानसोरटीयम मिनरल्स एण्ड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड
3414	45605	इ-सेल्फ साफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3415	45622	चेन्नै इंशुरन्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3416	45629	एन-शक्ति श्री टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
3417	45650	खान सिस्टम्स काम प्राइवेट लिमिटेड
3418	45661	सौतपाईट कन्टैनर लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3419	45662	वाणी कंप्यूटर अकाडमी प्राइवेट लिमिटेड
3420	45685	लीड इन्फरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3421	45686	जे.पी.एस. ट्रावल्स & कारगो प्राइवेट लिमिटेड
3422	45694	आर.हेच. केम्बियो प्राइवेट लिमिटेड
3423	45696	सरवणा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3424	45708	ट्रान्सवर्ल्ड डिटैक्टिव ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड
3425	45709	एम.पी.एम. शांति ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
3426	45712	मै शेर्स प्राइवेट लिमिटेड
3427	45733	टेकसाफ्ट ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड
3428	45749	अमेट शिपमेनेज्मेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3429	45751	दंडपाणी टेक्सटाइल मिल प्राइवेट लिमिटेड
3430	45757	टीएन कमर्शियल & इंडस्ट्रियल गैड प्राइवेट लिमिटेड
3431	45762	एविस्टास नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3432	45764	अबानी सर्विसस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3433	45777	वेट्री टेकर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3434	45789	याशना ड्रम्स प्राइवेट लिमिटेड
3435	45794	अळगु विनायगा टेक्नालाजीस प्राइवेट लिमिटेड
3436	45796	डेटा जेनरल (इंडिया) लिमिटेड
3437	45802	हेब्रोन फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3438	45812	स्पर्श कनेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3439	45818	एरेम एयर ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3440	45826	हिब्रोन इमेज मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3441	45841	हिमालया क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3442	45863	ऐ जेन मल्टिमिडिया प्राइवेट लिमिटेड
3443	45873	वेरीसाफ्ट कन्ट्रोल्स & टेक्नालाजीस प्राइवेट लिमिटेड
3444	45887	मासआफ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3445	45896	एबीसी नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3446	45899	अलर्ट मेनैजमेंट कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
3447	45928	सीटीहेच-साफ्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3448	45937	ट्रिपिल एसस प्राइवेट लिमिटेड
3449	45939	डिजिमेजिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3450	45951	होटल वेवसाई प्राइवेट लिमिटेड
3451	45979	लिविंग्स्टोन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3452	45993	ग्रेलाईन अडवरटैसिंग एण्ड डिजिटल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
3453	45998	चेन्नै शाप्पी प्राइवेट लिमिटेड
3454	46002	वेगा साफ्टवेयर सोल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड
3455	46004	वोजस साफ्टवेयर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3456	46005	स्पेड टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3457	46007	टस्क साफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3458	46012	अप्पला बिल्डर्स & कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3459	46019	अप्सुन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3460	46022	वी.जे.चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3461	46040	श्रीवत्सव ईको-फ्रन्डली पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3462	46041	बानु इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3463	46046	ट्रिटान साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3464	46047	हिल एण्ड विल हेल्थ केर टेक प्राइवेट लिमिटेड
3465	46049	चाय्स क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3466	46051	जेआरएस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3467	46053	आळवार केम्फो प्राइवेट लिमिटेड
3468	46056	एसपी टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3469	46057	ओरिआन न्यूट्रासीटिकल्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3470	46058	अरोमेटिका एक्स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3471	46059	वेल अक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड
3472	46061	कांची कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
3473	46064	ऐडेंटिटी साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3474	46071	फ्यूजेनसाफ्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3475	46074	इंटेल् एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3476	46075	हिलराय टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3477	46077	सविता फ्लाट्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3478	46091	सगाशियस साफ्टवेयर सोल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड
3479	46092	मेडिसन डाट काम प्राइवेट लिमिटेड
3480	46107	ला बेल्ली टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3481	46111	एसडीएन कांगो कनक्शन प्राइवेट लिमिटेड
3482	46112	आईशा शू प्राइवेट लिमिटेड
3483	46124	एवरट्रस्ट एक्सिम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3484	46126	श्री राघवेंद्रा रेसिडन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3485	46128	ट्रिनिटी फारवर्डस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
3486	46129	सैफ्री कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3487	46130	रुरल फोकस काम प्राइवेट लिमिटेड
3488	46133	जेयकिसान हैटेक अग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
3489	46149	नालेडज फउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड
3490	46150	विरिक्सा साफवेयर सोल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड
3491	46152	मेलियोरा कापिटल प्राइवेट लिमिटेड
3492	46156	शरक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3493	46157	सरोन मेटल आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3494	46162	कोजेन्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3495	46163	वाणियम्बाडी आर.एस. हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3496	46171	मेटपोर फिलिम्स प्राइवेट लिमिटेड
3497	46172	बाल्विक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3498	46174	दुर्गालक्ष्मी डयरी प्राइवेट लिमिटेड
3499	46176	एफ & बी मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3500	46180	जोतिका एक्स्पॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3501	46185	ट्रान्सुनिटेड ट्रावल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3502	46186	अभिरामी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
3503	46187	बे ऐटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3504	46191	टी सी एम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3505	46219	ऐऐएन फोकस काम प्राइवेट लिमिटेड
3506	46220	डीनोवा कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3507	46224	फुलूटान टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3508	46225	अक्विविटी टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3509	46226	सनसिटिन्ड ए-मैल एक्स्प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
3510	46228	एसपीजी ओवर्सीस फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3511	46229	स्कैमेक नेटवर्क सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3512	46230	स्कैमेक इंटरनेट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3513	46231	प्रापइंडिया काम प्राइवेट लिमिटेड
3514	46242	स्ट्रेटजिक वेबकाम टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3515	46244	पी.एम.आर. कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3516	46250	चिज़र एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
3517	46265	ब्लूस्टील ओवर्सीस लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
3518	46266	ओपनवेव डीएसएस प्राइवेट लिमिटेड
3519	46271	जैईरा सनशैन डिजिटल रिकार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
3520	46277	बी2जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3521	46285	अम्मास इंटरलिंक्स काम प्राइवेट लिमिटेड
3522	46286	क्विक आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
3523	46287	निकेतन इंफरमेशन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3524	46295	श्री ई.एम.आर. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3525	46302	पानव्यू टूर्स & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3526	46304	शैनी फार्मस एण्ड बिल्डस प्राइवेट लिमिटेड
3527	46309	सी गुल कम्यूनिकेशन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3528	46314	हिब्रोन साफ्टवेयर सोल्युषन्स प्राइवेट लिमिटेड
3529	46317	सार्क फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड
3530	46318	बल्लाक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3531	46320	सक्सस वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
3532	46322	रघुनाथ ग्रीन पवर प्राइवेट लिमिटेड
3533	46323	तिरुमला ग्रीन पवर एंटरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
3534	46324	ग्रीन पवर रियल्टरस प्राइवेट लिमिटेड
3535	46325	पवन ग्रीन चानल प्राइवेट लिमिटेड
3536	46329	एस.जी. वेन्चेर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3537	46331	मेट्रो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3538	46337	एवाल्स साफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3539	46341	विन्क्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3540	46348	गेतसमेन साफ्टवेयर सोल्युषन्स प्राइवेट लिमिटेड
3541	46352	भ्रमा वेबबिज टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3542	46365	कामिक्सम ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
3543	46369	ईटीजी साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
3544	46372	जसील कंप्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
3545	46376	विनवेयर सोल्युषन्स प्राइवेट लिमिटेड
3546	46378	प्रिमियर नेटवर्क तमिलनाडु प्राइवेट लिमिटेड
3547	46380	कस्टमैजड क्वालिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3548	46382	रत्नदीप सेक्यूरिटिस प्राइवेट लिमिटेड
3549	46384	कलिबरप्लस सिस्टम्स एण्ड सोल्युषन्स प्राइवेट लिमिटेड
3550	46391	टैयरा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3551	46408	रियल टैम प्राजक्ट्स लिमिटेड
3552	46419	सीएडबल्यू इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
3553	46421	फान्टास इमेज प्राइवेट लिमिटेड
3554	46424	विनटेक शोयर्स प्राइवेट लिमिटेड
3555	46427	हेवन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3556	46429	शिकशाक टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3557	46432	आदिनाथ इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3558	46433	स्ट्रीम्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3559	46437	श्रीसेल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3560	46440	ऐ-काम अडवैसरी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3561	46441	ब्लू ऐ-बयो टेक प्राइवेट लिमिटेड
3562	46444	रुष्मी इंटरनेट अडवरटैसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3563	46447	एफएम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3564	46448	फोर्ट पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3565	46450	स्टीलेत डिटेक्टीव्स एण्ड सेक्यूरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3566	46455	अडीप्टी साफ्टवेयर कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3567	46456	डीडीएम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3568	46460	ग्रांड सिटी पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3569	46463	डलसिन ट्रपल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3570	46467	काल हस इंडिया लिमिटेड
3571	46478	पडतलुमूडु डबल यज चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3572	46480	शास्त्रा वेब सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3573	46482	पेन्टरक्कस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3574	46484	एक्सिन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3575	46490	इनसेम टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3576	46499	मशहूर कास्टूम्स एण्ड युटिलिटिस शप्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
3577	46500	सन कार केर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
3578	46501	ग्रान्ड केश फोरक्स प्राइवेट लिमिटेड
3579	46506	लेडर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3580	46507	अय्यप्पास ट्रावल्स & टूरस प्राइवेट लिमिटेड
3581	46508	एकाम्बरेश्वर ह्युसिंग डिवलपमेंट & एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3582	46509	बीम-साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3583	46510	पराशक्ति शिरटम्स प्राइवेट लिमिटेड
3584	46511	मौंट शिपिंग & मरैन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3585	46517	यूनैटी हेबो हेल्थ कार्नर्स प्राइवेट लिमिटेड
3586	46519	अमेज कंप्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
3587	46520	विक्टरी असोशियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3588	46521	वीगेस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3589	46523	वेल साफ्टेक वेल्ड प्राइवेट लिमिटेड
3590	46526	अट्लान्टिकसाफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3591	46528	वितराना सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3592	46529	मारवी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
3593	46530	सुल्ताना हर्बलस प्राइवेट लिमिटेड
3594	46536	टैकून मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3595	46541	अजीलान (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3596	46542	येल्ला केबस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3597	46543	जयगंगा अग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड
3598	46544	सनलैट ई काम प्राइवेट लिमिटेड
3599	46546	साफ्टलिक स्कूल आफ कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3600	46553	एबीए फिलिम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3601	46555	डेटाड्रव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3602	46556	जीनोम टेक्नालजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3603	46558	सैफर चिप्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
3604	46562	टेराफिर्मा टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3605	46565	रिच टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3606	46569	आरसन आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
3607	46579	फेस्टाल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3608	46582	जी डी नाडार पेपर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3609	46584	प्रुडेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3610	46585	मिल्लीनियम मिनरल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3611	46586	लांडमार्क लांडस्केप्स प्राइवेट लिमिटेड
3612	46587	हिले टाप कंप्यूटर एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3613	46588	डेटाबेस इंडिया इनफो सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3614	46591	माब डीसिलियम कंप्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3615	46594	डैनासिस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3616	46596	सैनोस्टार टर्बो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3617	46604	रामसेस स्पोर्टवेअर & सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3618	46609	गिल्डियुलान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
3619	46614	ज्वायलजिक टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3620	46623	सुटेस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3621	46627	वैकट रियालिटी प्राइवेट लिमिटेड
3622	46629	भोगस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
3623	46637	वेब ऐकाम सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3624	46647	सैनोस्टार साफ्टवेअर सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3625	46654	भनावेटरा नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3626	46655	ट्रान्टी फाउंडेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3627	46656	ए टू इजुड डोमेस्टिक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3628	46675	रोशनी नेट प्राइवेट लिमिटेड
3629	46677	गिल्ड सिरटम्स प्राइवेट लिमिटेड
3630	46682	पीबी लिग्स प्राइवेट लिमिटेड
3631	46683	दौलंस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
3632	46696	काची ग्रानैटस प्राइवेट लिमिटेड
3633	46699	सिद्धा कैंसर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3634	46702	श्री कृषी डिजिटल ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3635	46703	एमबीबीएस एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
3636	46704	एएनआर फाशन्स लिमिटेड
3637	46705	इन्फोस्ट्रीक सिरटम्स प्राइवेट लिमिटेड
3638	46709	पी सी एस साफ्टवेअर सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3639	46713	पीसीएस सिस्टम्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3640	46717	नेमिसिस इन्फर्मेशन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3641	46720	प्रोक्लैम सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3642	46725	पैसापवर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3643	46757	रहुमणीया असासियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3644	46761	जीनियस सेक्यूरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3645	46768	स्कैशूट.काम प्राइवेट लिमिटेड
3646	46770	ग्लीनसिस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3647	46773	बेर्टर वेल्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3648	46775	साटलिक टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3649	46778	स्कै सेफवे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3650	46780	सिल्क रुट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3651	46788	लिम्को मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3652	46901	रोबस्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3653	46908	पोन मईल ज्वल्लर्स प्राइवेट लिमिटेड
3654	46909	बेस्टीन मल्टी पेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3655	46916	गोल्डनइंडियन्स कंप्यूटर सर्विसस लिमिटेड
3656	46917	ट्रैलक्स एयरलाइन्स लिमिटेड
3657	46930	एडविन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3658	46932	सेफालिक इन्फरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3659	46934	चिपसिस सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3660	46935	अरुलानंद फउंडरिस प्राइवेट लिमिटेड
3661	46938	जीब्रा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3662	46941	संकेशवरा स्टाक्स प्राइवेट लिमिटेड
3663	46945	सिल्वर एडज अडवैसरी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3664	46947	पल्लवा प्रोपरटीस प्राइवेट लिमिटेड
3665	46948	श्री विघ्नेश कंप्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
3666	46954	चेन्नै संजीवी मार्केटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3667	46956	क्रैस क्रास क्लासिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3668	46957	पार्मा प्लस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3669	46958	डिजिलाग एमबीडिड सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3670	46965	धनप्रभु टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3671	46966	एक्सैट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3672	46973	डेवलपमेंट 2002.काम प्राइवेट लिमिटेड
3673	46976	श्री साइ एम्ब्राइडरी एण्ड लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड
3674	46981	ओन-डीरफूल शाप्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3675	46983	अरवीर सेक्यूरिटी एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3676	46984	अस्ट्रेल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3677	46988	वीकनेक्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3678	46996	रिच नेट विशन.काम प्राइवेट लिमिटेड
3679	47004	ए.एम. अग्रो फूड्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
3680	47018	फराटीयर पसिफिक टेक्नालजीस & साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3681	47031	रिलाक्स अक्वा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3682	47032	एलएल2बी.काम प्राइवेट लिमिटेड
3683	47034	ओम मेनपवर कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3684	47035	इन्फ्रानेट टेक्नालजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3685	47043	सीमिण्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3686	47045	ऐएसएस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3687	47061	मालयाड्री ऐश्वर्या ट्रडर्स प्राइवेट लिमिटेड
3688	47066	गमजेन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3689	47067	स्पाट कमाडिटी कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3690	47072	एसएनएस कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3691	47080	कृन्सेर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3692	47093	ग्लोबल मैनिंग & ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3693	47101	ओपेल इलक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3694	47107	मेटल कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3695	47108	अबीस इलक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3696	47133	क्विक रीच सिंगललैन.काम प्राइवेट लिमिटेड
3697	47135	मार्स डेकोराटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3698	47138	प्रिस्टिजि मल्टि प्लान्स प्राइवेट लिमिटेड
3699	47142	सिल्वरविण्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
3700	47156	वीकेंप हास्पिटालिटिस प्राइवेट लिमिटेड
3701	47157	एएल साफा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3702	47163	शुभभी इन्फोव.काम प्राइवेट लिमिटेड
3703	47168	युनैटेड नदी एक्सपोर्ट & इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3704	47176	विवेक इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
3705	47177	सैबरकर ऐटी कन्सल्टन्ट प्राइवेट लिमिटेड
3706	47185	नवोदया है लैफ प्राइवेट लिमिटेड
3707	47187	एक्सक्यूटिव क्लब प्राइवेट लिमिटेड
3708	47195	गृहप्रवेश प्रापर्टिस प्राइवेट लिमिटेड
3709	47196	के.एस. फउण्डेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3710	47201	इन्वरविशन इंटिरियरस प्राइवेट लिमिटेड
3711	47202	पोन्नुरु ट्रेड लिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3712	47212	ऐटान पालिफ़्ब्स प्राइवेट लिमिटेड
3713	47227	ऐकानईडु आनलैन प्राइवेट लिमिटेड
3714	47235	ओपनार्क टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3715	47240	फोरवेस मल्टिविशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3716	47241	जी.के.आर ट्रावल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3717	47242	लान्सीएयर सेप्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3718	47246	वैडरेस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3719	47251	प्रोफैड्स कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3720	47261	स्कै ई अवशन.काम प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3721	47263	जेएसमाग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3722	47267	ब्रैट सौद कान्ट्राक्टिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3723	47272	रहेनजेन टूर्स & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3724	47275	सिल्वरहार्वस्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3725	47276	ड्रीमकेन आनलैन प्राइवेट लिमिटेड
3726	47287	साईटो टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3727	47294	एमएसपी वेब साल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3728	47313	मासग आर्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3729	47314	वैभवलक्ष्मी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3730	47322	हउस आफ स्टैल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3731	47323	सरस्वती साफटेक प्राइवेट लिमिटेड
3732	47325	सिरमाक सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
3733	47336	अरिवोली एनेम्सिस प्राइवेट लिमिटेड
3734	47337	बयो आरकानिक्स लबोराटोरिस प्राइवेट लिमिटेड
3735	47344	केकेआर फउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3736	47346	विरोडा कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3737	47362	सेवनहिल्स मैनेजमेण्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3738	47367	एन एम डी ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3739	47368	अनुष्ठा.काम प्राइवेट लिमिटेड
3740	47373	वीसेन कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3741	47376	फिनजिन फैनार्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3742	47380	पीजीवी होस्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3743	47381	डीवीया इन्फेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3744	47383	लयेस इन्फर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3745	47384	एमके मायूम ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3746	47387	डीएसए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3747	47390	हैग्लोरी.नेट प्राइवेट लिमिटेड
3748	47391	सनसाफ्ट कंप्यूटर एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
3749	47393	टी।।। वे.नेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3750	47394	मोलिकुलार बायोसाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
3751	47407	इन्टग्रल अग्रि-रिसोर्स कमाडिटिस प्राइवेट लिमिटेड
3752	47411	डिवैन शिपिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3753	47414	जे.एल. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3754	47417	लेर्नप्रो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3755	47422	इबेलवेल्ट्स काम प्राइवेट लिमिटेड
3756	47425	रुडीविज.ए.किताब प्राइवेट लिमिटेड
3757	47433	सिमन फ्रंश का अडॉर प्राइवेट लिमिटेड
3758	47446	पुनर्मा प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
3759	47442	सिटीस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3760	47461	हिमालय कन्फेडिय सिडियोस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3761	47473	विसक्यूब टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3762	47478	कार्गुवेल टिबर्स प्राइवेट लिमिटेड
3763	47479	टेकमार्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3764	47487	सलनाज ट्रवल प्राइवेट लिमिटेड
3765	47491	आर.आर.डी. कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3766	47501	मिडास टेक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड
3767	47503	एसएस साफवेअर रिसर्च & रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
3768	47514	क्लस्टर मैनेजमेन्ट कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3769	47517	डेन असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3770	47529	एस.के.एन. वेल्डनेट प्राइवेट लिमिटेड
3771	47531	रेहोप मैनेजमेन्ट कन्सल्टन्सी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
3772	47539	ई.ए.पी. इंडिरिसिंग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3773	47540	गेम्का एक्स्प्रेस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3774	47551	एसीएफए फ़ाइट लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3775	47552	टेक्सट्रा वेंचेर्स प्राइवेट लिमिटेड
3776	47554	वल्लिबेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3777	47566	अक्यूल्ड कंप्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
3778	47580	सैदापेट एलविट्रकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3779	47589	चेन्नै स्टाक्स & शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
3780	47604	जेंटिक मेगा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3781	47608	प्लासेर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
3782	47609	साईगुरु प्रापर्टिस एण्ड डिवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3783	47610	मार्सवास टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3784	47615	पवरप्लांट कन्सल्टिंग एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3785	47616	लारुस साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3786	47618	अड्वान्सड इविंग एण्ड कारपोरेट अकतमी प्राइवेट लिमिटेड
3787	47622	मैस्टी गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड
3788	47657	हेर्बो एवरग्रीन मार्केटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3789	47663	इस्ट कोस्ट ट्रेडिंग एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3790	47683	सीटपेर्सन्ट फ़्लवर्स प्राइवेट लिमिटेड
3791	47716	राकफोर्ट हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3792	47717	ट्विन टैटिल एडुकेशनल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3793	47724	नेटस्कोयर काम प्राइवेट लिमिटेड
3794	47733	टु-डे फ़र्निचर & इटिरियर डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3795	47735	माक्सट्रेड बिसिनस कन्सोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
3796	47736	एएमएस प्रोटिक्टिव पैन्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3797	47738	डीप नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3798	47743	डॉ. टियोस लिंगी मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3799	47763	हैडर सेक्यूरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3800	47770	लिंगुवा फ़ान्का प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3801	47780	रन्स ऐ-टेक प्राइवेट लिमिटेड
3802	47796	लिफ्ट एण्ड लिफ्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3803	47801	श्री विश्वा रेस्टारट प्राइवेट लिमिटेड
3804	47823	शांता बोटानिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3805	47861	इन्फोवेल्ड कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
3806	47885	बयो-कप पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3807	47888	सी.सी.ए. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3808	47889	एरो ट्रवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3809	47891	सूर्या नेटसाफ्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3810	47893	साग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3811	47894	कार्टिना ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3812	47898	अल्लमण्डा कन्सल्टिंग एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3813	47906	लक्ष्मी ट्रवल जोन प्राइवेट लिमिटेड
3814	47929	लैफकेर एन्शुयर मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3815	47932	गार्ग बूक्स प्राइवेट लिमिटेड
3816	47936	ब्रिलियण्ट नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3817	47943	यूनिवर्सल इन्शुरन्स सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3818	47948	वेफउण्ड कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3819	47954	ग्लोरियस डिसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
3820	47955	स्कैनैट इन्फो प्राइवेट लिमिटेड
3821	47966	हार्पर्स फिलिम्स प्राइवेट लिमिटेड
3822	47988	एसकेएस इन्फोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
3823	47991	डोरमेन लांग एक्विम प्राइवेट लिमिटेड
3824	47997	सौत इंटरलिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3825	48073	स्टीर एक्पोर्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3826	48076	एम.एस.के.आर. फ्लाट्स प्राइवेट लिमिटेड
3827	48077	पोन्बाबू चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
3828	48078	श्रीनावलडी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3829	48086	बी.वी. स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
3830	48105	सुशि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3831	48112	बीवीएस सिल्क वेल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3832	48113	ई-मिडिया सोल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड
3833	48118	वान्धा फ्रैंट लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3834	48126	अभि इन्फोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3835	48134	कादीजा डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
3836	48139	एम्पयर लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3837	48140	ईलूक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3838	48143	मैक्रोपार्क टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
3839	48147	एल & आर बिल्डर्स & सूपर प्राजेक्ट कन्सल्टन्ट प्राइवेट लिमिटेड
3840	48161	डेटास्मार्ट टेक्नालॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3841	48165	बारनाकेल-ईडा-कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3842	48168	श्री जीनीईस फिलिम्स प्राइवेट लिमिटेड
3843	48170	एवरब्रैट सेक्यूरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
3844	48171	फ्यूचर ऐटी कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3845	48178	इन्टरग्रेड एनविरानमेंटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3846	48202	एसपी जेएन प्राजेक्ट्स & सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3847	48212	नैस डेटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
3848	48217	नागूर आईल बक प्राइवेट लिमिटेड
3849	48219	होटल अडैयार राज प्राइवेट लिमिटेड
3850	48220	कावेरी गार्नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3851	48251	जे के बी लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3852	48257	यूएसबी मेनपवर कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3853	48266	डीक्सिकान टेहफूड्स कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3854	48269	सुरबीश्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3855	48281	विक्टरी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3856	48285	रेश्मा एजेन्सिस प्राइवेट लिमिटेड
3857	48286	चेन्नै टेक्नोप्यूर कोटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3858	48293	योगलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
3859	48294	राजराजन टूरस एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3860	48295	एआरएस मेजिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
3861	48299	जयसम मार्केटिंग कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3862	48310	ब्लाक गोल्ड बिटुमेन प्राइवेट लिमिटेड
3863	48317	मेकानिकल सोल्यूषन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3864	48323	विघ्नेश शिपिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
3865	48343	स्कैटच टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3866	48349	न्यूपेंटगन स्टारक्टरर्स प्राइवेट लिमिटेड
3867	48360	वैकर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3868	48366	श्री कमल चिट्स चेन्नै प्राइवेट लिमिटेड
3869	48372	डापलैन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3870	48374	अग्निता मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3871	48386	डीन टूरस & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
3872	48388	बालाजी बिसनस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3873	48406	जेजेएम एक्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3874	48408	विस्कार साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3875	48414	अभिरामी फूड्स & रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3876	48432	जी जी बी एण्टर्प्राइस प्राइवेट लिमिटेड
3877	48433	एमएसएम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3878	48438	झीम कास्ट एन्टरटेन्मेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3879	48443	देवी फूड्स & केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3880	48446	ओशनाप्स सोल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3881	48449	वोयाजिर ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3882	48470	नैबरहुड येल्लो पेजस प्राइवेट लिमिटेड
3883	48478	श्री नागप्पा ज्वल्लरी प्राइवेट लिमिटेड
3884	48487	सप्तऋषि के कन्सल्टेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3885	48495	टैटाली डिजिटल स्टूडियोस प्राइवेट लिमिटेड
3886	48507	सी आर एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
3887	48508	सत्यनारायणन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3888	48516	महा प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3889	48541	मायूरी मिशिनरी प्राइवेट लिमिटेड
3890	48545	के. अय्यादुरै साइ मैन्स प्राइवेट लिमिटेड
3891	48549	विन सन् 2005 मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3892	48552	श्रीसाई नम्बिककै चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3893	48566	कमान्डो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
3894	48585	मिशन साफ्टवेयर कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3895	48587	एन ए के मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3896	48591	एस एस नैट साफ्ट सोल्युशनस प्राइवेट लिमिटेड
3897	48634	सर्फेस आलोइस प्राइवेट लिमिटेड
3898	48646	सिल्वर शेन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
3899	48651	यूसैला शूस प्राइवेट लिमिटेड
3900	48661	युवा रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
3901	48671	अंजु प्रेम नेट अप्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
3902	48673	स्कैलैट ट्रवल्स प्राइवेट लिमिटेड
3903	48675	श्री बालाजी फैन केमिकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3904	48683	इन्फोट्रनिक्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3905	48697	सक्सस साफ्टवेयर सोल्युशनस प्राइवेट लिमिटेड
3906	48707	बे सिमेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3907	48710	साधना फ्राजिन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
3908	48711	कर्पगम इंजीनियर्स & बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3909	48715	टेजसाफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड
3910	48736	रायल इंडिया मार्केटिंग एण्ड कंटेनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3911	48754	अवाल इंडिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3912	48757	चेन्नै एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
3913	48760	नूताल्स प्लस कार्डस प्राइवेट लिमिटेड
3914	48768	श्री सार्णम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3915	48770	अप्पर इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3916	48771	जाय एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3917	48777	क्लासिक अदिसिव प्राइवेट लिमिटेड
3918	48780	आकाश गंगा अप्परेल मार्केटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3919	48790	अधिधि मेनेज्मेंट एण्ड सोल्युशनस प्राइवेट लिमिटेड
3920	48792	जियान इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3921	48795	मैनिंग साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3922	48796	ए पी एन मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3923	48798	लैफ टेलिविशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3924	48801	क्रासवेल्ड टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3925	48805	एन वी एस आटोमोबाइल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3926	48806	बुक मास्टर पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3927	48811	बाडी एण्ड सेन्स फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड
3928	48812	बारा लांजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3929	48818	रायल डिसेनर प्राइवेट लिमिटेड
3930	48825	मल्लिगै होम नीड्स एण्ड सर्विसस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3931	48836	प्रेसन मेडिकर प्राइवेट लिमिटेड
3932	48837	मेक्यू मीडिया मेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3933	48842	युनीकांप साफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3934	48867	अन्नामलै लक्ष्मी मुदलियार हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3935	48869	लक्या साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3936	48877	सकीस फुड्स & किड्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
3937	48879	हैलेण्ड स्प्रिंग्स फुड & बेवरेजिस प्राइवेट लिमिटेड
3938	48880	डेनल इंडस्ट्रियल टूल प्राइवेट लिमिटेड
3939	48882	आरवी कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
3940	48883	प्रिमस प्रिसिसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3941	48888	पवरमैण्ड्स साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3942	48893	कर्णवती किचन्स एण्ड बेडरूम सूट प्राइवेट लिमिटेड
3943	48897	दस्तरा कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
3944	48905	दासरी डिजिटल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
3945	48912	माज ट्रेडर्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3946	48914	प्रो-लैन ट्रेड वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड
3947	48928	श्री अरुणा रेसिन & केमिकल प्राइवेट लिमिटेड
3948	48932	कोरमेण्डल हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड
3949	48935	नेटल कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3950	48983	टेलिक. नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3951	48989	आर एस आर पी सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3952	48990	आस्सान एजुकेर प्राइवेट लिमिटेड
3953	48997	पार्वती फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
3954	48999	कौमारम क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3955	49001	लविक ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
3956	49009	एक्सैट साफ्टवेयर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3957	49011	फिडलिटी मेटाकेम प्राइवेट लिमिटेड
3958	49017	कोगिटेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3959	49019	यू-निक इन्फोवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3960	49020	सन स्टाक्स एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
3961	49023	राक्सबर्ग-देवराज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3962	49027	टिम्मीस नेट साफ्टवेयर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3963	49031	इन्नोवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3964	49032	आल्टो साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3965	49033	केस्पियन वाटर (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
3966	49034	टच्चेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3967	49036	प्रेम हेंगर्स प्राइवेट लिमिटेड
3968	49040	एनएलपी एक्सिस प्राइवेट लिमिटेड
3969	49041	श्री कार्तिकेयन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3970	49047	गोवन्ना ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
3971	49050	गुडविल पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
3972	49054	सनवेक्स साफ्टवेयर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3973	49056	ईडन अग्रिकल्चर एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3974	49058	एमिको साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3975	49062	ओरियण्ट ग्रीन कायर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3976	49068	मालिंद कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
3977	49070	एशियन मनी रेमिट्टेन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
3978	49072	मेक्कोय कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3979	49080	हिमालया फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
3980	49086	यू विन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3981	49088	श्री रासी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3982	49093	स्कैलिमिट मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3983	49094	केपमार्क अडवाइसरी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
3984	49105	एसवीई पवर प्राइवेट लिमिटेड
3985	49108	रूपकली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3986	49112	आरपीएन सरफेस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3987	49113	दौलत एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
3988	49131	एलडीजी विंडफार्मस प्राइवेट लिमिटेड
3989	49134	एवरग्रीन हेल्थकेर प्राइवेट लिमिटेड
3990	49135	बांडी साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3991	49137	जग वीरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3992	49144	प्रोडिजी मनेज्मेन्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3993	49147	एल.एन. पर्योमेट्रिक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
3994	49148	हो-केर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3995	49165	एस आई एस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
3996	49171	तैरो लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3997	49173	टी एस लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
3998	49174	एस जी एस पौल्ट्री फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
3999	49175	एन्विचर वेल्थ मनेज्मेन्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4000	49190	दिरपिल डाट्स इमेजस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
4001	49198	इंडस वेल्सी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4002	49203	ओ निला अम्यूसमेण्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड
4003	49206	तेजास रिन्वूबल टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4004	49209	अमेरिकन वुड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
4005	49214	ट्रफाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4006	49228	डिजीकान इन्सट्रुमेण्ट्स एण्ड पवर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4007	49233	वी बी एम अशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
4008	49237	टीम टेन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
4009	49240	मेगा स्टार नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड
4010	49242	अमेथिस्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4011	49246	फिल्ट सेक्यूरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
4012	49253	मुत्तमिल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
4013	49255	ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चुरी बयो-टेक इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4014	49259	एसडीजीसी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4015	49266	विनायक इम्प्रेसन्स प्राइवेट लिमिटेड
4016	49269	एन एन बी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
4017	49270	अल्फी हेर्बलक्यूर प्राइवेट लिमिटेड
4018	49272	होटेल ली-मण्ट प्राइवेट लिमिटेड
4019	49273	यूनी-लाजिस्टिक्स लैन प्राइवेट लिमिटेड
4020	49278	ओवल पार्क अग्रो टेक एण्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
4021	49279	टेलि साउथ कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4022	49280	क्वान्टस इन्फोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
4023	49285	तिलोत्तमा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
4024	49286	जियान रेमडीज प्राइवेट लिमिटेड
4025	49289	फेमिली केर एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
4026	49294	ई3 डिजिटल टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4027	49295	श्री मूकाबिगा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4028	49301	अधिका ऐटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
4029	49304	श्री अम्मन अग्रो टेक फार्म प्राइवेट लिमिटेड
4030	49305	थास इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
4031	49306	एमपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
4032	49309	वलर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4033	49310	मद्रास कफे (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
4034	49315	बेस4बैन्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
4035	49316	डबल्यू-ओन सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
4036	49318	नुम्बिस इम्पोर्ट्स & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4037	49320	शाबु कन्स्यूमर प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4038	49322	फिडा इंजीनियरिंग & टेक्निकल कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4039	49324	प्रिसेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4040	49325	नवीन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
4041	49326	हिल्टन रिसर्च & ट्रेनिंग इन्सटिट्यूट
4042	49330	क्रोसियर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4043	49331	जे.पी. बिल्डर्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
4044	49332	सेप इंजीनियरिंग & कन्सल्टरक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
4045	49336	हरेश्वर ऐटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4046	49339	टी टी असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
4047	49345	अलिकार टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4048	49359	मुरुगन है-टेक अग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
4049	49365	हर्जुन होम डेलिवर्स प्राइवेट लिमिटेड
4050	49376	मिल्लेनियम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड
4051	49377	मंगै आफिस नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
4052	49387	अपेक्स शिपिंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
4053	49388	एस जी के टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4054	49400	टेरा फिरमा फार्मासिटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
4055	49406	अल्मिक्स अरफल्ट एक्जुप्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4056	49408	जिनीसिस ऐ केर प्राइवेट लिमिटेड
4057	49413	इन्फिनेट फ्लोरा प्राइवेट लिमिटेड
4058	49415	केपिटल इंप्रिन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4059	49429	अविष्ठा एण्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
4060	49431	जीवरत्नम एण्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
4061	49435	जुलू स्टार इंपोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4062	49439	रिफार्म अक्वा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4063	49441	मेनंग ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
4064	49443	मीनाक्षी मेडिकल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
4065	49444	एंग्लो सीस कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
4066	49449	मूवेदर विसन्स लिमिटेड
4067	49457	महाजनम.काम प्राइवेट लिमिटेड
4068	49458	अचिल्लस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4069	49459	मोनारो इंडिया सेक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
4070	49466	केन्नि बयोमेड प्राइवेट लिमिटेड
4071	49467	मेपिल थाट्स प्राइवेट लिमिटेड
4072	49471	रवी बयालजिकल प्राइवेट लिमिटेड
4073	49480	विग्ने अग्रो एण्ड अल्लैड फार्म प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4074	49491	इंडस इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड
4075	49492	क्रोयडान कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4076	49494	ग्रीन फोर्स इंको सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
4077	49507	इटटेग्रा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
4078	49509	शक्ति इंस्ट्रुमेंट्स एण्ड टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4079	49527	भारतमास कन्सल्टरक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
4080	49528	लाजिक इन्साइट्स साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
4081	49530	संस्ट्रीम कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
4082	49532	एमकेदत्ता ब्रिजवे अग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड
4083	49534	अरम मेनपोरुलगम प्राइवेट लिमिटेड
4084	49535	एयरशैन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
4085	49551	मेरिट गेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड
4086	49558	जी नेक्स्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4087	49561	पी स्कोयर्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
4088	49575	स्टान्डर्ड रोड्स कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
4089	49580	ओस्मिया साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
4090	49591	विस्कार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
4091	49603	आरएसआर आर्टिक एक्सपोर्ट्स & इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4092	49605	पेलिता नसि कंडार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
4093	49606	वी-टीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4094	49610	श्री अमृता कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
4095	49616	सिंगपूर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
4096	49621	पनामा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4097	49623	मतिवाणन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4098	49624	मीनाक्षी एक्सपोर्ट्स (वेल्लूर) प्राइवेट लिमिटेड
4099	49628	तिरुवान्कूर राजा वैद्य सालै प्राइवेट लिमिटेड
4100	49639	जेएसआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4101	49643	जेरिखो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
4102	49652	एसकेटिएस कन्सल्टन्सी (इडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4103	49657	आरज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4104	49660	एमसीटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4105	49664	लाणसर सेक्यूरिटी & एल्लैड सर्वीसस (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
4106	49667	वी स्टार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
4107	49669	ग्रीन अग्रो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4108	49670	रापिया रेक्यूटमेंट एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड
4109	49674	सिंगपूर कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
4110	49680	सेंट अब्रहम अग्रो प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4111	49689	श्री अम्मन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
4112	49700	हुआ टांग सीफुड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
4113	49701	बी बी कस्टमर सपपोर्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4114	49702	कटारी इंपोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4115	49709	अर्नको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4116	49711	श्रीपाल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड
4117	49712	ओशो फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
4118	49715	लेक्स्ल्स एक्सक्यूटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
4119	49717	एडिफैस इन्फर्मेसन एण्ड टेक्निकल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
4120	49723	उदय रीकन्डिशनर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
4121	49726	काफ़ा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
4122	49734	चेन्नै लान्केमी प्राइवेट लिमिटेड
4123	49745	ईलुक फ़ेर्स प्राइवेट लिमिटेड
4124	49753	कुमार नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
4125	49754	शुभ इन्फ़ो प्राइवेट लिमिटेड
4126	49755	चेन्नै एनएमआरए रेकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड
4127	49756	डी बी टेकनो हेचआर प्राइवेट लिमिटेड
4128	49759	सिस्ट्राल टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4129	49770	पेटर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4130	49771	कैस इन्फ़ोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4131	49777	मैक्रो कंर मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4132	49781	साम पेल्ले प्राइवेट लिमिटेड
4133	49791	जे के एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड
4134	49792	सेलटेक साफ़्टवेअर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4135	49797	ओमेगा बयो हेल्थकेर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4136	49813	अरक्कल पवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
4137	49821	एम जी एम स्टोन क्रसर्स प्राइवेट लिमिटेड
4138	49825	एस जे आडियो प्यूपल प्राइवेट लिमिटेड
4139	49833	श्री मुष्पात्तम्मन मल्टीमार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4140	49838	बीनस्टाल्क अडवरटैसिंग प्राइवेट लिमिटेड
4141	49843	एडन (इंडिया) अप्लैयन्स प्राइवेट लिमिटेड
4142	49860	बालाजी नालेज हाउस प्राइवेट लिमिटेड
4143	49865	पाटिन इन्फ़ोटैन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
4144	49869	एस्चुआरी आइलैंड्स प्राइवेट लिमिटेड
4145	49872	जानवी मेडिक्वैब्स प्राइवेट लिमिटेड
4146	49874	विग्नेश कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4147	49879	श्री किरण बिल्डर्स & प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4148	49883	बिसिनेस लीडर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4149	49885	नैन स्टार शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
4150	49888	पोल्लक्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4151	49897	मेण्टारी हालिडेस प्राइवेट लिमिटेड
4152	49911	हेप्टगन कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
4153	49914	मयिलै टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
4154	49921	भाग्य रेखा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4155	49931	वीन्यू साफ़्टवेअर प्राइवेट लिमिटेड
4156	49933	इन्फ़राए साफ़्टवेअर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4157	49942	गामा लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4158	49953	रेहान सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4159	49955	रेपिडो साफ़टेक प्राइवेट लिमिटेड
4160	49957	स्वर्णलक्ष्मी बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
4161	49963	वीएसई गोल्ड हाउस प्राइवेट लिमिटेड
4162	49970	आई-फोन कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4163	49971	नन्दा टेक्नालजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4164	49978	निम्मी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4165	49985	नित्या एयर ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
4166	49999	एस & के कान्सेन्ट्रिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4167	50000	रद्रसानो इपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
4168	50001	पेक विसन प्राइवेट लिमिटेड
4169	50006	जे के एस कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4170	50019	ब्लास्सम हार्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4171	50025	साइ शक्ति कृपा फउंडेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4172	50027	विस्ता पालिप्राडक्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
4173	50028	फयेस टैम अप्पेरल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड
4174	50030	श्री सेल्वाबिगे चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
4175	50031	जेजी सनरैस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4176	50032	टिरग साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
4177	50033	एलएसएनसी इपेक्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
4178	50034	ऐकिवे आनलैन् सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
4179	50036	चेन्नै स्केन्स एण्ड लेब्स प्राइवेट लिमिटेड
4180	50037	ट्रान्सरिम टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4181	50049	रैट गार्डस सेक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
4182	50050	एन्टरान एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
4183	50051	वेदा क्वालिटी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
4184	50052	विनुशा कन्टैनर लैन् प्राइवेट लिमिटेड
4185	50053	अग्नि किरियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4186	50054	सालिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
4187	50056	अमुदम डायरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
4188	50060	डैब & ब्लासम्स वायेजस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4189	50061	प्रोटेला टेक्नालजी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4190	50064	सीएमआई सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4191	50065	एम सी एस इपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
4192	50066	यू केन कस्यूमर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
4193	50071	रेक्सिको ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
4194	50077	एच & आर स्टील डीटैलिंग प्राइवेट लिमिटेड
4195	50080	एमराल्ड अप्पेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
4196	50090	वू-वे इंटग्रेटेड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4197	50094	एल्डोराडो आई टी एनेबल्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
4198	50095	श्री विजय मारुती एक्सपोर्ट्स एण्ड इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4199	50096	एसजीएस किरडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
4200	50101	नीबर्न एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
4201	50109	कास्टर & पोल्लक्स प्राइवेट लिमिटेड
4202	50114	श्री केएसआर स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड
4203	50118	बालानंद एण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
4204	50119	मोव्या इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
4205	50120	सिल इन्फर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4206	50124	किनी टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
4207	50125	मोल्डो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

डी. सूर्य नारायणा
सह कम्पनी पंजीयक
तमिल नाडु,

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110 069, the 22nd January 2008

No. A-32014/2/2006-Admn. I—In pursuance of DOP & Trg. OM No. 5/8/2006-CS. II dated 8th January, 2008, the President is pleased to the continuation of ad hoc appointment of the following Steno Grade 'C' as Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS (designated as PS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the cadre of UPSC for a further period of six months beyond 31.12.2007 i.e. upto 30.06.2008 or until further orders, whichever is earlier :—

1. Ms. Mukta Makar
2. Ms. Kusum Budhiraja
3. Shri C. K. Parameswaran
4. Shri S. L. Bhuttan
5. Ms. Renu Kohli
6. Shri Virender Kumar
7. Shri Gopal Rajwaney
8. Ms. Santosh Anand
9. Shri I. S. Kataria
10. Shri Azad Singh Yadav
11. Shri Gurdev Singh
12. Shri Gursharan Singh
13. Shri B. S. Jolly
14. Shri P. K. Khara
15. Ms. Manju Arora
16. Shri Ramesh Kumar Kapoor
17. Shri Premakumaren V. K.
18. Shri Amarjit Singh
19. Shri P. V. Parthasarathi
20. Shri V. K. Gupta
21. Shri Vinay Kumar

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

The 18th February 2008

No. P-1860-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri B. S. Ghuman, PPS of CSSS Cadre of UPSC, as Sr. PPS in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in CSSS cadre of UPSC on ad hoc basis w.e.f. 13th February 2008 (FN) to 30th June, 2008 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The appointment of Shri B. S. Ghuman as Sr. PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Grade of Sr. PPS.

3. The issues in pursuance of DOP & Trg. OM No. 5/5/2007-CS. II dated 22nd October, 2007, 20th December, 2007 and 11th February, 2008.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

No. A-19016/02/2007-Admn. I—In pursuance of DOP & Trg. OM No. 5/6/2007-CS. II dated 05th November, 2007 and 17th December 2007, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, regular Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS cadre of Ministry of Finance, Department of Revenue, as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in CSSS cadre of UPSC on ad hoc basis w.e.f. 12th December, 2007 (FN) to 30th June, 2008 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Ashok Kumar as PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Grade of CSSS (PPS).

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

The 19th February 2008

No. A-12011/2/298-Admn. I—The President is pleased to appoint the following Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS to the Private Secretary Grade (Principal Private Secretary) of CSSS in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the cadre of UPSC on ad hoc basis for a further period of six months beyond 31.12.2007 i.e. upto 30.06.2008 or till Select List officers become available or until further orders, whichever is earlier :

- (i) Ms. S. M. Oberoi
- (ii) Shri H. C. Sehgal
- (iii) Shri S. S. Sharma

2. The promotion of the above-mentioned officers as PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

3. The issues in pursuance of DOP & Trg. OM No. 5/6/2007-CS. II dated 17th December, 2007.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 20th March 2008

No. DP Pers. I/2008/0060/3/17/2003—Services of Sri P. V. Ramakrishna Rao, Public Prosecutor, CBI on deputation from Govt. of Andhra Pradesh, are placed back at the disposal of Govt. of Andhra Pradesh on repatriation with effect from 15.02.2008 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Admin. Officer (Pers.)

No. DP Pers. I/2008/0061/3/33/97—The President is pleased to appoint Shri S. Krishan Kumar, Assistant Public Prosecutor, CBI as Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 29.02.2008 and until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Admin. Officer (Pers.)

No. DP Pers. I/2008/0062/3/28/97—The President is pleased to appoint Shri Barinder Pal Singh, Sr. Public Prosecutor, CBI as Dy. Legal Adviser in the CBI with effect from the forenoon of 28.02.2008 and until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Admin. Officer (Pers.)

No. DP Pers. I/2008/0063/3/7/97—The President is pleased to appoint Shri Shailesh Narayan Pathak, Assistant Public Prosecutor, CBI as Public Prosecutor in the CBI with effect from the forenoon of 29.02.2008 and until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Admin. Officer (Pers.)

The 24th March 2008

No. DP Pers. I/2008/0066/A-19023/7/84—The President is pleased to appoint Shri Mohd. Azad, Sr. Public Prosecutor, CBI as Dy. Legal Adviser in the CBI with effect from the forenoon of 28.02.2008 and until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Admin. Officer (Pers.)

No. DP Pers. I/2008/0067/3/86/96—The President is pleased to appoint Shri S. Bhattacharya, Sr. Public Prosecutor,

CBI as Dy. Legal Adviser in the CBI with effect from the forenoon of 28.02.2008 and until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Admin. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 17th March 2008

No. A-VI-I/2008-Pers-I (AC)—The President is pleased to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Joining
1.	Shri Ramesh Singh Bisht	03.03.2008 AN
2.	Shri Khan Salim Ahmed	03.03.2008 AN
3.	Shri Sanjeev Kumar	03.03.2008 AN
4.	Shri Rajmohan Singh	03.03.2008 AN
5.	Shri Nalavade Mahesh Bajirao	03.03.2008 AN
6.	Shri Waquar Ahmed	03.03.2008 AN
7.	Shri Prashant Kumar Gupta	03.03.2008 AN
8.	Shri Sanjay Kuamr	03.03.2008 AN
9.	Shri Vedpal Singh	03.03.2008 AN
10.	Shri Arnit Kumar Jha	03.03.2008 AN
11.	Shri Ran Singh	03.03.2008 AN
12.	Shri Rishidev Singh Chahal	03.03.2008 AN
13.	Shri Anil Tigga	04.03.2008 AN

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarpur (Gurgaon) for training and have taken over charge of their post on the dates noted against their names.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

The 18th March 2008

No. O. II. 3704/95. Pers. I—Consequent on acceptance of his resignation from Govt. Service, Shri Jai Kumar Singh, 2nd in-Command (IRLA-4068) of 169 Bn CRPF relinquished the charge of his post at 70 Bn Delhi i.e. at a place other than his declared HQR as permitted by the competent authority, on the afternoon of 28th February, 2008.

Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force w.e.f. 28.02.2008 AN.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers. I)

DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 11th March 2008

No. A. 12012/5/AD/2007-Admn. II—The following Extra Assistant Directors of this Directorate have been promoted to the post of Assistant Director in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- with effect from the date mentioned against their names :—

1.	Shri T. J. R. Babuji	09.01.2008
2.	Shri D. Balasubramanian	03.01.2008
3.	Shri A. K. Haldar	03.01.2008
4.	Shri M. K. Mandal (SC)	27.02.2008
5.	Shri Phool Kumar (SC)	03.01.2008
6.	Shri C. P. S. Nagra	10.01.2008

Dr. M. S. RAO
Director

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 18th March 2008

No. E-16015/(2)/2007/Pers. I/59—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandant/Fire on regular promotion to the rank of Deputy Commandant/Fire in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Dy. Commandant/Fire on regular basis
1.	S/Shri S. K. Dey	NALCO, Damanjodi	08.02.2008
2.	P. R. Singh	FSTI, Hyderabad	11.02.2008

Sd/- ILLEGIBLE
Director General

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
NORTHERN RAILWAY

New Delhi-110 001, the 19th March 2008

No. 191-NR/2007-08/10201—The following Section Officers are promoted as Assistant Audit Officers, Group 'B' Gazetted in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. 11.03.2008.

1. Shri Hirak Bagchi
2. Shri Tarlochan Singh
3. Shri Gulshan Narang

R. RAJALAKSHMI
Principal Director of Audit

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KERALA

Thiruvananthapuram, the 14th March 2008

No. Admn. V/9-86/V/189—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Accounts Officers of this office as Senior Accounts' Officer (Group B) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the dates noted against each :

Sl. No.	Name	DOA
	Shri/Smt.	
1.	Saramma George	01.01.2008 FN
2.	Vijayalekshmi M (No. 1)	01.01.2008 FN
3.	Lethy P	01.01.2008 FN
4.	Sivakami H	01.01.2008 FN
5.	Vijaya Kumari D	01.01.2008 FN
6.	Sreekala R	01.01.2008 FN
7.	Manmadhan Nair PV	01.01.2008 FN
8.	Jaya TK	01.01.2008 FN

K. VIJAYAKUMARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. V/9-86/V/189—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Asstt. Accounts Officers of this office as Accounts Officer (Group B) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates noted against each :

Sl. No.	Name	DOA
1	2	3
	Shri/Smt.	
1.	Indira K (No. 2)	01.01.2008 FN
2.	Jayakumari G (No. 1)	01.01.2008 FN

1	2	3
	Shri/Smt.	
3.	Indira P	01.01.2008 FN
4.	Mary VC	01.01.2008 FN
5.	Shiela S	01.01.2008 FN
6.	Sumathykutty CJ	01.01.2008 FN
7.	Yesodharan P	01.01.2008 FN
8.	Joseph PJ	01.01.2008 FN
9.	Dickson S	01.01.2008 FN
10.	Thankamma KK	01.01.2008 FN
11.	Sudha M	01.01.2008 FN
12.	Indira CR	01.01.2008 FN

K. VIJAYAKUMARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn. V/9-86/V/189—The Accountant General (A&E) has been pleased to appoint the following Section Officers of this office as Asstt. Accounts Officer (Group B) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates noted against each :

Sl. No.	Name	DOA
1	2	3
	Shri/Smt.	
1.	Jayashree PK	01.01.2008 FN
2.	Sreekumari Anma K.	01.01.2008 FN
3.	Seetha S	01.01.2008 FN
4.	Renuka Devi T	01.01.2008 FN
5.	Celinamma Mathew	01.01.2008 FN
6.	Leelamma J	01.01.2008 FN
7.	Titus Philip	01.01.2008 FN
8.	Susan P Mani	01.01.2008 FN
9.	Vijayakumar MS	01.01.2008 FN
10.	Mohan S	01.01.2008 FN
11.	Eswaran Potty VE	01.01.2008 FN
12.	Manoj Kumar KT	01.01.2008 FN
13.	Nandagopalan TK	01.01.2008 FN
14.	Vijayan Nair KG	01.01.2008 FN

K. VIJAYAKUMARAN
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE
ACCOUNTS

New Delhi-110065, the 24th March 2008

No. AN-I/1171/1/XIII—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of the Senior Administrative Grade (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) of the Indian Defence Accounts Service to the grade of Principal Controller of Defence Accounts and equivalent posts (Scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/-) of that Service, with effect from the dates shown against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment to the grade of Principal Controller of Defence Accounts & equivalent posts
1.	Kum. Ganga Purkuti	04.03.2008
2.	Shri Dheer Singh Meena	01.03.2008

VISHVAJIT SAHAY
Sr. Dy. CGDA (Admin.)

MINISTRY OF MINES
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 19th March 2008

No. 991A/A-32013/3-Chem. (Jr.)/2003/19B—The President is pleased to appoint the following Assistant Chemist Gr. I, G.S.I., as Chemist (Jr.) on promotion in the same department on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis with effect from the date mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name of Officers	Date of Joining as Chem. (Jr.)
1	2	3
1.	Shri Dilip Basak	11.07.2007 (AN)
2.	Shri R. N. Bhattacharjee	11.07.2007 (AN)
3.	Shri Kempe Gowda	11.07.2007 (AN)
4.	Shri Subir Dutta	11.07.2007 (AN)
5.	Shri S. N. Kar	12.07.2007 (AN)
6.	Shri R. Krishna Kumar	12.07.2007 (AN)
7.	Shri B. S. Srinivasaiah	11.07.2007 (AN)
8.	Shri G. S. Nagraj	23.07.2007 (AN)
9.	Shri V. W. Khangan	12.07.2007 (AN)

1	2	3
10.	Shri Ajay Kr. Dutta	11.07.2007 (AN)
11.	Km. (Dr.) S. R. Nautiyal	11.07.2007 (AN)
12.	Smt. Sandhya Tandon	11.07.2007 (AN)
13.	Shri Sushil Bhan	11.07.2007 (AN)
14.	Shri Dinesh Kumar Varshney	11.07.2007 (AN)
15.	Shri D. Veerabhadraiah	11.07.2007 (AN)
16.	Shri Ashoke Roy	11.07.2007 (AN)
17.	Mrs. S. Latha	11.07.2007 (AN)
18.	Shri Chinmoy Chowdhury	11.07.2007 (AN)
19.	Km. Kalpana K. Deshmukh	11.07.2007 (AN)

D. T. SYILMLIEH
Director (Personnel & Admn.)
for Director General

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

NH-IV, Faridabad, the 24th March 2008

No. 31014/1/2000 A. I—The Agricultural Marketing Adviser to the Government of India has appointed Shri Shalendra to the post of Marketing Officer (Group-I) substantively in the Directorate of Marketing and Inspection with effect from 14.7.2007.

R. S. THAREJA
Under Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 18th March 2008

No. PD/4(4)/2005-R-III/2008/2322—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Jayarajan E. K., Private Secretary (Non-secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 20.02.2008, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in this Research Centre until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/4(4)/2005-R-III/2008/2324—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Shobhana Kunhunni Kurup, Private Secretary (Non-secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 03.03.2008, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in this Research Centre until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/4(4)/2005-R-III/2008/2325—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Ramesh U. R., Private Secretary (Non-secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 03.03.2008, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in this Research Centre until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/4(4)/2005-R-III/2008/2326—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Veena Ramanathan, Private Secretary (Non-secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 03.03.2008, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in this Research Centre until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/4(4)/2005-R-III/2008/2327—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Kum. Vimal Sidram Halipyati, Private Secretary (Non-secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 03.03.2008, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in this Research Centre until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III/2008/2329—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Thresiamma James, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 03.03.2008, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, in this Research Centre until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 18th March 2008

No. 1/6(3)/2005-Power/214—The President is pleased to appoint Shri Ehtesham Ahmad, Scientific Officer/Engineer-F of this Department who is on permanent deputation to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade of Scientific Officer/Engineer-G in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- in an officiating capacity w.e.f. 01.08.2007 (FN) until further orders.

2. Shri Ehtesham Ahmad relinquished charge of the lower post held by him w.e.f. 01.08.2007 (FN)

SHOBHA DEVIN.
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 5th March 2008

No. 6 (2475)/2008-Admn./299—The President is pleased to appoint Shri A. Gitesh Sarma, IFS (86) as Joint Secretary in the Department of Atomic Energy, Mumbai in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of February 27, 2008 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 13th March 2008

No. IIWB/R/1 (16)-Tut/2008/283—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri V. Vivekanandan, UDC, IGCAR, to officiate as Assistant Accounts Officer in Heavy Water Plant (Tuticorin) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- from the forenoon of 25th October, 2007 until further orders.

R. P. ACHARYA
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 24th March 2008

No. NFC/Par/8-2007/65—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers and DCFO of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the Grades and with effect from the dates shown against each in the same unit, in an officiating capacity, until further orders. :—

Sl. No.	Name	Promotion		Date of Promotion
		From	To Gr.	
1	2	3	4	5

S/Shri/Smt.

Scale of Pay of SO/E : Rs. 12,000-375-16,500/-

1.	C. Madhusudhan	SO/D	SO/E	1.8.2007
2.	G. Saibaba	SO/D	SO/E	1.8.2007
3.	Y. S. R. Murthy	SO/D	SO/E	2.8.2007
4.	A. Chalapathi Rao	SO/D	SO/E	1.8.2007
5.	M. Balakrishna	SO/D	SO/E	1.8.2007
6.	U. B. Misra	SO/D	SO/E	1.8.2007
7.	G. Sounder Rajan	SO/D	SO/E	1.8.2007
8.	S. Raju	SO/D	SO/E	1.8.2007
9.	T. Srinivasa Rao	SO/D	SO/E	1.8.2007
10.	Suresh Prabhu	SO/D	SO/E	1.8.2007

Scale of pay of DCFO (C) : Rs. 12,000-375-16,500/-

1.	S. Prasada Rao	DCFO/B	DCFO/C	1.8.2007
----	----------------	--------	--------	----------

1	2	3	4	5
S/Shri/Smt.				
Scale of pay of SO/D : Rs. 10,000-325-15,200/-				
1.	V. R. K. Prasad	SO/C	SO/D	1.8.2007
2.	K. Vijayan	SO/C	SO/D	1.8.2007
3.	C. S. Rajendran	SO/C	SO/D	1.8.2007
4.	Jagdish Prasad	SO/C	SO/D	1.8.2007
5.	Lal Mohan Pandit	SO/C	SO/D	1.8.2007
6.	A. Pentaiah	SO/C	SO/D	1.8.2007
7.	N. Krishna Kumar	SO/C	SO/D	1.8.2007
8.	B. Siva Reddy	SO/C	SO/D	1.8.2007
9.	R. S. Nair	SO/C	SO/D	1.8.2007
10.	R. N. Pathak	SO/C	SO/D	1.8.2007
11.	Ch. S. K. Chary	SO/C	SO/D	1.8.2007
12.	G. Mallikarjuna	SO/C	SO/D	1.8.2007
13.	K. Prabhakar	SO/C	SO/D	1.8.2007
14.	Sanjoy Saha	SO/C	SO/D	1.8.2007
15.	G. Pradeep Kumar	SO/C	SO/D	1.8.2007
16.	A. D. Deshmukh	SO/C	SO/D	1.8.2007
17.	E. Suryanarayana	SO/C	SO/D	10.8.2007
18.	Jagdish Ram Jat	SO/C	SO/D	1.8.2007
19.	M. V. S. R. Ravi Kanth	SO/C	SO/D	1.8.2007
20.	P. B. Chaudhary	SO/C	SO/D	1.8.2007
21.	Jobin Koshy	SO/C	SO/D	1.8.2007
22.	Mahak Garg	SO/C	SO/D	1.8.2007
23.	K. Lakshmi	SO/C	SO/D	1.8.2007
24.	Liji George	SO/C	SO/D	1.8.2007
25.	G. Sreenivas Kumar	SO/C	SO/D	1.8.2007
Scale of pay of SO/C : Rs. 8,000-275-13,500/-				
1.	G. N. K. Ganesh Bapu	SO/SB	SO/C	1.8.2007
2.	R. Anandaraman	SO/SB	SO/C	1.8.2007
3.	P. V. Ramana	SO/SB	SO/C	1.8.2007
4.	N. Vijaya Kumar	SO/SB	SO/C	1.8.2007
5.	S. Srinivasan	SO/SB	SO/C	1.8.2007

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 17th March 2008

No. A-32013/9/2006-E-II—The President is pleased to appoint Shri A. S. Kaushal, Airworthiness Officer to the grade of Senior Airworthiness Officer on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate General of Civil Aviation with effect from the forenoon of 27.02.2008 and until further orders.

MEENA SHARMA
Dy. Director of Admin.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajputana Dairies and Foods Private Limited

Jaipur, the 11th February 2008

No. ROC/JPR/560/7270/211—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Rajputana Dairies and Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaipur City Heritage Developers Private Limited

Jaipur, the 29th February 2008

No. ROC/JPR/560/20929/323—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Jaipur City Heritage Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maharana Khanij Udyog Private Limited

Jaipur, the 3rd March 2008

No. ROC/JPR/560/2011/331—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Maharana Khanij Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. A. S. Associates Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 22nd February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00054/10489—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A. S. Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mascon Machineries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 25th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00435/31615—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mascon Machineries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lonza Pharmaceuticals Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 25th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00654/31612—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lonza Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Spectrum Technical Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 25th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00644/31609—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Spectrum Technical Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Solid 2000 Trade Limited

Ahmedabad-380 013, the 25th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00044/31606—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Solid 2000 Trade Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Road Master Infrastructure Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 25th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00021/31603—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Road Master Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. US Inject Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 25th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00051/31640 Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. US Inject Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Simran Apparels Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 26th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00067/31641—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Simran Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neelam Equipment Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 26th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00021/31644—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Neelam Equipment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Concept M R Multiproducts Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 26th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00039/31647—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Concept M R Multiproducts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Trinetrans Security and Control Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 26th February 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00085/31650—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Trinetram Security and Control Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Niceman Drupharm Limited

Ahmedabad-380 013, the 5th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00013/32163—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Niceman Drupharm Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rasila Food Products Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 5th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00004/32166—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rasila Food Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Passionate Software Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00016/32245—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Passionate Software Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amaapyog Network Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00010/32249—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amaapyog Network Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Unnati Telesystem Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00041/32252—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Unnati Telesystem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Izumi Engineering India Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00007/32257—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Izumi Engineering India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Triumph Finsec (Ahmedabad) Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 18th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00040/33032—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Triumph Finsec (Ahmedabad) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rohan Agro Farms Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 18th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2008/00043/33035—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rohan Agro Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said Company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arjuna Food Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00485—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arjuna Food Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jakoven Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00494—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jakoven Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swami Shanti Prakash Foods Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00489—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swami Shanti Prakash Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Purple-Tulips Estate Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00497—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Purple-Tulips Estate Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. On Line Courier and Cargo Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00518—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. On Line Courier and Cargo Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Seashore Trading Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00637—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Seashore Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wagad Corporate Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00246—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wagad Corporate Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dreamland Capital and Finance Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00480—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dreamland Capital and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Seawest Trading Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00476—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Seawest Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Agrico Farminputs Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00464—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agrico Farminputs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vidarbha Building Constructions Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00461—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vidarbha Building Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Michael and Martin Engineering (India)
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00453—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Michael and Martin Engineering (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Luck-by Chance Entertainment Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00447—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Luck-by Chance Entertainment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kshitij Travel and Tours Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00434—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kshitij Travel and Tours Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Priyanka Tools Manufacturing Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00422—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priyanka Tools Manufacturing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. First Mumbai Securities Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00413—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. First Mumbai Securities Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sajjan Finance Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00402—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sajjan Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bindiya Chawla Interagencies Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00389—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bindiya Chawla Interagencies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. VJS Investments Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00380—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. VJS Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajmercury Fin-Lease Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00473—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Rajmercury Fin-Lease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shine Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00685—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shine Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. DPS Shares and Securities Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00679—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. DPS Shares and Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Clean Water Tanks (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00442—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Clean Water Tanks (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rutvij Securities and Finance Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00670—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rutvij Securities and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nagnechi Traders Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00666—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nagnechi Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kripa Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00661—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kripa Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anandvan Agro Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00642—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Anandvan Agro Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Osbourne Investments Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00633—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Osbourne Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Datta Departmental Stores Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00626—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Datta Departmental Stores Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Poly Valves (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00622—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Poly Valves (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Satva Credit Capital Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00618—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Satva Credit Capital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pramada Mercantile Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00615—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pramada Mercantile Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Synergy Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00611—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Synergy Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shaputra Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00607—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Shaputra Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suma Automobiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00592—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Suma Automobiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pliable Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00576—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pliable Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mulki Finance and Leasing Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00572—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mulki Finance and Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gate Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00566—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gate Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Approach Engineers (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00282—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Approach Engineers (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. BTC Dredging and Marine Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00315—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. BTC Dredging and Marine Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wiztech Computers Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00539—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Wiztech Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Devasahayam Engineering Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00490—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Devasahayam Engineering Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Samarpan Holdings Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00287—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Samarpan Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mauli Trading, Saving and Finance Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00378—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mauli Trading, Saving and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Asven Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00186—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Asven Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Reliant Trade and Exports Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00201—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Reliant Trade and Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bankey Singh Security Guard Services
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00215—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bankey Singh Security Guard Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Omkarnath Builders and Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00271—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Omkarnath Builders and Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mangal Din Leasing and Finance Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00069—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mangal Din Leasing and Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Spark Electro Consultants (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00737—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Spark Electro Consultants (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Billionaire Import Export Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00743—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Billionaire Import Export Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ancolon Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00309—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ancolon Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. J. V. S. Marine Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00169—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J. V. S. Marine Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Unicorn Management and Consultancy
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00349—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Unicorn Management and Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. SUS Operations Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00548—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. SUS Operations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Akalmash Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00731—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akalmash Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Body Care Cosmetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00701—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Body Care Cosmetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Subudhi Textile and Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00640—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Subudhi Textile and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Makewell Packaging Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00690—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Makewell Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Vijaya Engineering Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00696—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Vijaya Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kavands Hotels Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00166—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kavands Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tej Mosquito Mats and Repellants Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00481—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Tej Mosquito Mats and Repellants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gonics Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00399—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gonics Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. SK and RK Medicine Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00629—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SK and RK Medicine Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Utopian Resorts and Hotels Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00273—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Utopian Resorts and Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suregain Finideas Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00267—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Suregain Finideas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Seven-S-Banking Management Consultancy
Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00241—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Seven-S-Banking Management Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. E. G. Phadnis and Sons Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00235—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. E. G. Phadnis and Sons Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mona Poultry Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00630—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Mona Poultry Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Sai Shraddha Developers Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00426—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Sai Shraddha Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikrant Capital Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00306—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vikrant Capital Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Komal Diamonds Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00173—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Komal Diamonds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wishwatma Investment and Finance Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00182—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wishwatma Investment and Finance Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Equus Computer Consultancy and Services
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00185—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Equus Computer Consultancy and Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vesat Medica Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00133—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vesat Medica Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. ASG-Omni India Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00371—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. ASG-Omni India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Umang Silk and Synthetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00544—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Umang Silk and Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Priyamvadhya Bleaching and Dyeing Works
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00442—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priyamvadhya Bleaching and Dyeing Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Bahubali Yarns Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00427—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Bahubali Yarns Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tanmani Textiles Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00388—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tanmani Textiles Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Panvel Auto Ancilliaries Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00566—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Panvel Auto Ancilliaries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yaduvansh Constructions Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00603—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yaduvansh Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sadaf Investment and Finance Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00624—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Sadaf Investment and Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sonika Music and Art Films Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00650—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sonika Music and Art Films Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Konkon Aqua Culture Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00385—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Konkon Aqua Culture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Priti Cloth and Synthetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00265—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Priti Cloth and Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sai Tex Twist Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00271—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Sai Tex Twist Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prism Knit Fabrics Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00210—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prism Knit Fabrics Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Renuka Garments Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00277—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Renuka Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vir View Tex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00315—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Vir View Tex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sriroma Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00284—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sriroma Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohit Synthetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00140—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mohit Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pukhrajsons Tex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00135—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pukhrajsons Tex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun and Shade Synthetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00128—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sun and Shade Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. United Felts and Carpets Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00121—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. United Felts and Carpets Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saroj Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00113—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saroj Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Reunion Textile Industries Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00218—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Reunion Textile Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pride Trades Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00100—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pride Trades Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kiyog Food Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00122—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kiyog Food Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Obron Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00091—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Obron Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Super Twist and Synthetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00085—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Super Twist and Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Intertex Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00074—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Intertex Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kashyap Polyknit Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00548—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kashyap Polyknit Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pardi Creation Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00537—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Pardi Creation Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ala India Textile Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00529—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ala India Textile Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Charan Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00522—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Charan Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Meena Shree Synfab Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00516—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Meena Shree Synfab Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nimol Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00507—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nimol Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shrinath Silk Mandir Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00497—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shrinath Silk Mandir Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Important Metal Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00484—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Important Metal Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sweeton Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00475—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Sweeton Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bravo Fashions Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00467—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bravo Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Lohiya Ginning and Pressing Factory
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00456—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lohiya Ginning and Pressing Factory Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bommakanti Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00449—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bommakanti Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Mahalaxmi Filaments Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00291—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Mahalaxmi Filaments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Altaas Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00490—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Altaas Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aarchi Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00213—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aarchi Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Renold Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00058—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Renold Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharad Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00052—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sharad Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Radhamani Polytex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00047—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Radhamani Polytex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. German Fabs Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00042—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. German Fabs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aar Tex Overseas Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00030—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aar Tex Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Radiant Yarn Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00253—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Radiant Yarn Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Esskay Texfab Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00241—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Esskay Texfab Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Varnini Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00227—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Vamini Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. B. R. Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00221—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. R. Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. K. G. M. Marketing Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00213—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. K. G. M. Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Activ8 Technologies India Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00198—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Activ8 Technologies India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ravi Spindles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00190—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ravi Spindles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gosalia Emultech Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00181—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gosalia Emultech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anamika Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00175—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anamika Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nemi Knits Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00161—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Nemi Knits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kejriwal Synthetics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/01019—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kejriwal Synthetics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Shakthi Filaments Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00229—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Shakthi Filaments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. K. Drycleaners Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00151—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. K. Drycleaners Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pakken Decors Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00159—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pakken Decors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Badlanis Financial Services Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00393—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Badlanis Financial Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajay Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00883—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ajay Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hina Trading and Manufacturing Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00875—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Hina Trading and Manufacturing Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manroop Yarn Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00868—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manroop Yarn Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Preetam Yarns Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00861—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Preetam Yarns Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Metro Silk Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00735—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Metro Silk Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kavin Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00728—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kavin Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmichand Knitts and Process Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00717—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Laxmichand Knitts and Process Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Viva Hosiery Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00708—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Viva Hosiery Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tirupati Polyester Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00671—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Tirupati Polyester Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nandgiri Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00651—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nandgiri Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kapoor Weaving Works Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00628—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kapoor Weaving Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Twinkle Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00617—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Twinkle Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rumao Apparel Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00612—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rumao Apparel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Supreme Cotyarn Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00598—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Supreme Cotyarn Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Plectrum Textiles Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00558—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Plectrum Textiles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun Spur Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00055—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Sun Spur Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deshmukh Farms Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00662—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deshmukh Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarvottam Syncotex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/01001—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sarvottam Syncotex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swatsun Intrade and Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00991—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swatsun Intrade and Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vijji Weaving Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00899—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vijji Weaving Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shagun Fabrics Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00892—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shagun Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ullal Finance and Leasing Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00032—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ullal Finance and Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Flic Impex Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00029—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Flic Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Netrend Software Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00044—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Netrend Software Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Shilp Realtors Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00047—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Shilp Realtors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Swami Samarth Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00564—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Swami Samarth Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Heena Cattle Farming Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00575—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Heena Cattle Farming Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gija Chemicals Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00238—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gija Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Unigrip Health and Rehab Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00161—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Unigrip Health and Rehab Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Priya Structurals Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00681—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Priya Structural Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. K. Koilamari Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00625—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. K. Koilamari Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Structech Consulting Engineers Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00423—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Structech Consulting Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jayem Retreads Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00418—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jayem Retreads Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Clipsal Lighting India Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00579—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Clipsal Lighting India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arsol Exim Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00648—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arsol Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Omigron Technical Products (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00220—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Omigron Technical Products (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tarini Marketing and Advertising Company
Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00155—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Tarini Marketing and Advertising Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

MAHENDRA KAPOOR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Minalto Textile Mills Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/01010—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Minalto Textile Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Indus Exim Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00105—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indus Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yash Network Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00111—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yash Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. E Valley Solutions Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00116—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. E Valley Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Secure-Life (India) Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00082—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Secure-Life (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tanya Productions Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00099—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tanya Productions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hheritage Homes Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00075—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Hheritage Homes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M. V. R. and Son Infrastructure Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00088—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. V. R. and Son Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vegex Agro Products Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00067—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vegex Agro Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jogani Trading Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00058—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jogani Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dwarsons Engineering Company Private Limited

Mumbai-400 002, the 23rd November 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Mumbai/Sec 560/2007/00061—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dwarsons Engineering Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

SURYANARAYANA REDDY KOVVURI
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Pune-411 004, the 2nd February 2008

No. ROCP/SES 2003/08—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	11-107224	M/s Alstromania Agro Private Limited
2.	25-17372	M/s AS Castings & Peripherals Private Limited
3.	11-28717	M/s. Atur Fabrications Private Limited
4.	11-28796	M/s. Atur Machinery & Equipment Private Limited
5.	11-111018	M/s. Cancure Pharmaceuticals (India) Private Limited
6.	25-12769	M/s. Curry Software Private Limited
7.	25-15054	M/s. Deeplaxmi Marketing Services Private Limited
8.	11-108489	M/s. Deepyash Leasing and Investment Limited
9.	11-70269	M/s. Deluxe Laundry Private Limited
10.	11-94732	M/s. Environmental Power Instrumentation & Control Private Limited
11.	11-87413	M/s. Essant Management Services Private Limited

1	2	3
12.	11-68333	M/s. Fair Investments Private Limited
13.	11-20873	M/s. Four Eyes Consultants Private Limited
14.	11-41574	M/s. Ganesh Constructions & Developers Private Limited
15.	11-71675	M/s. Hrishikedar Leasing & Finance Private Limited
16.	25-17367	M/s. Intrinsic Software Solutions Private Limited
17.	11-104072	M/s. Jetline Hi-Fi Electronics India Private Limited
18.	11-60421	M/s. Mahavir Tea Company Private Limited
19.	11-12615	M/s. Manchanda Engineering & Marketing Consultants Private Limited
20.	11-96754	M/s. Manikchand Laboratories Private Limited
21.	11-38544	M/s. Manisha Properties Private Limited
22.	25-12835	M/s. Medhusudan Infotech Private Limited
23.	11-24949	M/s. Mekeshi Fibre Glass Private Limited
24.	11-41575	M/s. Radha Builders & Contractors Private Limited
25.	11-103362	M/s. Ranade Office Automation Private Limited
26.	25-16788	M/s. Shiplagiri Sugars Limited
27.	25-14509	M/s. Shobha Papers Private Limited
28.	25-12656	M/s. Shreehans Agrotech Private Limited
29.	11-32951	M/s. Shri Mahesh Engineering Works Private Limited
30.	11-68437	M/s. Shrilaxmi Equipments Private Limited
31.	25-14053	M/s. Siddhant Thermal Services Private Limited
32.	25-13810	M/s. Sofpac Systems Private Limited
33.	25-13742	M/s. Srujan Infotech Solutions Private Limited
34.	11-89773	M/s. Swaco Fibre (India) Limited
35.	25-16974	M/s. Tenta Care Pharmaceuticals Private Limited
36.	11-68013	M/s. Thermal Technologies (India) Private Limited
37.	11-49502	M/s. Yashashree Engineers Private Limited

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swan Computer System Private Limited

Panaji-403 001, the 18th March 2008

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Goa/Sec 560/2007/00424/2360/8689—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swan Computer System Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dias Computer Academy Private Limited

Panaji-403 001, the 18th March 2008

No. 24-02727/8687—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dias Computer Academy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Frontline Films and Labels Private Limited

Panaji-403 001, the 18th March 2008

No. 24-02728/8680—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Frontline Films and Labels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Mauli Finvest Private Limited

Panaji-403 001, the 18th March 2008

No. 24-02729/8691—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Mauli Finvest Private Limited unless

cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Hyderabad-500 195, the 17th March 2008

No. RAP/560(3)/Suo Motu/KBR-JTA/2008—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	000322	M/s. Engineers and Traders Private Limited
2.	000701	M/s. Deccan Printing Press Private Limited
3.	000762	M/s. Shree Sadhanashram Private Limited
4.	000770	M/s. Goverdhana Gold Fields Private Limited
5.	000822	M/s. Amaravati Press and Publications Private Limited
6.	000848	M/s. Maha Lakshmi Khandasari Sugar Factory Private Limited
7.	000850	M/s. Toy House Private Limited
8.	000859	M/s. Sri Satyanarayan Sugars Private Limited
9.	000877	M/s. Sri Venkateswara Films Company Private Limited
10.	000900	M/s. Radio Instruments Associates Private Limited
11.	000904	M/s. Kay and Kay Enterprises Private Limited
12.	000905	M/s. Reddy Stores Private Limited
13.	000972	M/s. Befit Industries Private Limited
14.	001061	M/s. Eastern Chemical and Paint Industries Private Limited
15.	001073	M/s. Bharat Scooters Mfg. Co. Private Limited
16.	001120	M/s. Electro Opticals Limited
17.	001147	M/s. R. V. Commercial Co. Private Limited

1	2	3
18.	001148	M/s. Bhanudays Enterprises Private Limited
19.	001158	M/s. Hyderabad Stones Private Limited
20.	001176	M/s. Mamta Mines Private Limited
21.	001206	M/s. Andhra Goverdhan Krishi Enterprises Limited
22.	001219	M/s. M. V. M. Productions Private Limited
23.	001223	M/s. Harris Tours and Travels Private Limited
24.	001253	M/s. Vinod Sugars Private Limited
25.	001283	M/s. Saslar Mallebles Limited
26.	001290	M/s. Kandimalla Raghavaiah and Kandimalla Ramamurthy Co. Private Limited
27.	001312	M/s. Sheets and Wire India Private Limited
28.	001318	M/s. Apertifs Private Limited
29.	001363	M/s. Incecon Chemical Engineering and Construction Co. Private Limited
30.	001367	M/s. East Coast Vegetable Oils Private Limited
31.	001406	M/s. Jwala Periodicals Private Limited
32.	001428	M/s. Ceramic Magnets Private Limited
33.	001432	M/s. Services for Indian Marketing and Communication Private Limited
34.	001474	M/s. Bobbili Distilleries Private Limited
35.	001476	M/s. Bobbili Theatres Private Limited
36.	001487	M/s. Bobbili Khandasari Sugar Private Limited
37.	001523	M/s. The Gemini Printers Private Limited
38.	001532	M/s. Radhakrishna Hotels Private Limited
39.	001533	M/s. Jagannath Motors Private Limited
40.	001534	M/s. Allied Industrial Development Services Private Limited
41.	001538	M/s. Associated Storage Batteries Private Limited
42.	001576	M/s. Suryavansi Sales and Services Private Limited
43.	001582	M/s. Radium Batteries Private Limited
44.	001601	M/s. Industrial Automation Private Limited
45.	001609	M/s. Coastal Fibre Products Private Limited
46.	001616	M/s. Esvi Oils Limited

1	2	3	1	2	3
47.	001617	M/s. Serwells Estates Agency Private Limited	73.	002126	M/s. A M F Foundaries Private Limited
48.	001619	M/s. Schofield and Barington Private Limited	74.	002164	M/s. Sri Vijaya Sagar Foods Private Limited
49.	001631	M/s. Mittal Spinning and Weaving Mills Private Limited	75.	002181	M/s. Vasavi Sales and Services Private Limited
50.	001681	M/s. Chandra Steel Tubes Limited	76.	002189	M/s. Shresta Drug House Private Limited
51.	001684	M/s. Rajanna Metal Rerolling Mills Private Limited	77.	002240	M/s. Symcon Electronics Private Limited
52.	001698	M/s. Sreerama Straw Boards Limited	78.	002242	M/s. Sarojini Solvent Oils Private Limited
53.	001701	M/s. Indian Sea Products Private Limited	79.	002246	M/s. Precast Cement Blocks and Builders Private Limited
54.	001703	M/s. Sreenivasa Seed Growers Co. Private Limited	80.	002250	M/s. Steel Wood Manufacturing Co. Private Limited
55.	001714	M/s. Duralumin Alloys Private Limited	81.	002253	M/s. Vardhaman Trading Company Private Limited
56.	001759	M/s. Andhra Solvent Products Private Limited	82.	002258	M/s. Falco Chemicals Private Limited
57.	001774	M/s. Oberoi Alloys and Steels Private Limited	83.	002261	M/s. Saraswati Minerals Industry Private Limited
58.	001789	M/s. Shree Seetharam Anjeneya Steel Private Limited	84.	002266	M/s. Prakash Marines Exports Private Limited
59.	001792	M/s. ACPHA Chemicals Private Limited	85.	002275	M/s. Mairusam Domestic Services Private Limited
60.	001807	M/s. Bobbili Hotels Properties Private Limited	86.	002278	M/s. Al Zam Zam Transports Private Limited
61.	001812	M/s. Research and Develop of Industrial Biochemical and Natural Products	87.	002293	M/s. Vijaya Paper Agency Private Limited
62.	001830	M/s. Sri Venkateswara Hay Products Private Limited	88.	002294	M/s. Bay Boat Builders Private Limited
63.	001849	M/s. Universal Organic Intermediates Private Limited	89.	002309	M/s. Samishti Switchgear Private Limited
64.	001857	M/s. Aqua Food Products Private Limited	90.	002319	M/s. Viacom Computers Private Limited
65.	001858	M/s. Sri Malikarjuna Solvent Extraction Private Limited	91.	002325	M/s. Charminar Minerals Private Limited
66.	001914	M/s. Sathya Consultants for Natural Resources Private Limited	92.	002395	M/s. Raghavendra Publications Private Limited
67.	001917	M/s. Exceltronix Limited	93.	002396	M/s. Namp Fabricators Private Limited
68.	001920	M/s. Venkateshwara Poultry and Cattle Feeds Private Limited	94.	002409	M/s. Koorapati Chemicals Private Limited
69.	002003	M/s. Suresh Textiles and Oils Private Limited	95.	002427	M/s. Nagavali Hotels Private Limited
70.	002042	M/s. Venkateswara Management Consultants Private Limited	96.	002517	M/s. Sind Poultry Private Limited
71.	002050	M/s. Bellar Metal Industries Private Limited	97.	002522	M/s. Whole Earth Land Scaping Contractors Private Limited
72.	002122	M/s. Deccan Automotive Private Limited	98.	002543	M/s. Samantha Paper and Packaging Private Limited
			99.	002544	M/s. Bright Leathers Private Limited

1	2	3
100.	002615	M/s. Pakol Packaging Products Private Limited
101.	002147	M/s. Andhra Silicates Private Limited

D. RAMAKRISHNAN
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Cuttack-753 001, the 18th March 2008

No. ROC/Sec. 560(3)/5229—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-000439	M/s Rourkela Proofing Corporation Limited
2.	15-003580	M/s Maa Bharosa Finance and Investment (India) Limited

1	2	3
3.	15-004212	M/s. Safty Point Private Limited
4.	15-005568	M/s. Indravati Construction & Builders Private Limited
5.	15-007757	M/s. Elite Club Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Chennai-6, the 27th February 2008

No. 14005 to 50125/560(5)/Suo Motio-2006—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1	14005	FOOT RITE PRIVATE LIMITED
2	14008	DAKSHIN TIMES PRIVATE LIMITED
3	14016	C T HEAT AND MASS PRIVATE LIMITED
4	14023	PARAMOUNT OILS PRIVATE LIMITED
5	14035	TRITON TRAWLERS PRIVATE LIMITED
6	14053	MOTI FISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
7	14069	YOU AND ME CONSUMERS SERVICES PRIVATE LIMITED
8	14077	PRIYADARSHINI CHITS PRIVATE LIMITED
9	14080	EASTERN DOORS & PANELS PRIVATE LIMITED
10	14081	N.K.S PLASTICS PRIVATE LIMITED
11	14103	K.B.SUBRAMANIAM & ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
12	14106	ENNJAY FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
13	14113	LOTUS ADVERTISING PRIVATE LIMITED
14	14118	CHAKRA HOMEMAKERS PRIVATE LIMITED
15	14126	KAILASH GRANITES PRIVATE LIMITED
16	14140	LUXMI MOROKS PRIVATE LIMITED
17	14142	CATALYST TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
18	14145	M.S.ZIPPERS PRIVATE LIMITED
19	14159	INSTRONIC WEIGHNESS PRIVATE LIMITED
20	14164	WINS (INDIA) PHARMATECH PRIVATE LIMITED
21	15114	SILVERSHIP REAL ESTATE CO PRIVATE LIMITED
22	15117	GREENSEAS SHIPPING COMPANY PRIVATE LIMITED
23	15119	KISGO SHOES PRIVATE LIMITED
24	15127	YESCUBE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
25	15134	DHARSAN AGENCIES PRIVATE LIMITED
26	15138	PRABHA PLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
27	15143	BOJAZ BOATS PRIVATE LIMITED
28	15147	KARAIKUDI TEXTILES PRIVATE LIMITED
29	15158	RAINBOW ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
30	15169	R R PLASTO PRIVATE LIMITED
31	15187	SINDUBAD SEA FOODS PRIVATE LIMITED
32	15221	BILLMUS EXPORTS PRIVATE LIMITED
33	15224	SHASHEES MARKETING CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
34	15228	KUMAR RUBBERS PRIVATE LIMITED
35	15242	VASAN TEXTILES PRIVATE LIMITED
36	15243	LION OIL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
37	15249	SOUTHERN CARBIDES & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
38	15251	AMARAVATHY ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
39	15255	MODERN DRUG TESTING LABORATORY PRIVATE LIMITED
40	15262	PRESTINE MARBLES AND GRANITES ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
41	15264	B S J CONSULTANCY PROMOTION PRIVATE LIMITED
42	15281	CRISTAL AIR CONDITIONERS PRIVATE LIMITED
43	15290	TELESIS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
44	15291	SREE BELCOMP SERVICES PRIVATE LIMITED
45	15295	TOP-STICH PRIVATE LIMITED
46	15319	TEKNICON POWER ENGINEERING PRIVATE LIMITED
47	15343	ACCEL ELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
48	15347	SOLAR ENERGY AND WATER RESOURCES PRIVATE LIMITED
49	15348	ANBU INDUSTRIAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
50	15352	SUBHA PAPER MILLS PRIVATE LIMITED
51	15354	PAVLEDIS SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED
52	15356	MANTHRALAYA ELECTRONICS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
53	15357	THREE DEENS AQUACULTURE PRIVATE LIMITED
54	15359	VEN JOH SPICES PRIVATE LIMITED
55	15361	BIO-CARE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
56	15364	ST. MARYS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
57	15372	AVS EXPORTS PRIVATE LIMITED
58	15375	VALLI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
59	15376	CDE (INDIA) PRIVATE LIMITED
60	15377	UNIQUE INTELLIGENCE AGENCY AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
61	15381	WONDER TECHNOART CENTRE PRIVATE LIMITED
62	15386	CHARATH FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
63	15392	ANNAMAR TURMERIC & TRADES PRIVATE LIMITED
64	15398	MULTI PENS PRIVATE LIMITED
65	15402	COROMANDEL CHITS PRIVATE LIMITED
66	15405	RAMANI FISHING CO PRIVATE LIMITED
67	15411	ANNAMALAIYAR GENERAL AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
68	15446	G.B.MINERALS AND METALS PRIVATE LIMITED
69	15447	KAND & SURI LEATHERS PRIVATE LIMITED
70	15449	DELTA BROILER FARM PRIVATE LIMITED
71	15452	SKYLINE COURIERS PRIVATE LIMITED
72	15473	OCEAN BLUE SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED
73	15502	MEGALITH LIMITED
74	15520	SELACHIAN FOODS PRIVATE LIMITED
75	15530	ASHVIN MEDICALS PRIVATE LIMITED
76	15534	SUBIKSHAM CHEMICAL AND FERTILIZERS PRIVATE LIMITED
77	15549	CENTRE FOR COMMUNITY ACTION PRIVATE LIMITED
78	15553	SRI MOOKAMBIGAI FOODS PRIVATE LIMITED
79	15603	COBLER ONE LEATHERS PRIVATE LIMITED
80	15616	SHRI ANJANEYAA CHITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
81	15617	ADVANCED GEONAVIGATION AIDS AND ENERGETICS (INDIA)PRIVATE LIMITED
82	15620	SARATHY ORGANICS PRIVATE LIMITED
83	15631	RANKS GRAPHICS PRIVATE LIMITED
84	15634	OM-IND ELECTRICAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
85	15640	SRI LAXMI ORNAMENTS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED.
86	15677	ENRICHED CHEMICALS AND REFINERY PRIVATE LIMITED
87	15679	CREDOM ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
88	15702	KANNAGE FILMS PRIVATE LIMITED
89	15708	VIJAYA NYLO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
90	15732	MANGAL CHIT FUND PRIVATE LIMITED
91	15736	RICS HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED
92	15743	TIRUCHIRAPALLI THEVAR FUNDS LIMITED
93	15745	SOLAR TWISTING PRIVATE LIMITED
94	15753	B K S EXPORT TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
95	15754	BALA SIVA TRANSPORT PRIVATE LIMITED
96	15761	R PARAMASIVAM ELECTRONICS COMPANY PRIVATE LIMITED
97	15762	OASIS VIDEOTRONICS PRIVATE LIMITED
98	15767	SANTHI MATSUOKA FARMS PRIVATE LIMITED
99	15769	PLAN O TRAVEL (INDIA) PRIVATE LIMITED
100	15779	RANK LEATHER PRIVATE LIMITED
101	15781	TRUSTWELL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
102	15790	SHANTHI CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
103	15796	ADHIPARASAKTHI WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED
104	15804	CODES PENTAGON PRIVATE LIMITED
105	15807	RAMJAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
106	15808	KIRAN FABRICATORS PRIVATE LIMITED
107	15823	RAJSRI PLASTIC PRIVATE LIMITED
108	15831	MEDISONICS PRIVATE LIMITED
109	15843	LAVAN MARINE FOODS PRIVATE LIMITED
110	15846	LANDMARK CONSULTANTS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
111	15848	VENI CHITS PRIVATE LIMITED
112	15855	VISWADITI PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
113	15865	KCEE FASHIONS PRIVATE LIMITED
114	15867	VIDEO BANK PRIVATE LIMITED
115	15869	TEJ FASHIONS PRIVATE LIMITED
116	15870	NEELS TECHNO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
117	15878	GANGADHARAN SPINNING MILL PRIVATE LIMITED
118	15884	S.M. ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
119	15889	COMPLETE MARKETING PRIVATE LIMITED
120	15893	CZARINA SEA FOODS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
121	15897	FIBRO TECH PRIVATE LIMITED
122	15900	SUPERCHEF KITCHEN EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
123	15904	PREMIER APPLIANCES PRIVATE LIMITED
124	15905	SEA PEARLS FISHERIES PRIVATE LIMITED
125	15909	EMAYAM CHITS PRIVATE LIMITED
126	15917	INTER ED SERVICES PRIVATE LIMITED
127	15930	SWISIRA GRANITES PRIVATE LIMITED
128	15931	EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
129	15945	LEX SHOES PRIVATE LIMITED
130	15946	MACABEES EXPORTS PRIVATE LIMITED
131	15952	PREMIER CONSULTANTS AND SURVEYORS PRIVATE LIMITED
132	15959	PRASAD SHOE UPPERS PRIVATE LIMITED
133	15964	PYRAMID CASTINGS LIMITED
134	15965	VADIVAMBIKAI CHITS PRIVATE LIMITED
135	15969	FILM FACILITIES PRIVATE LIMITED
136	15983	AIRWING TEXTILES LIMITED
137	15998	JABEZ SHOES PRIVATE LIMITED
138	16011	MULLAI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
139	16017	ARYA GALVANISING PRIVATE LIMITED
140	16018	BEHERE TOOLS PRIVATE LIMITED
141	16024	PONNI VALANADI FOODS PRIVATE LIMITED
142	16042	MADRAS CHEMICAL EQUIPMENTS AND LININGS PRIVATE LIMITED
143	16043	TRICHY TANNING COMPANY PRIVATE LIMITED
144	16044	BARR PACKS PRIVATE LIMITED
145	16046	RENI TUBES PRIVATE LIMITED
146	16057	LASHA MARKETING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
147	16063	KULATHAIVAM FILMS PRIVATE LIMITED
148	16064	SRI SAILAM AIRCON PRIVATE LIMITED
149	16081	SHORELINE TRADERS PRIVATE LIMITED
150	16083	WINGON TYRES LIMITED
151	16085	INTAN CHEMS PRIVATE LIMITED
152	16087	VIJAYA ADITHYA SOH SENG ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
153	16092	PACE DRUGS AND PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
154	16102	NAZ ELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
155	16109	SRICHAKRA TRAVELS PRIVATE LIMITED
156	16117	AREUS STRUCTURAL ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
157	16119	SIREEN TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
158	16122	SRI VISHNUKUMAR MILLS PRIVATE LIMITED
159	16123	LOKITH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
160	16140	JAKART EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
161	16141	COZY CLOTHING PRIVATE LIMITED
162	16144	OVERSEAS DYES AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
163	16157	CHAKRAVARTHY GRANITES & EXPORTS PRIVATE LIMITED
164	16159	OLIVER MARK AND COMPANY PRIVATE LIMITED
165	16160	ACE HOMENEEDS PRIVATE LIMITED
166	16170	PROGRESSIVE CINE ARTS PRIVATE LIMITED
167	16174	SOUTHERN CARRIERS & DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
168	16177	OXALIC CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
169	16198	ASHTALAKSHMI CONSOLIDATES PRIVATE LIMITED
170	16201	ZENEX SYSTEMS PRIVATE LIMITED
171	16215	FRIENDLY FOOD AND FINANCE PRIVATE LIMITED
172	16224	SUNFLO EXPORTS PRIVATE LIMITED
173	16225	SHANTHI GRANITES PRIVATE LIMITED
174	16227	FOTO PLAZA PRIVATE LIMITED
175	16231	VENTURE GARMENTS PRIVATE LIMITED
176	16235	COMMONWEALTH PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
177	16244	SELECT TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
178	16253	NELLAI TRADING AGENCIES PRIVATE LIMITED
179	16254	KALPAK CHEMICALS PRIVATE LIMITED
180	16257	SHUTTLE COURIER PRIVATE LIMITED
181	16259	GIRI VIJAY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
182	16262	SRI MARUDHAKESARI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
183	16270	SUNJEETH LOOMS PRIVATE LIMITED
184	16297	RAKHEE GRANITE (INDIA) PRIVATE LIMITED
185	16315	SHALIMAR (TUTICORIN) PAPER AND BOARDS PRIVATE LIMITED
186	16319	COLLEGE BROOKE-LLOYDS PRIVATE LIMITED
187	16331	DOVE TELEMATICS PRIVATE LIMITED
188	16333	SUYAMENDHER EXPORTS PRIVATE LIMITED
189	16334	IND-SERVO PRIVATE LIMITED
190	16336	INSTANT OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
191	16347	MADRAS LEATHER GARMENTS EXPORTERS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
192	16359	SWATI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
193	16364	KEERTAN PUBLICITIES PRIVATE LIMITED
194	16366	VEGA ENGINEERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
195	16367	SYSTEMATIC COURIER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
196	16377	VIRUDHA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
197	16402	TRICHY COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED
198	16408	CAUUVERY PIPES PRIVATE LIMITED
199	16432	CHENNAI RUBBER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
200	16439	GOODWILL SHOES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
201	16440	P D TRAVELS PRIVATE LIMITED
202	16445	HITECH ADDITIVES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
203	16446	POLYMER MACHINES MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
204	16447	U-TECH ALGRILL PRIVATE LIMITED
205	16450	ARUNA FISHERIES PRIVATE LIMITED
206	16451	ARUT JOTHI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
207	16456	INDO WEST TEXTILE EXPORTERS PRIVATE LIMITED
208	16462	ROYLUX COMPUTERS PRIVATE LIMITED
209	16463	ESSAAR PUMPS PRIVATE LIMITED
210	16488	TAMILNADU WIRE SALES PRIVATE LIMITED
211	16491	LALITH POLYPACKS PRIVATE LIMITED
212	16508	DHANAPRIYA CHITS PRIVATE LIMITED
213	16514	SHANTA FAB PRIVATE LIMITED
214	16515	BUDDHA GRANITES IMPORTS & EXPORTS COMPANY PRIVATE LIMITED
215	16529	APEX AQUA FARM PRIVATE LIMITED
216	16538	GNANAM EXPORT PRIVATE LIMITED
217	16544	M A U OILS PRIVATE LIMITED
218	16548	KEYEM INDUSTRIAL VALVES PRIVATE LIMITED
219	16553	TAMILNADU ACETYLENE PRIVATE LIMITED
220	16570	SOUTHERN PARBOILING DRIER RICE MILLS PRIVATE LIMITED
221	16591	SANKHAV LEATHERS PRIVATE LIMITED
222	16606	GANGAPATHY SODIUM CHLORATES PRIVATE LIMITED
223	16620	SREE KRUPA MARKETING DEVELOPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
224	16654	DEVI TANNERIES PRIVATE LIMITED
225	16663	SRIDEVI EXPORTS PRIVATE LIMITED
226	16668	S P ALGNATES PRIVATE LIMITED
227	16681	ORGALINES PRIVATE LIMITED
228	16690	NAGAS FISHERIES PRIVATE LIMITED
229	16691	NAGAS INDUSTRIAL SOLVENT PRIVATE LIMITED
230	16692	NEURUNG ENGINEERS PRIVATE LIMITED
231	16713	RAMESH AGENCIES & DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
232	16717	PETMUR EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
233	16721	MATRIX ADVERTISING SERVICES PRIVATE LIMITED
234	16730	EVANGELINE RUBBER PRIVATE LIMITED
235	16733	RIC ELECTRONICS AND AUTOMOBILES (INDIA) PRIVATE LIMITED
236	16742	H RUSTAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
237	16744	GATEWAY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
238	16756	JAIVASRAS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
239	16762	SINETAX COMPUTER DEVICES PRIVATE LIMITED
240	16769	PURUSHOTTAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
241	16770	BLUE BAND SHOES COMPANY PRIVATE LIMITED
242	16775	ISPK INDEXPORTS PRIVATE LIMITED
243	16783	PLUS PLAST PRIVATE LIMITED
244	16796	BASIC PLASTICIZERS PRIVATE LIMITED
245	16803	VIJAY LAXMI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
246	16807	ASHIRWAD LEATHERS PRIVATE LIMITED
247	16808	POLYMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED
248	16825	R.J.GLASS & PRINTS PRIVATE LIMITED
249	16829	BALASARAVANA CHITS COMPANY PRIVATE LIMITED
250	16842	ACEQUARE REPROGRAPHICS INC PRIVATE LIMITED
251	16849	PACKAGED CUSTOMISED SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
252	16851	AENS COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
253	16869	REDHEX CORROSION CONTROL PRIVATE LIMITED
254	16894	INDU FOAM PRIVATE LIMITED
255	16899	USHODAYA CLEARING AND FORWARDING AGENCY PRIVATE LIMITED
256	16906	WEAVES & SEAMS IMPEX PRIVATE LIMITED
257	16912	RAFFES CHEMICALS PRIVATE LIMITED
258	16919	MANJULA IMPORT EXPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
259	16923	AVANT GRADE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
260	16931	SHAKTHI SHOES PRIVATE LIMITED
261	16932	MANGALDEEP TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
262	16955	TELECOM POWERNETICS PRIVATE LIMITED
263	16966	EXTRUPLAST PRIVATE LIMITED
264	16975	ACCESS GOLD SYSTEMS PRIVATE LIMITED
265	16978	NATURAL PROTIENS PRIVATE LIMITED
266	16980	ASTHAA PLASTICS PRIVATE LIMITED
267	17005	ST. JUDE MARINES PRIVATE LIMITED
268	17012	J P ANALYTICAL TESTING AND RESEARCH LABORATORY PRIVATE LIMITED
269	17014	TRIO IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
270	17019	EASTMAN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
271	17026	HOME FIT GARMENTS PRIVATE LIMITED
272	17043	GAYATHRI CALCIUM AND ALLIED CHEMICALS PRIVATE LIMITED
273	17050	EN VEE CONSTRUCTIONS AND ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
274	17053	TULIP BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
275	17059	BLOSSOM CHEM PHARMA PRIVATE LIMITED
276	17064	MADURA LAMPS AND FITTINGS PRIVATE LIMITED
277	17072	M.K. FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
278	17087	SIVASAKTHY FISHERY PRIVATE LIMITED
279	17097	ARAKKONAM TEXTILES PRIVATE LIMITED
280	17116	RAM PERFECT PLASTICS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
281	17117	SUGISA AGRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
282	17120	SRI RAMYA REXINE PRIVATE LIMITED
283	17141	SRI KAMATCHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
284	17142	EDAKKATTU PRODUCTS PRIVATE LIMITED
285	17149	MADRAS ZIP FASTNERS AND ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
286	17153	MANAS HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
287	17155	SPACEWAY DESIGN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
288	17157	MARBLITE TILES AND TOPS PRIVATE LIMITED
289	17175	CONVEX MARKETING PRIVATE LIMITED
290	17178	VENI FARMS PRIVATE LIMITED
291	17204	AAPPOLLO VALVE PRIVATE LIMITED
292	17230	R.N. INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
293	17231	NUTS AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
294	17238	THAPASU CHITS PRIVATE LIMITED
295	17241	DATMATRIX PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
296	17248	SENIOR CITIZEN RESORT PRIVATE LIMITED
297	17250	ROCKS 'N' ROCKS GRANITE EXPORTS PRIVATE LIMITED
298	17255	INDUSTRIAL DRYING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
299	17257	AL FARHAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
300	17270	SIDARTHI FUELS PRIVATE LIMITED
301	17276	ELENAR GRANITES PRIVATE LIMITED
302	17277	CUTE COSMETICS PRIVATE LIMITED
303	17278	POWERPIPE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
304	17280	FLEXI CRAFT PRIVATE LIMITED
305	17281	VIJAYALAKSHMI PRIYADARSHINI LEATHER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
306	17289	MADRAS TOWNSHIP DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
307	17295	POLY GRANITES EXPORTS PRIVATE LIMITED
308	17303	AMMA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
309	17307	PEARL FISHNETS PRIVATE LIMITED
310	17324	SRI CHAKRA RUBBER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
311	17326	VEENA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
312	17327	PLASTIC FANS PRIVATE LIMITED
313	17342	VEDIC OUSHADALAYA PRIVATE LIMITED
314	17353	JANISH FOODS PRIVATE LIMITED
315	17354	SINARA MICA MINES PRIVATE LIMITED
316	17357	RANI LEATHER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
317	17363	JOSHY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
318	17368	RELIANCE LATEX PRODUCTS PRIVATE LIMITED
319	17388	ALAVI EXPORTS PRIVATE LIMITED
320	17404	PENINSULAR COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
321	17408	ALLCDT IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
322	17412	INTDP PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
323	17422	NALLI HDRNS PRIVATE LIMITED
324	17431	ANNAI ABIRAMI TEXTILES PRIVATE LIMITED
325	17436	PHAR LAP APPARELS PRIVATE LIMITED
326	17439	ALISHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
327	17444	K.G.L. HOUSING AND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
328	17449	SDFTSENSE MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
329	17456	ADDRE SHDES PRIVATE LIMITED
330	17459	NURANI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
331	17475	HARISEN ENGINEERING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
332	17477	FOUNDATION ENGINEERING & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
333	17478	TRANS ALUMINIUM CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
334	17484	STELLER BUSINESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
335	17496	BUILDING INVESTMENT AND DEVELOPMENT SYNDICATE PRIVATE LIMITED
336	17503	S R M METALINC PRIVATE LIMITED
337	17507	MANISH VENTURES PRIVATE LIMITED
338	17508	GAMA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
339	17519	S P SALVANTS PRIVATE LIMITED
340	17525	CITY REAL ESTATE & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
341	17530	SHRI HYAGREEVA HOUSING PRIVATE LIMITED
342	17536	AMUC ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
343	17538	PEE CEE BEE TECH SERVICES PRIVATE LIMITED
344	17540	MOSFET TECHNIQUES PRIVATE LIMITED
345	17543	SAKTHI ACETATE AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
346	17552	SHIVASANKARA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
347	17553	BHAKTHI LEASING FUNDS LIMITED
348	17568	SREE KAMAKSHI TILES AND MONUMENTS PRIVATE LIMITED
349	17584	VINAYAK SHOES PRIVATE LIMITED
350	17596	NIDYA TRADE CREDITS PRIVATE LIMITED
351	17599	NEW CENTURY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
352	17605	GILCHRIST MARITIME TRANSPORT PRIVATE LIMITED
353	17618	SAFARI PACK PRIVATE LIMITED
354	17621	SUPRATHISHTA BUILDERS PRIVATE LIMITED
355	17627	KUMAR TRADERS OF MADRAS PRIVATE LIMITED
356	17628	KOBE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
357	17631	FIT WELL SPROCKETS PRIVATE LIMITED
358	17635	CAMARON AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
359	17636	SEMBI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
360	17641	BLUE MOON EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
361	17644	BHABA PLASTICS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
362	17649	CONTURA RUBBER PRIVATE LIMITED
363	17650	GURU RAGHAVENDRA ENGINEERING CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
364	17671	TUNGABHADRA L.P.C. AGENCIES PRIVATE LIMITED
365	17685	PRADEEP AUTO CONSULTANTS LIMITED
366	17690	JEEVAN JYOTHI PRESS AND PUBLISHERS
367	17691	ARUL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
368	17700	SYNMED ANTIBIOTICS PRIVATE LIMITED
369	17714	PHOENIX FILM RESOURCES PRIVATE LIMITED
370	17717	FOUR SQUARE LEATHER EXPORT PRIVATE LIMITED
371	17722	AESTHETIC DISPOSABLE MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
372	17724	CREFTAR LEAF SPRINGS PRIVATE LIMITED
373	17728	RAMA PUBLICATION PRIVATE LIMITED
374	17736	TABLE TOP TEA PRIVATE LIMITED
375	17740	AIRSEA SURVIVAL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
376	17745	BEST ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
377	17748	AMRUTHA EXIM PRIVATE LIMITED
378	17749	AMRUTHA MILK BEVERAGES PRIVATE LIMITED
379	17760	FERTILE MARKETING PRIVATE LIMITED
380	17772	H.T. AND SONS PRIVATE LIMITED
381	17791	ALMIGHTY POLYMERS AND RUBBERS PRIVATE LIMITED
382	17802	RICH ROCKS INDIA LIMITED
383	17813	G G ELECTRONIK PRIVATE LIMITED
384	17814	DEUTSCHE AIR PRIVATE LIMITED
385	17818	N A K AUTOMOBILES INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
386	17820	SATYA TRANS TRADE PRIVATE LIMITED
387	17822	SUSRUTHA MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
388	17828	CAUVERY ENRICH FEEDS AND FOODS PRIVATE LIMITED
389	17830	GEEAAR MANAGEMENT AND FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
390	17837	SUNRISE FUEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
391	17846	GAUTHAM PUBLICITIES PRIVATE LIMITED
392	17864	GALAXY CABLES AND CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
393	17871	AVIS CAR RENTALS PRIVATE LIMITED
394	17891	RAAJHAA CARBONS PRIVATE LIMITED
395	17895	VISUDHA CONSTRUCTIONS LIMITED
396	17896	DHARMAPAL NEWSPRINT PRIVATE LIMITED
397	18012	SAPTHAGIRI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
398	18015	SRB ENGINEERS PRIVATE LIMITED
399	18018	SRI MEENAKSHI CREATIONS PRIVATE LIMITED
400	18040	SABA EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
401	18064	SWETHAGANESH EXPORTS PRIVATE LIMITED
402	18065	SREE ANDALL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
403	18067	FIDA COSMETICS PRIVATE LIMITED
404	18068	VAIYAPURI TEXTILES PRIVATE LIMITED
405	18072	WESTEND YELLOW PAGES PRIVATE LIMITED
406	18084	ANTO POLYMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
407	18116	ART AND COLOURS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
408	18118	SWETHA IMPEX PRIVATE LIMITED
409	18120	MADURA YEAST AND CHEMICAL MFG. COMPANY PRIVATE LIMITED
410	18122	PROWESS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
411	18131	STERLING SPRINGS PRIVATE LIMITED
412	18132	NITHYA DARSHINI FARMS PRIVATE LIMITED
413	18136	SUNTEQ PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
414	18137	MADURA DISTRIBUTERS PRIVATE LIMITED
415	18141	GOLDEN SAND RESORTS PRIVATE LIMITED
416	18156	ALEXCO MARKETING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
417	18185	SUNDER & KAMMAL (MANUFACTURE & EXPORT) PRIVATE LIMITED
418	18189	SARAVANA PALM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
419	18195	SUKBHOG DOORS (INDIA) PRIVATE LIMITED
420	18197	NANSUN GRANITES PRIVATE LIMITED
421	18199	CHINNAMANOR OM SAKTHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
422	18204	BINOD GRANITES PRIVATE LIMITED
423	18205	TAWAKKAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
424	18216	FUTURA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
425	18225	M.K. AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
426	18226	BRICKS INDIA PRIVATE LIMITED
427	18237	COASTAL MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
428	18243	B.V.S. LEATHERS PRIVATE LIMITED
429	18244	LEAFIN SEA FOODS LIMITED
430	18247	SOWMYA FARM SERVICES AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
431	18254	SHIPS AND CARGO AGENCIES PRIVATE LIMITED
432	18259	GEMINI METALS PRIVATE LIMITED
433	18262	LASER GRAPHICS REPRO CENTRE PRIVATE LIMITED
434	18270	PHARMA HUVET PRIVATE LIMITED
435	18271	UNITED TANKERS COMPANY PRIVATE LIMITED
436	18283	BOSS BATTERIES PRIVATE LIMITED
437	18285	KOOK PECK FISHERIES PRIVATE LIMITED
438	18294	GENUINE MINES AND GRANITES PRIVATE LIMITED
439	18300	HOTEL GEETHA (VILLUPURAM) PRIVATE LIMITED
440	18303	SATHYA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
441	18320	S C GRANITE COMPANY PRIVATE LIMITED
442	18322	MANIBHARATHI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
443	18334	COROMANDEL OXYGEN PRIVATE LIMITED
444	18343	THAINDADU PUBLISHERS PRIVATE LIMITED
445	18355	BARTER MARKETING AGENICES PRIVATE LIMITED
446	18381	ALANKAR MARINE PRIVATE LIMITED
447	18383	ENEMTECH INDUSTRIAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
448	18384	SRI SUDERKODI TEX PRIVATE LIMITED
449	18387	DAT ROADLINES PRIVATE LIMITED
450	18395	AVOM AGROTECH PRIVATE LIMITED
451	18397	VINSHAR SERVICES PRIVATE LIMITED
452	18402	TAILOR BIRD PRIVATE LIMITED
453	18410	ROOSEVELT EXPORTS PRIVATE LIMITED
454	18413	CAVERI COLOR LAB PRIVATE LIMITED
455	18417	SANTA INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
456	18429	SRI RAMACHANDRA CATTLE FEED INDUSTRY PRIVATE LIMITED
457	18432	LINGAM FOODS PRIVATE LIMITED
458	18441	SUKLA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
459	18444	VATHEEYAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
460	18455	SUNDARAM APPLIANCES REFREGERATORS PRIVATE LIMITED
461	18461	SYCON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
462	18463	SHRIRAM ELECTRONICS AND APPLIANCES LIMITED
463	18468	VALUABLE STEELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
464	18480	CHAMBER OF HOUSING DEVELOPMENT LIMITED
465	18482	SRI LALITHA JEWELLERS PRIVATE LIMITED
466	18491	ISWARYA PACKAGES PRIVATE LIMITED
467	18497	TULASI DEVICES PRIVATE LIMITED
468	18499	SEVAR KODIYAON CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
469	18500	TILES AND TILES PRIVATE LIMITED
470	18501	LEATHER ARTS PRIVATE LIMITED
471	18516	VIJAY TEXTILES & WATER PROOFING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
472	18520	STAR ELEVATORS & EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
473	18525	PRAGMATIC EXIMPO PRIVATE LIMITED
474	18529	VISHNU PRIYA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
475	18536	TEKNOW DESIGN CONSULTANCY ROAD PROJECTS ENGINEERIN
476	18538	BRIGHTWAY MARKETING PRIVATE LIMITED
477	18544	EAST COAST PRAWN DEVELOPMENT CENTRE PRIVATE LIMITED
478	18548	RCM FASHIONS PRIVATE LIMITED
479	18566	LEADER DRUGS & PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
480	18570	DEGAA HOLDINGS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
481	18573	CHOLAPURAM ROADLINES PRIVATE LIMITED
482	18576	GRANITE CARPETS PRIVATE LIMITED
483	18578	ODYSSEY TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
484	18580	EMCEE COURIERS PRIVATE LIMITED
485	18581	GEMINI SPINNING MILL (TRICHY) PRIVATE LIMITED
486	18584	EMCUUBE EXPORTS PRIVATE LIMITED
487	18591	POLCON CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
488	18598	ANU SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
489	18600	MOTHERLAND SETTLEMENTS PRIVATE LIMITED
490	18634	SRI RAGHAVENDRA DETERGENTS PRIVATE LIMITED
491	18636	SILVER STREAK APPARELS PRIVATE LIMITED
492	18639	SAJ VISION PRIVATE LIMITED
493	18640	SCAZON-KEM PRIVATE LIMITED
494	18647	NIRMAL LEATHER GARMENTS PRIVATE LIMITED
495	18648	SHREYES MICNUTRIENTS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
496	18653	TELESCAN ART CREATORS PRIVATE LIMITED
497	18657	NIRA CAPS LIMITED
498	18664	SKYLINE MARINES PRIVATE LIMITED
499	18674	SWATHI CREATIONS PRIVATE LIMITED
500	18687	MESSINA SHIPPING AGENCIES INDIA PRIVATE LIMITED
501	18689	DOCUMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED
502	18692	BRILLIANT IMPORT AND EXPORT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
503	18695	SRI PRABA SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
504	18705	PYRAMID BUILDERS AND INTERIORS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
505	18711	SIRIUS GRANITES PRIVATE LIMITED
506	18716	GUARDIAN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
507	18718	VENUS HOUSING PRIVATE LIMITED
508	18719	MAYILAI RAJ CHITS PRIVATE LIMITED
509	18720	M A RAMAKRISHNAMA NAIDU STAINLESS STEELS PRIVATE LIMITED
510	18726	LEATHER SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
511	18731	MANCHIT ENGINEERS PRIVATE LIMITED
512	18746	BUILDTech HOUSING (MADRAS) PRIVATE LIMITED
513	18748	INDVIN PIPES PRIVATE LIMITED
514	18759	S A FISH NET COMPANY PRIVATE LIMITED
515	18760	CHROMETAN LEATHER COMPANY PRIVATE LIMITED
516	18763	MANIAMMAI PHARMA PRIVATE LIMITED
517	18764	SHRESHTA GRANITES PRIVATE LIMITED
518	18770	MAGNUM RESORTS PRIVATE LIMITED
519	18774	MARK AGROS INDIA PRIVATE LIMITED
520	18783	HALL MARK INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
521	18788	AJANTHA GARMENT EXPORTS PRIVATE LIMITED
522	18790	GENLITE SALES AND SERVICE PRIVATE LIMITED
523	18791	COSY EXPORTS PRIVATE LIMITED
524	18799	WISCOS LEATHER MANUFACTURE AND IMPEX PRIVATE LIMITED
525	18803	BEDROCK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
526	18804	ALFA FLETT VENTILATOR PRIVATE LIMITED
527	18823	JAI BHUVANESWARI FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
528	18825	PELICAN GRAPHICS PRIVATE LIMITED
529	18826	VENUS GRANITES PRIVATE LIMITED
530	18828	RED FIELDS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
531	18837	SRI VIJAY FIN HOMES PRIVATE LIMITED
532	18857	MONARCH EXPORTS PRIVATE LIMITED
533	18858	MONICA FILMS PRIVATE LIMITED
534	18860	RADHAMOHAN AND COMPANY PRIVATE LIMITED
535	18866	STILETTO LEATHERS PRIVATE LIMITED
536	18868	HI-ETA PUMPEN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
537	18882	ABARAJITHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
538	18886	MEHER-HAM SHOES PRIVATE LIMITED
539	18890	MAHASUDARSANA TEXTILE PRIVATE LIMITED
540	18893	DEVI SOLVENT EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED
541	18895	LETRAGRAFI SIGNS PRIVATE LIMITED
542	18897	COSMOS FREIGHT SERVICES PRIVATE LIMITED
543	18900	ARUN LEO SHOES PRIVATE LIMITED
544	18910	THERMAL CONTROL SYSTEM (MADRAS) PRIVATE LIMITED
545	18912	INCA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
546	18915	RELIANCE SEIZURES & WAREHOUSINGS PRIVATE LIMITED
547	18931	RAXONES OVERSEAS PRIVATE LIMITED
548	18963	OM VEL FUNDS PRIVATE LIMITED
549	18965	SRI ANUSHAM COTTON MILLS PRIVATE LIMITED
550	18977	VTR ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
551	18980	PENNARASI FARMS PRIVATE LIMITED
552	18992	AMBIKA FLOORING TILES PRIVATE LIMITED
553	19004	CORVETITE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
554	19011	SUN LEATHERS COMPANY PRIVATE LIMITED
555	19013	LOCKAIRE AG ENGINEERS PRIVATE LIMITED
556	19020	PON-FINE LEATHERS & SHOES PRIVATE LIMITED
557	19023	ESWARI GRANITES PRIVATE LIMITED
558	19025	GEMPAC CONTAINERS PRIVATE LIMITED
559	19026	STERLING GRANITE INDUSTRIES LIMITED
560	19027	HI-TECH AUTO DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
561	19035	GOUTOM BANERJEE EXPORTS PRIVATE LIMITED
562	19040	OLGA THEATERS PRIVATE LIMITED
563	19049	STANDARD GRANITES PRIVATE LIMITED
564	19052	MIKO-FINO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
565	19070	SRI VALLUVAR TEXTILES PRIVATE LIMITED
566	19073	ALL FINE COSMETIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
567	19082	REVATHY CHROME-CHEM PRIVATE LIMITED
568	19091	SAKTHI BONE MILL PRIVATE LIMITED
569	19092	BALAJI DETERGENTS PRIVATE LIMITED
570	19100	B N T AIR EXPRESS PRIVATE LIMITED
571	19101	INTEX STYLES INDIA PRIVATE LIMITED
572	19113	BALAJI LEATHER FASHIONS PRIVATE LIMITED
573	19116	CHIRPI-CONSTRUCTORS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED
574	19119	JINNAH STEEL & ALLOYS LIMITED
575	19120	CURRENT ORGANICS PRIVATE LIMITED
576	19126	ALWINFAB PRIVATE LIMITED
577	19128	LOTUS MINERAL EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
578	19131	DECCAN TELE-COM PRIVATE LIMITED
579	19132	RAJALI COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
580	19135	VENKATESWARA PRINTERS PRIVATE LIMITED
581	19144	PRAGATHEE ADVERTISING & MARKETING PRIVATE LIMITED
582	19150	GUC EXPORTS PRIVATE LIMITED
583	19154	YESAAR APPARELS PRIVATE LIMITED
584	19158	TELEGRAND PRINTERS PRIVATE LIMITED
585	19163	BON APPARELS PRIVATE LIMITED
586	19166	PIPELINE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
587	19167	DIANA AUTOMOTIVE COMPONENTS PRIVATE LIMITED
588	19173	UDHAYA HATCHERIES PRIVATE LIMITED
589	19174	MAHAKALI CHITS PRIVATE LIMITED
590	19178	VERMA COAL MOVERS PRIVATE LIMITED
591	19179	VERMA COAL LINKAGE PRIVATE LIMITED
592	19187	NEO PACK EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
593	19202	NAJEEULLAH VASIMULLAH & COMPANY PRIVATE LIMITED
594	19206	PACK SEAL MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
595	19209	BRIGHT IRON DESIGNER PRIVATE LIMITED
596	19211	KAMALAM COLOR & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
597	19225	PRINCE SHIPPING PRIVATE LIMITED
598	19253	SRI VELAVAN RUBBERS PRIVATE LIMITED
599	19256	BETA BYTE EXPORTS PRIVATE LIMITED
600	19257	SAYEE POLY PAPER PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
601	19263	VEDANTHANGAL FARM PRIVATE LIMITED
602	19276	RAGAV CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
603	19283	MAXWELL REMEDIES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
604	19291	EMICO TROPHIES PRIVATE LIMITED
605	19292	BLUE CHIPS GRANITE PRIVATE LIMITED
606	19302	ZOETIC INDIA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
607	19304	COPPARRUM MONITORS PRIVATE LIMITED
608	19322	ARGUS HOTELS PRIVATE LIMITED
609	19325	TUTICORIN ARBEEYES EXPORTS PRIVATE LIMITED
610	19351	VIJAYA ALUMISULPHATE INDIA PRIVATE LIMITED
611	19352	VIJAYA CHEMAGRO INDIA PRIVATE LIMITED
612	19354	SRI VIRGO DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
613	19367	NIRAM SPINNERS PRIVATE LIMITED
614	19372	BOGEN EXPORTS PRIVATE LIMITED
615	19376	SRIKAS PROPERTIES PRIVATE LIMITED
616	19391	PIMARINE FARMS PRIVATE LIMITED
617	19392	UNITY LEATHERS PRIVATE LIMITED
618	19400	COASMOS IMPEX PRIVATE LIMITED
619	19405	HYUNDAI INDO STONE INDUSTRY COMPANY PRIVATE LIMITED
620	19409	K N S SPINNERS PRIVATE LIMITED
621	19418	BHARDWAJ MARKETING PRIVATE LIMITED
622	19422	KEPSON ORGANICS PRIVATE LIMITED
623	19437	HANNA INVESTMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
624	19439	RAJALAKSHMI MINERAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
625	19440	ADLER HAMSA LIME PRODUCTS PRIVATE LIMITED
626	19441	HOTEL SHIVALOK PRIVATE LIMITED
627	19451	SUN FISHERIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
628	19469	GITANJALI MEDIA PRIVATE LIMITED
629	19476	VEMBU FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
630	19479	MAKKENA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
631	19489	BEST BUILDERS PRIVATE LIMITED
632	19496	SCINTILA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
633	19497	CORAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
634	19502	SUNRISE PAPER & ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
635	19508	VIJAYA SCANNERS PRIVATE LIMITED
636	19519	CORIUM APPARELS PRIVATE LIMITED
637	19525	BAPROH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
638	19527	VESTAL CHEMICALS PRIVATE LIMITED
639	19543	LALIT SRI CERAMIK PRIVATE LIMITED
640	19547	UNIQUE ALLIANCE MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
641	19549	SOUTH INDIAN PIPES (PIONEERS) PRIVATE LIMITED
642	19550	VANDAVASI TEXTILES PRIVATE LIMITED
643	19556	PRIYADARSHINI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
644	19557	KOVALAM PARKS PRIVATE LIMITED
645	19564	PARKAR ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
646	19567	SAY TEXTILE ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
647	19570	SRIMATHY GRANITES PRIVATE LIMITED
648	19575	THIRUMALAI DEPARTMENTAL STORES PRIVATE LIMITED
649	19576	JAGGANMOHAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
650	19578	S. SANTHOSANADAR AND SONS PRIVATE LIMITED
651	19582	CLASS SHOES CO. (MADRAS) PRIVATE LIMITED
652	19585	BCI TRANSPORT PRIVATE LIMITED
653	19589	MANAGEMENT SERVICES AND INFORMATICS PRIVATE LIMITED
654	19613	AMAJIN CONSULTANTS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
655	19623	CHANDINI ALUMINIUM PRIVATE LIMITED
656	19637	PUSHPAVALLI THANGAVELU TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
657	19644	SRIVALLI WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED
658	19653	IDANGANKOTTAI FARMS PRIVATE LIMITED
659	19681	A P S TEXTILES PRIVATE LIMITED
660	19716	PAN ASIA EXPORTS PRIVATE LIMITED
661	19720	SRI DURGA CINEMA PRIVATE LIMITED
662	19740	SOUTHERN OLEORESINS PRIVATE LIMITED
663	19760	FIBRE BOND POLYESTERS PRIVATE LIMITED
664	19779	CHAARITHRA LEATHER AND ALLIED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
665	19805	ERIC AND SHAN MARKETING PRIVATE LIMITED
666	19822	RAMAKRISHNA MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
667	19827	PRIYA MILLS PRIVATE LIMITED
668	19832	SASIREKHA EXPORT (INDIA) PRIVATE LIMITED
669	19834	TAMILNADU SYNTHWOOD LIMITED
670	19835	IDEAL LEATHER EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
671	19838	VIGNESH SHOES PRIVATE LIMITED
672	19840	J R B B INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
673	19844	AUTOMOBILE TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
674	19845	SOLID FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
675	19848	ALWAR RUBBER FACTORY PRIVATE LIMITED
676	19851	SYNERGY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
677	19853	MATCHLESS MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
678	19856	TECHNO LEDER EXPORTS PRIVATE LIMITED
679	19869	THAYAR DIARY FARM PRIVATE LIMITED
680	19873	SUNBUSST HOUSING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
681	19878	VOGUE EXPORTS IMPORTS PRIVATE LIMITED
682	19886	FELUX EXIM PRIVATE LIMITED
683	19901	SURAJ EXIM PRIVATE LIMITED
684	19906	VET-MED TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
685	19911	TOXNIL POLYVEIL PRIVATE LIMITED
686	19918	JAGUAR APPARELS INDIA PRIVATE LIMITED
687	19920	SRI LAKSHMI PIPES PRIVATE LIMITED
688	19968	SOUTHERN TOOLS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
689	19975	ROTMAX CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
690	19976	SWAGAT COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
691	19977	P.N. GANESAN HOUSING PRIVATE LIMITED
692	19994	PERFECT PLACEMENT PRIVATE LIMITED
693	19995	SRI DEVI DURGA LAKSHMI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
694	19999	USHODAYAM CHITS PRIVATE LIMITED
695	20006	VETRY INSULATION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
696	20026	NAPHA LEATHERS PRIVATE LIMITED
697	20031	DEVARAJ HOUSING & FINANCE PRIVATE LIMITED
698	20053	RAJADURGA SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
699	20054	S.K. PACKERS PRIVATE LIMITED
700	20066	SRI R.B.S. SPINNINGS PRIVATE LIMITED
701	20071	NAT FASHIONS PRIVATE LIMITED
702	20075	SETREND MARKETING PRIVATE LIMITED
703	20076	SIAL ROCKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
704	20089	KUMAR EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
705	20117	SRI DURGA DEVI SPINNERS PRIVATE LIMITED
706	20128	TNT PLAS PRIVATE LIMITED
707	20131	SIVAANI IMPEX PRIVATE LIMITED
708	20135	BROOKLANDS MOTELS AND HOSPITALS PRIVATE LIMITED
709	20137	CITIZEN INSULATORS PRIVATE LIMITED
710	20144	VRINDAVAN APPLIANCES PRIVATE LIMITED
711	20146	GAYATRI ELECTRIC AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
712	20147	RAJINI TEXTILES PRIVATE LIMITED
713	20154	MUBEEN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
714	20156	PRIYA INTEGRATED AGENCY PRIVATE LIMITED
715	20163	BENGAL PEARL SHIPPING PRIVATE LIMITED
716	20170	JAMANI PAPER BOARDS PRIVATE LIMITED
717	20172	GALAXY FORGING & METAL CONVERTORS PRIVATE LIMITED
718	20181	HEX KUDILS PRIVATE LIMITED
719	20202	DIVYA PACKAGING SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
720	20220	VIRTUAL SYNETICS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
721	20226	EXTRUDER FOOD PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
722	20242	THILLAR LEATHERS PRIVATE LIMITED
723	20245	SYNTHETIC INDIA PRIVATE LIMITED
724	20258	SIYAM SUNDAR OIL MILLS PRIVATE LIMITED
725	20268	VKAS LEATHERS PRIVATE LIMITED
726	20272	SIEGER IMPEX PRIVATE LIMITED
727	20273	DEUTSCHE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
728	20275	SPRINGFIELD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
729	20278	THAI IND CHEMICALS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
730	20288	LAUREL AGENCIES PRIVATE LIMITED
731	20292	RESEARCH AND MEDIA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
732	20293	STONE TECH EXPORTS PRIVATE LIMITED
733	20294	JENSAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
734	20301	RAJA ESTATES AND INVESTMENTS LIMITED
735	20324	NDR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
736	20326	ABISONS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
737	20336	N V R ESTATES PRIVATE LIMITED
738	20344	GALAXY GRANULES PRIVATE LIMITED
739	20347	AGROTEC SYSTEMS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
740	20357	LINTEX OVERSEAS TRADING PRIVATE LIMITED
741	20362	ROBA CHEM PRIVATE LIMITED
742	20379	EVERPAC LIMITED
743	20396	TRINITY FABRICS PRIVATE LIMITED
744	20411	SPAX SHOES PRIVATE LIMITED
745	20423	REHOBOTH CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
746	20429	NISHANTH PROCESSORS PRIVATE LIMITED
747	20436	SRI SRINIVASA VIDEO PRIVATE LIMITED
748	20437	WINTEX POLYMERS PRIVATE LIMITED
749	20439	NAVEEN SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
750	20453	VILLUPURAM CHAKRA ASSOCIATES AGENCIES PRIVATE LIMITED
751	20477	HEX TEAM CREATIONS PRIVATE LIMITED
752	20504	LINTEX FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
753	20507	G TRAVELS AND TOURS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
754	20508	SIGMA CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
755	20512	SRI SRINIVASA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
756	20517	ANUSHKA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
757	20518	BANSAL CHEMLINE (INDIA) PRIVATE LIMITED
758	20519	K.S.M.TEXTILES (MADURAI) PRIVATE LIMITED
759	20530	GAJANAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
760	20531	E I T. INVESTMENTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
761	20532	EASTERN TEXTILES PRIVATE LIMITED
762	20536	GAUTAM PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
763	20548	DLS SV ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
764	20550	LAXMI CINE CIRCUITS PRIVATE LIMITED
765	20555	NEW PUSHAM METALS PRIVATE LIMITED
766	20562	INDOMED PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
767	20572	IMPERIAL STONES (INDIA) PRIVATE LIMITED
768	20574	SILICKON SOFT PRIVATE LIMITED
769	20577	N J. SHAH FOOD PRODUCTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
770	20591	HIMALAYAN POLYMERS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
771	20593	BOOMA BUILDERS PRIVATE LIMITED
772	20596	R. K. B. HOSPITALS PRIVATE LIMITED
773	20597	RAJINDRA SURI IMPEX PRIVATE LIMITED
774	20599	ROCKCITY CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
775	21004	TRICHY LIGHT LEATHER PRIVATE LIMITED
776	21016	KGM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
777	21022	INDHUMATHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
778	21055	VEYEN PETROCHEM PRIVATE LIMITED
779	21057	YUD CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
780	21058	YUD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
781	21059	YUD OVERSEAS TRADING PRIVATE LIMITED
782	21060	YUD MARKETING PRIVATE LIMITED
783	21065	YESEMEL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
784	21066	KALI BRAND HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
785	21079	ASSOCIATED EXPORIENT PRIVATE LIMITED
786	21092	CANARA GRANITES PRIVATE LIMITED
787	21118	SOUTHERN MARINE FISHERIES AND PRAWN FARMS PRIVATE LIMITED
788	21130	UNIFAB MATO PRIVATE LIMITED
789	21138	SCORPIO WEIGHBATCHING PRIVATE LIMITED
790	21164	OM VINAYAGAR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
791	21172	MANSFIELD CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
792	21174	SARVAMANGALA CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
793	21177	SOUTHERN FASHIONS PRIVATE LIMITED
794	21186	ANU VIJAY APPARELS PRIVATE LIMITED
795	21194	KULASEKARA PANDIAN ESTATES PRIVATE LIMITED
796	21195	TECNO COMPUTER PRINTS PRIVATE LIMITED
797	21201	PONNI APPARELS PRIVATE LIMITED
798	21202	KARTHICK FISHERIES PRIVATE LIMITED
799	21213	DOWLANI ESTATES PRIVATE LIMITED
800	21232	CEE BE EM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
801	21236	INSTITUTIONAL MARKETING AGENCIES (ELECTRONICS) PRIVATE LIMITED
802	21238	UBERUS STASIONERS LIMITED
803	21243	AISHWARYA'S FREIGHT CONNECTIONS PRIVATE LIMITED
804	21252	BHARAT FERTILISERS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
805	21256	PRS OVERSEAS EXPORTS PRIVATE LIMITED
806	21257	APSARA GRANITE COMPANY PRIVATE LIMITED
807	21263	ETHIRAJ IMPEX PRIVATE LIMITED
808	21267	SECHEM PRIVATE LIMITED
809	21285	NATHONI EXIM PRIVATE LIMITED
810	21290	VENSBAR ORGANICS PRIVATE LIMITED
811	21294	AMALGAMATED OCEANSCAN PRIVATE LIMITED
812	21298	AMBASSADOR MARKETING PRIVATE LIMITED
813	21302	GENERAL FREIGHT CARRIERS PRIVATE LIMITED
814	21311	RELIANCE COURIERS PRIVATE LIMITED
815	21326	TECOATS (INDIA)PRIVATE LIMITED
816	21327	RAJDHARSANS LEATHERS PRIVATE LIMITED
817	21332	GOWRISHANKER FARMS PRIVATE LIMITED
818	21337	PLATING PROCESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
819	21340	AIMCO SECURITIES PRIVATE LIMITED
820	21344	RANI FASHIONS PRIVATE LIMITED
821	21348	FACT LEATHERS PRIVATE LIMITED
822	21349	REVLON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
823	21350	MAA ONLINE SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
824	21353	R.J.R.FURNITURE & FABRICATOR PRIVATE LIMITED
825	21355	ROCKFORT FABRICS PRIVATE LIMITED
826	21357	EXCEL COMPONENTS PRIVATE LIMITED
827	21371	POWER TECH ELECTRONICS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
828	21374	BYTE WRITE DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
829	21377	SARTORIA LEATHER STORES LIMITED
830	21393	ALEEM & IQBAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
831	21405	BETAMAX (MADRAS) PRIVATE LIMITED
832	21411	MADRAS MOVIE LIGHTS PRIVATE LIMITED
833	21412	SAROJINI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
834	21423	SIMACON INDIA PRIVATE LIMITED
835	21440	KARPAGAM COMMERCIAL CREDITS PRIVATE LIMITED
836	21451	OPTIMA DATA LOGIC PRIVATE LIMITED
837	21452	DHANADHARA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
838	21453	RENGA CHITS PRIVATE LIMITED
839	21458	SRI RANGA GARMENTS PRIVATE LIMITED
840	21466	CAREWELL HOMES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
841	21468	KOVALAM CARRIERS PRIVATE LIMITED
842	21469	PRASAD IMPEX PRIVATE LIMITED
843	21470	B.K CHITS(MADRAS) PRIVATE LIMITED
844	21472	ARUNA MARINE PRODUCTS EXPORTS PRIVATE LIMITED
845	21480	UTHAM BUILDERS PRIVATE LIMITED
846	21482	TAMILNADU INSULATORS PRIVATE LIMITED
847	21483	HADON PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
848	21484	VAISHNAVI HOME PRODUCTS AND APPLIANCES PRIVATE LIMITED
849	21487	TRINITY SYSTEMS AND SOFTWARE PRIVATE LIMITED
850	21488	ADHARAM ADVERTISING PRIVATE LIMITED
851	21491	AMMIRAJU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
852	21493	PAMS PLASTIK PRIVATE LIMITED
853	21502	SRI RANGA TIMBERS PRIVATE LIMITED
854	21508	ABYHUDAYA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
855	21510	HITECH REFRACTORY PRIVATE LIMITED
856	21541	RAM RANJIT COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED
857	21553	SUJDAG EXPORTS PRIVATE LIMITED
858	21558	PONMANY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
859	21599	ARNI SRI RAJALAKSHMI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
860	21602	VISHNUVARDHAN GRANITES PRIVATE LIMITED
861	21607	MODERN COMPUTER GRAPHICS & INFORMATION SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
862	21608	SRI LAKSHMI TECHNOFABS PRIVATE LIMITED
863	21609	ALPHABETA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
864	21610	BURLYS HOMEFOODS PRIVATE LIMITED
865	21628	PREMIER TRAILERS PRIVATE LIMITED
866	21636	SERAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
867	21650	DHIAZ KONSTRUKTION EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
868	21667	NEW BHARATH SHOES PRIVATE LIMITED
869	21668	UNIFINE LEASING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
870	21669	SHAVIN INSTRUMENTATION CONTROLS PRIVATE LIMITED
871	21674	LSZ GRANITES PRIVATE LIMITED
872	21675	INTER-ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
873	21676	BHANU EXPORTS PRIVATE LIMITED
874	21691	SVS ROCKIN STYLES PRIVATE LIMITED
875	21698	SHERWOOD GRANITE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
876	21721	HINDUJA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
877	21752	EMMEL GRAPHIC PRIVATE LIMITED
878	21753	HORIZON CRAFTS EXPORT PRIVATE LIMITED
879	21780	MAKKAL NESAN PUBLICATION (MADRAS) PRIVATE LIMITED
880	21788	SILVER COLOR LAB PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
881	21805	RAGHAVENDRA LEATHER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
882	21810	SURYA ROLLON PRIVATE LIMITED
883	21822	BVM RESORTS COMPLEX PRIVATE LIMITED
884	21831	SRI KUMARAN CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
885	21848	VIJAYASRI HOUSING AND DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
886	21869	ALMAC ELECTRONICS & SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
887	22012	ANYTIME FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
888	22013	ARGUS SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
889	22024	RIPRO LEATHERS PRIVATE LIMITED
890	22025	HANIFFA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
891	22034	SALESIAN DATA FORMS PRIVATE LIMITED
892	22037	SRI VADUVAMBIGAI TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
893	22061	MENIYER IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
894	22066	SUBHSHREE INVESTMENTS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
895	22082	BESCO EXPORT PRIVATE LIMITED
896	22084	TERI WEAVES (INDIA) PRIVATE LIMITED
897	22085	SOUTH INDIA CORRUBOX NEEDS PRIVATE LIMITED
898	22102	BALAJI OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
899	22106	SWAMY DENTAL COMPANY PRIVATE LIMITED
900	22107	PC POINT SYSTEMS & SOFTWARES PRIVATE LIMITED
901	22114	DYNA FLEX SOFTWARE PRIVATE LIMITED
902	22130	DHARANI GRANITES PRIVATE LIMITED
903	22132	SRI SHAKTHI SAI EDIBLES PRIVATE LIMITED
904	22133	FUEL SAVER INDIA PRIVATE LIMITED
905	22156	PUSHPAVALLI FORMS PRIVATE LIMITED
906	22162	AMARI MARKETERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
907	22172	MONARCH GRANITES PRIVATE LIMITED
908	22179	SRIPATHY CHITS MADRAS PRIVATE LIMITED
909	22183	ULTIMATE AIRFREIGHT PRIVATE LIMITED
910	22186	ANDISHWARA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
911	22188	NAGAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
912	22189	JAMES-NORTON MACHINES PRIVATE LIMITED
913	22190	STELLA MARIS SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
914	22198	YOGAM REAL ESTATES & PROMOTERS PRIVATE LIMITED
915	22202	INJAPNE GERITA EXPORTS PRIVATE LIMITED
916	22203	NIDHIPRIYA CHITS PRIVATE LIMITED
917	22204	PRABHAT TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED
918	22205	TIRUMALA HOSIERIES PRIVATE LIMITED
919	22206	GLIT GRANITE PRIVATE LIMITED
920	22215	VICTORY MOVIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
921	22218	RADEEP DEVELOPMENT AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
922	22226	TITANIUM ZIRCONIUM PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
923	22252	VASUNDHARA TIMBER TRADING PRIVATE LIMITED
924	22265	CONSOLIDATED APPARELS PRIVATE LIMITED
925	22267	ESGEE ALLOY CASTINGS PRIVATE LIMITED
926	22273	TREMENDOUS LEDER PRIVATE LIMITED
927	22276	A&E TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
928	22282	ABIRAMI SURFACTS PRIVATE LIMITED
929	22285	AVR-BHARATH TRADERS PRIVATE LIMITED
930	22286	KL&M CHEMICALS PRIVATE LIMITED
931	22287	VARJITHA HOSIERIES PRIVATE LIMITED
932	22288	ARUNODHAYAM STRUCTURALS & APPARELS PRIVATE LIMITED
933	22290	SKY HIGH TECH PRIVATE LIMITED
934	22295	APOLLO KNIT WORKS PRIVATE LIMITED
935	22297	MEDIA ANIMATORS PRIVATE LIMITED
936	22324	S.P. HOTELS PRIVATE LIMITED
937	22326	ENRICH EXPORTS PRIVATE LIMITED
938	22338	JEFFCOATES PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
939	22339	CIVITAS SHOE AND LEATHER PRIVATE LIMITED
940	22342	VINTAGE INN HOTELS PRIVATE LIMITED
941	22353	PARAMOUNT RUBBER PRIVATE LIMITED
942	22372	EXCO (INDIA) PRIVATE LIMITED
943	22383	PALK BAY ENGINEERS PRIVATE LIMITED
944	22393	MONIEGUE APPARELS PRIVATE LIMITED
945	22407	MRP MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
946	22415	PELICAN INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
947	22427	RELTEX TEXTILES PRIVATE LIMITED
948	22437	NEYVELI CHITS PRIVATE LIMITED
949	22443	KRISH MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
950	22448	GOWELL GARMENT PRIVATE LIMITED
951	22474	STYLE CERAMICA PRIVATE LIMITED
952	22780	KANNVAREES CHEMICAL LIMITED
953	23010	MANALI LEATHERS PRIVATE LIMITED
954	23011	HONEYWELL PACKAGING PRIVATE LIMITED
955	23014	NAVAN ROAD TECHS PRIVATE LIMITED
956	23022	CARE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
957	23030	GOWRI GRANITES EXPORTS PRIVATE LIMITED
958	23032	PREMIER TEAK FARM PRIVATE LIMITED
959	23046	PROGRESSIVE PLANTATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
960	23049	A K CHEMICAL PRODUCTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
961	23068	DARAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
962	23073	HAUSER SHOES PRIVATE LIMITED
963	23074	SUN PLASTIC COMPOSITES PRIVATE LIMITED
964	23080	ROYAL PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
965	23085	INTER-FRESH FOOD (INDIA) PRIVATE LIMITED
966	23090	VENKYS CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
967	23095	COSMOS PATENTERALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
968	23099	METRO ELECTRONICS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
969	23103	SRI SVS CHITS PRIVATE LIMITED
970	23106	MANHATTAN EXPRESS PRIVATE LIMITED
971	23108	FAIR DEAL SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
972	23110	K & K KNITWEAR PRIVATE LIMITED
973	23111	EMDEEYAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
974	23114	CONMAC ENGINEERING PRIVATE LIMITED
975	23122	PAMPA GRANITES (INDIA) PRIVATE LIMITED
976	23128	ARUMEE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
977	23133	SAKTHI LAKSHMI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
978	23137	GOLD CINEMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
979	23138	RIC SPICES AND TOP DELICACIES PRIVATE LIMITED
980	23139	VELANKANNI VISION HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED
981	23142	ESUN TRANSPORT PRIVATE LIMITED
982	23143	SUNNY ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
983	23144	SABI PLY PRIVATE LIMITED
984	23147	GEMS GARDEN PRIVATE LIMITED
985	23169	SURESH GANESH HOUSING PROJECTS PRIVATE LIMITED
986	23177	SRI VENKATESWARA KNITTING COMPANY PRIVATE LIMITED
987	23189	ROYAL MARINE PRODUCTS (TANJORE) PRIVATE LIMITED
988	23190	CHENNAI ARC PRIVATE LIMITED
989	23213	TAMILNADU TEAK PRIVATE LIMITED
990	23215	SIVASAKTHI PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
991	23216	KAAMIZ TEX PRIVATE LIMITED
992	23218	WEISS PAPERS PRIVATE LIMITED
993	23223	A.R.POLYMERS PRIVATE LIMITED
994	23224	PEKAR FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
995	23235	SIMS IMPEX PRIVATE LIMITED
996	23245	SHARMILA IMPEX AGENCIES PRIVATE LIMITED
997	23247	N.G.R.EXIM PRIVATE LIMITED
998	23249	ALEEF EXPORTS PRIVATE LIMITED
999	23256	MADHAVI HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
1000	23260	ABERDEEN STEAMER AGENCIES INDIA PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1001	23281	KUTIPULAN ARDMATICS PRIVATE LIMITED
1002	23289	MAYURAM KAMATCHI CHITS PRIVATE LIMITED
1003	23290	VEEKAY EXPDRTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1004	23300	SELVA ARASI IMPEX PRIVATE LIMITED
1005	23301	THENAMBIKA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1006	23342	PANDIAN KRAFT PAPER MILLS PRIVATE LIMITED
1007	23346	SIEFLEX SYSTEM ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1008	23347	SDUTHERN ELEVATDRS PRIVATE LIMITED
1009	23349	RDYAL AQUA PRDDUCTS PRIVATE LIMITED
1010	23352	RAGAVENDER ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
1011	23362	TRANS QUICK PRIVATE LIMITED
1012	23363	MERLIN HDTLS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
1013	23396	THENI SHRI SAKTHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1014	23398	NDAH'S FISHERIES PRIVATE LIMITED
1015	23399	SRI LADS CHITS PRIVATE LIMITED
1016	23410	SRI GOWRI AMBIKA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1017	23411	SHRI SELVA THIRUPATHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1018	23415	CRUISER WRITING INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
1019	23425	DPTIMAL ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1020	23428	SUKRA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1021	23433	RAJESWARI PACKAGING PRIVATE LIMITED
1022	23464	S.F.CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1023	23467	SARAN TOYS PRIVATE LIMITED
1024	23468	DEITY EXPDRTS PRIVATE LIMITED
1025	23492	YAMIN EXPDRTS PRIVATE LIMITED
1026	23498	PRAGOSA VENTURES LIMITED
1027	23501	KHANDHERI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1028	23507	KALPANA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1029	23514	TRISHUL GRANITE PRIVATE LIMITED
1030	23515	KCR PLANTATIDNS & RESORTS PRIVATE LIMITED
1031	23518	J.J.MARINE PRODUCTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1032	23520	KUMARI GRANITES PRIVATE LIMITED
1033	23531	ASCEND SALES PRIVATE LIMITED
1034	23535	SAKTHYA MANIKANDAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1035	23537	RATNA ELECTRICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1036	23539	COMDAT MICRO LDGIC PRIVATE LIMITED
1037	23542	HOTEL MAHI (MADURAI) PRIVATE LIMITED
1038	23545	UNITED CDNFECTIONERY PRIVATE LIMITED
1039	23548	ALLEGRO CDNSULTANCY & MARKETING PRIVATE LIMITED
1040	23549	KALYANA CHAKRAVARTHY TEXTILES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1041	23551	THARANI LEATHER EXPORT PRIVATE LIMITED
1042	23560	MOSAAGA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1043	23565	VISHAL HOSPITAL EQUIPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
1044	23567	K.R.V.POLYMERS PRIVATE LIMITED
1045	23569	LECLANCHE ENGINEERING & RUBBER LININGS PRIVATE LIMITED
1046	23571	HENNESSY INTERNATIONAL FOODS PRIVATE LIMITED.
1047	23572	GOOD WILL ELECTRICALS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1048	23574	SRI RAKAVENDRA GRANITE PRIVATE LIMITED
1049	23576	NISHANT STRUCTURES PRIVATE LIMITED
1050	23577	SRI VENKATESWAR CHITS (THANJAVUR) PRIVATE LIMITED
1051	23597	GRAMMY PLANTATIONS (INDIA) LIMITED
1052	23608	BAKYALAKSHMI DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
1053	23618	HORIZON HOSPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1054	23624	SUPERSUN RUBBERS PRIVATE LIMITED
1055	23626	ASMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1056	23628	RANKA STOCKS & SHARES PRIVATE LIMITED
1057	23638	KURUNCHI GRANITE INDUSTRY PRIVATE LIMITED
1058	23658	H.K.COSMOS EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
1059	23667	BRB TRADERS COMPANY PRIVATE LIMITED
1060	23678	RAVIRAAG CHITS PRIVATE LIMITED
1061	23680	PINAKINI PIPES PRIVATE LIMITED
1062	23682	SMP CHITS PRIVATE LIMITED
1063	23683	G.T.RESORTS PRIVATE LIMITED
1064	23691	BANU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1065	23715	GOLDEN CHIT FUNDS (KOVILPATTI) PRIVATE LIMITED
1066	23719	NASI GRANITE PRIVATE LIMITED
1067	23742	SPAN PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1068	23744	SOFIN CHITS COMPANY (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1069	23754	S.A.CHEMICAL AUTOMATION PRIVATE LIMITED
1070	23756	BEST AGRO OILS PRIVATE LIMITED
1071	23768	RUSTIC AGRO PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1072	23771	M.S.K.PILLAI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1073	23777	COTTON CREATIONS PRIVATE LIMITED
1074	23791	WINGS AND WHEELS COURIERS PRIVATE LIMITED
1075	23792	INTER DYNAMICS TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1076	23794	VICTORY HOUSE KEEPING SERVICES PRIVATE LIMITED
1077	23807	GANGA HOUSING PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1078	23810	NAVDHAN GRANITE & MINERALS PRIVATE LIMITED
1079	23819	NOGA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1080	23820	RAMAKRISHNA COMPUTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1081	23843	BORDEAUX FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1082	23859	IMAGE DYNAMICS PRIVATE LIMITED
1083	23864	SAI SANGAM FASHIONS PRIVATE LIMITED
1084	23868	A.N.V.CHITS PRIVATE LIMITED
1085	23874	S.S.P.FOODS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
1086	23879	CLASSIC DATA FORMS PRIVATE LIMITED
1087	23892	ESEA GRANITES PRIVATE LIMITED
1088	23896	THANGAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1089	23901	WE CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1090	23911	AQUAA CONSULTANTS & CONSTRUCTIONS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1091	23917	UNION FARMS & RESORTS PRIVATE LIMITED
1092	23920	GOOD PUMP PRIVATE LIMITED
1093	23929	FORTUNE STOCKS PRIVATE LIMITED
1094	23935	SRI GAYATHRIDEVI CHITS PRIVATE LIMITED
1095	23940	DHANAJOTHI EXPORTS PRIVATE LIMITED
1096	23945	GREENGROVE ESTATES PRIVATE LIMITED
1097	23966	ARCOT SHREE KALAIMAGAL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1098	23987	CHEMTRONS INDIA PRIVATE LIMITED
1099	23990	SUGAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
1100	23992	BOBINS CONFECTIONERY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1101	23996	TAPS PHARMA PRIVATE LIMITED
1102	23998	MADRAS KOREA FISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
1103	24004	SHRI AMMANAVARU PLANTATION PRIVATE LIMITED
1104	24008	ROHINI NAIL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1105	24010	J.B.PACKAGING MACHINES PRIVATE LIMITED
1106	24014	JAGAA CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1107	24015	S.A.S. TRADING PRIVATE LIMITED
1108	24021	AARAAM SEATING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1109	24023	MEDIMATIX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1110	24034	KALAHARI EXPORTS PRIVATE LIMITED
1111	24039	EQUIPMENT MARKETING (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1112	24040	CAPSHELLS LABORATORIES PRIVATE LIMITED
1113	24041	ARUN KAVI TRAVELS PRIVATE LIMITED
1114	24045	REJOICE RESORTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1115	24053	UNITED IMPEX (COIMBATORE) PRIVATE LIMITED
1116	24056	VICTORY CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1117	24058	CAD CAE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1118	24060	ANJANEYA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1119	24067	SUPERFISH EXPORTS PRIVATE LIMITED
1120	24068	BAY OF BENGAL SEA FOODS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1121	24074	CITY-LINK AIRWAYS PRIVATE LIMITED
1122	24083	SREE SOUNDARYA CHITS (THANJAVUR) PRIVATE LIMITED
1123	24087	METRO COURIER & CARGO PRIVATE LIMITED
1124	24090	HARMONY ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1125	24102	SEASONS RESORTS PRIVATE LIMITED
1126	24125	SEA ROCK TRADE-EXPO (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1127	24126	SRI KRISHNA BOREWELL SERVICES PRIVATE LIMITED
1128	24129	ANJALI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1129	24136	BARAKATH AND RAHMATH FARMS PRIVATE LIMITED
1130	24137	VBC FINANCIAL AND INVESTMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1131	24156	SWAGE LOCK INDIA PRIVATE LIMITED
1132	24162	KARUMUTTU TEAK PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1133	24182	KING PRAWNS PRIVATE LIMITED
1134	24199	SHIVA COMPLEX PRIVATE LIMITED
1135	24201	JOTHI THIRUMANA MANDAPAM PRIVATE LIMITED
1136	24213	AGASTHIA HOSPITAL PRIVATE LIMITED
1137	24239	SHWETONE EXIM PRIVATE LIMITED
1138	24256	SRI ANGALA PARAMESWARI FOODS PRIVATE LIMITED
1139	24258	MICRODYNE ELECTRONIC COMMUNICATION (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1140	24266	VYASA CHITS PRIVATE LIMITED
1141	24271	SRI ALAMELU MANGAI TUBE WELL SERVICES PRIVATE LIMITED
1142	24272	TEX-IN-TEX EMBROIDERY PRIVATE LIMITED
1143	24279	HYFRIC SHOES EXPORTS PRIVATE LIMITED
1144	24285	ORYX APPARELS PRIVATE LIMITED
1145	24287	EMERALD WED-LOCK PRIVATE LIMITED
1146	24290	LEATHER TRANS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
1147	24297	CAPRO EXPORTERS PRIVATE LIMITED
1148	24300	PRAKASH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1149	24303	DENTAL AMALGAMS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1150	24305	CHAKRA AGENCIES PRIVATE LIMITED
1151	24307	PHALANX GARMENTS PRIVATE LIMITED
1152	24310	J.B.S.CHITS PRIVATE LIMITED
1153	24324	BETHEL INDUSTRIAL ENGINEERING FABRICATIONS PRIVATE LIMITED
1154	24325	APDHA TOOLS PRIVATE LIMITED
1155	24339	ASTER EXPORTS PRIVATE LIMITED
1156	24340	ROCKTOWN CREDIT AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1157	24345	VEEAAR FORWARDERS PRIVATE LIMITED
1158	24346	GARDEN OF EDEN ESTATES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1159	24351	NEW JERCY FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
1160	24359	TIRUPATHI BALAJI TEAK TREE FARM AND GUEST HOUSE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1161	24364	VICTORY IMPEX AGENCIES PRIVATE LIMITED
1162	24379	SHRI SARAVANA STONES PRIVATE LIMITED
1163	24381	VAWAR TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
1164	24383	L.A.BOYS (FASHIONS) PRIVATE LIMITED
1165	24384	NAVADEEP CREDIT AND LEASING PRIVATE LIMITED
1166	24385	J.M.S.CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1167	24393	BLUE SEA AQUA TECH PRIVATE LIMITED
1168	24408	SUPER RETREADING PRIVATE LIMITED
1169	24409	SRI SASTHA STEELS PRIVATE LIMITED
1170	24411	L.V.PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1171	24438	BEST CARBON PRIVATE LIMITED
1172	24452	SWIFT EXPORTS PRIVATE LIMITED
1173	24456	EMERALD OFFSET PRINTERS PRIVATE LIMITED
1174	24457	SRI HCS TRAVELS AGENCIES PRIVATE LIMITED
1175	24463	ETHLAN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1176	24470	VIJAY KRISHNA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1177	24507	SRI RAJA RAJESWARI GARMENTS PRIVATE LIMITED
1178	24527	KIRON RAISING PRIVATE LIMITED
1179	24532	K.C.S.HOUSING FINANCE LIMITED
1180	24535	VIVEK COMPUTER AND REPROGRAPHIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1181	24544	NEW GREEN TEAK PLANTATION PRIVATE LIMITED
1182	24550	KANNVAREES INTERNATIONALS PRIVATE LIMITED
1183	24552	SRINIVAS SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
1184	24553	SREE BHAGWAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1185	24565	GOLDEN BAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
1186	24569	AKITA TOYS PRIVATE LIMITED
1187	24572	VIMCHANAM CHITS PRIVATE LIMITED
1188	24579	MEGALAI TRAVEL AND TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
1189	24582	ESPANA STEAMER AGENCIES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1190	24596	ARUNODAYA CERAMICS PRIVATE LIMITED
1191	24598	GOLDWIRE CREATIVE AND DESIGN SERVICES PRIVATE LIMITED
1192	24610	ROOPAM MARINE EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1193	24615	HAPPY HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
1194	24631	FINESSE ITALIA PRIVATE LIMITED
1195	24637	ESSARRVEE EXPORTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1196	24652	HIJO IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
1197	24676	TEMPLE TREE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1198	24679	MASTER CREDITS PRIVATE LIMITED
1199	24687	T.G.INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1200	24729	MUSIRI CHITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1201	24730	SELVAM AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
1202	24733	SUN PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1203	24734	FICER RUBBERS PRIVATE LIMITED
1204	24744	RUBICON MARKETING PRIVATE LIMITED
1205	24745	SEA BREEZE FARMS PRIVATE LIMITED
1206	24747	KESVM VENKATESWARA CHITS PRIVATE LIMITED
1207	24749	VISU AGENCIES PRIVATE LIMITED
1208	24753	ULTRAMAX STEELS PRIVATE LIMITED
1209	24759	SRI GANESH PUBLICITY (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1210	24760	GROWMORE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1211	24770	BANU GARMENTS PRIVATE LIMITED
1212	24783	NUTRON ELECTONICS PRIVATE LIMITED
1213	24795	RUBYCON SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1214	24817	G.S.FIBRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1215	24825	SURABI CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1216	25022	WAYALURAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
1217	25059	KHALEET AQUATECH PRIVATE LIMITED
1218	25073	MIDAS TOUCH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1219	25080	ROYAL DOMESTIC EXPRESS PRIVATE LIMITED
1220	25086	SG & SS CHITS PRIVATE LIMITED
1221	25105	CLOVER INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1222	25112	NEO ORGANICS PRIVATE LIMITED
1223	25121	AB MARKETING & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1224	25128	AIR WINGS CARGO (INDIA) PRIVATE LIMITED
1225	25147	GEEN PASTURES INDIA PRIVATE LIMITED
1226	25148	MEGA PLANTATION PRIVATE LIMITED
1227	25158	KARPAHA VIRUTCHAM PRIVATE LIMITED
1228	25181	JDTHI SAIT BEEDI PRIVATE LIMITED
1229	25215	FUTURE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1230	25225	JEYA KUMAR WEAVERS PRIVATE LIMITED
1231	25241	LEERA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1232	25244	HIGH RESOLUTION VIDEO IMAGE PRIVATE LIMITED
1233	25248	FELSPAR MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1234	25256	HASTHRA CHITS PRIVATE LIMITED
1235	25275	GURUNATH CHEMCALS PRIVATE LIMITED
1236	25295	M.L.G. HITECH PRINTERS PRIVATE LIMITED
1237	25311	GANGA-KAVERI AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
1238	25509	MILKYWAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
1239	25523	SUKRA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1240	25541	RAMSEKAR SURGICAL COTTON MILLS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1241	25557	PRAHATHI AMUSEMENTS & RESORTS PRIVATE LIMITED
1242	25558	KHYBER VALLEY PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1243	25564	ALIYA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1244	25573	QUEEN AQUA PRIVATE LIMITED
1245	25580	TAMILNAD ABRASIVES PRIVATE LIMITED
1246	25603	GREEN PARK PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1247	25632	POOVAN HOSIERIES PRIVATE LIMITED
1248	25634	SUMORA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1249	25649	MADRAS AUTOMATION CONCEPTS PRIVATE LIMITED
1250	25651	S.J.A. CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1251	25671	GRAFITI GRANITES INDIA PRIVATE LIMITED
1252	25687	CASTLE EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1253	25690	VIJAY SHAKTHI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1254	25696	SUMANGALI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1255	25703	AGRO & ANIMAL FARMS (NILAGIRIES) PRIVATE LIMITED
1256	25741	PAVITHRA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1257	25745	GALAXY ESTATES & HOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED
1258	25759	SOUTH INDIA SOLES PRIVATE LIMITED
1259	25763	A'ESEL TRAVELS & TRADE PRIVATE LIMITED
1260	25781	SENTHURAN PRAWN FARM PRIVATE LIMITED
1261	25798	GREENPEACE ORCHARDS PRIVATE LIMITED
1262	25812	CLUB RENDEZVOUS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1263	25825	EVERGREEN TEA PRIVATE LIMITED
1264	25836	CAPE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1265	25841	AANDAVAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
1266	25846	GLORIA GEM CRAFTS PRIVATE LIMITED
1267	25860	KARPADHARU FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
1268	25911	PARAMOUNT AUTO ELECTROPLATING PRIVATE LIMITED
1269	25928	OUR LADY CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1270	25929	MANIANS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1271	25953	LION CITY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1272	25958	MATCHLESS FABRICS PRIVATE LIMITED
1273	25987	SHRI RAM ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1274	25990	SRI SAI LAKSHMI ESTATES LIMITED
1275	25992	BODI OM NARAYANA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1276	26006	APL POLY BUSINESS PRIVATE LIMITED
1277	26007	RAMBABU IMPEX PRIVATE LIMITED
1278	26022	KODAI ISWARYAS HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
1279	26024	MAXIMA CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1280	26039	KAMALESH FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1281	26063	ORION AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
1282	26069	VIRA AQUACULTURE AND FARMS PRIVATE LIMITED
1283	26086	MUKESH PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1284	26090	BRINDAVAN AGRO FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
1285	26108	METRO DETECTIVE AGENCY (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1286	26109	SRI GANESH SOLVENTS PRIVATE LIMITED
1287	26112	PISCES EXPORTS PRIVATE LIMITED
1288	26120	RAVI BIO FUEL PRIVATE LIMITED
1289	26128	CELINCO KNITTING PRIVATE LIMITED
1290	26139	COCO AQUAMINERAL PRIVATE LIMITED
1291	26164	MADRAS FORMS PRIVATE LIMITED
1292	26180	PAPAIN AGRO FARMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1293	26202	MARTHA ACQUA PRIVATE LIMITED
1294	26211	NIKITA AQUACULTURE PRIVATE LIMITED
1295	26219	AGNI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1296	26249	VISHNELLE PLASTICS PRIVATE LIMITED
1297	26254	SIGNET AQUA FARMS LIMITED
1298	26258	GRACE MINERALS PRIVATE LIMITED
1299	26269	CYNO CLEAN COMPANY PRIVATE LIMITED
1300	26321	THRUVAN PROPERTIES & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1301	26334	AMERICAN LEATHERS PRIVATE LIMITED
1302	26368	SARANSH LEATHERS PRIVATE LIMITED
1303	26372	VIJAYARAM TEX PRIVATE LIMITED
1304	26379	PERFORMANCE COMPUTER & ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1305	26421	KARPAGA CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1306	26438	BASE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1307	26456	SUBHA SRI CHINNAMMAL CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1308	26462	VAIBHAV PLANTATIONS & RESORTS LIMITED
1309	26472	RAO EMPLOYMENT AGENCIES PRIVATE LIMITED
1310	26497	ABHIRAMI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1311	26521	PREETHAM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1312	26539	SHAN SU PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1313	26559	SNEW LEATHERS PRIVATE LIMITED
1314	26566	DART WIRES PRIVATE LIMITED
1315	26583	PENTA LEATHERS PRIVATE LIMITED
1316	26586	SREE SADASIVAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1317	26588	ANANTHU EXPORTS PRIVATE LIMITED
1318	26601	SOUTH COAST CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1319	26680	SRUSTI TEAKS INDIA PRIVATE LIMITED
1320	26692	JAGALAKSHMI PLANTATIONS (INDIA) LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1321	26717	RAJ AND YASH ALLOY PRIVATE LIMITED
1322	26722	PHOENIX DECORATIVE POLYTEX PRIVATE LIMITED
1323	26737	KONGU CHITS PRIVATE LIMITED
1324	26772	SURABI CREATIONS PRIVATE LIMITED
1325	26776	AAY VEE STEELS PRIVATE LIMITED
1326	26790	KANSAI GRANITES PRIVATE LIMITED
1327	26799	AMBULI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1328	26824	SEAMAN ELSY PRIVATE LIMITED
1329	26828	THIRUMAGAL HOUSING PRIVATE LIMITED
1330	26839	WATAN TEXTILES PRIVATE LIMITED
1331	26855	SHRIRAM SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
1332	26892	SRI UDHAYAM CHIT FUNDS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1333	26953	K.A.K. CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1334	26985	VISHNU TECHNICAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1335	27021	SUNSULA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
1336	27024	HOTEL JASMINE PRIVATE LIMITED
1337	27029	MATHURA POWER CONTROL PRIVATE LIMITED
1338	27041	GOPI PRIYA TREE PLANTATION PRIVATE LIMITED
1339	27067	CHANDRAKANTH FILMS PRIVATE LIMITED
1340	27077	NAYANSHANTHI HOTELS PRIVATE LIMITED
1341	27090	KUMBAKONAM RV CHITS PRIVATE LIMITED
1342	27108	VETRI DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
1343	27116	TAURUS OVERSEAS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1344	27118	GRANDLAYON TECH-MINERALS PRIVATE LIMITED
1345	27148	SRI VIJAYA SARASWATHY SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
1346	27161	T.D. BALAJI APPARELS PRIVATE LIMITED
1347	27225	VASANTH SELVIS CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1348	27230	FULL MOON PROPERTY PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1349	27233	ACHUTHA CHEMTECH PRIVATE LIMITED
1350	27238	BLUE BASE AQUA HARVEST PRIVATE LIMITED
1351	27247	KOVILPATTI OM ADHIPARASAKTHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1352	27254	TRILUX POWER EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1353	27255	SPRING SHEILD FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1354	27293	RAJA GIRI CHITS PRIVATE LIMITED
1355	27302	QBIK MARKETING (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1356	27319	UNICORN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1357	27351	NEL CHITS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1358	27362	AKKSHAY BREEDERS PRIVATE LIMITED
1359	27367	SRI SAI PARDHA FARMS PRIVATE LIMITED
1360	27375	FRAGRANT FARMS & EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1361	27377	SRI RAJAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1362	27413	INCA LABS PRIVATE LIMITED
1363	27418	EZHIL PADMA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1364	27419	TETRA LEATHERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1365	27448	MAYUR GRAFIC PRIVATE LIMITED
1366	27453	K.K.R.RESIDENCY CREATIONS PRIVATE LIMITED
1367	27489	DYNAPOWER ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1368	27492	TUTICORIN SECURITIES PRIVATE LIMITED
1369	27495	FLUX SURGITECH PRIVATE LIMITED
1370	27507	MULTI FOCUS EXPORTS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
1371	27575	SHARE CRAFT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1372	27576	BALAJE AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED
1373	27588	SRI PANDIAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1374	27598	SAKSA STOCKS & SAVINGS PRIVATE LIMITED
1375	27614	GOLDEN HEART EXPORTS PRIVATE LIMITED
1376	27621	KLAMS POLY-KRISTEL PRIVATE LIMITED
1377	27625	SRI LAKSHMICHAITANYA AGRO FARMS AND ESTATES PRIVATE LIMITED
1378	27627	R.R.AGRO FARMS AND ESTATES PRIVATE LIMITED
1379	27630	MAS MEDICAL INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
1380	27639	BLOSSOMS TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
1381	27679	VIMAL AGRO FARM (TUTICORIN) PRIVATE LIMITED
1382	27692	SRI DEVI AKSHAYA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1383	27727	S.R. FLASH BUTT WELDING PRIVATE LIMITED
1384	27731	SREE SIVANANDHA CHIT FUNDS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1385	27741	NAVRATHNA FORMS PRIVATE LIMITED
1386	27748	MANNARGUDIAMMA CHITS PRIVATE LIMITED
1387	27791	J.J. HEALTH CARE CENTRE PRIVATE LIMITED
1388	27794	AALPHAA CAMPUS SERVICE PRIVATE LIMITED
1389	27815	LEATHER AND LEATHER GOODS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1390	27851	CHAITHNYA VAISHNAVI COPIERS PRIVATE LIMITED
1391	27855	FRIENDS MANPOWER CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1392	27861	V.S.R.AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
1393	27868	BHAGHIYA MAHALAXMI CHITS PRIVATE LIMITED
1394	27872	AMRITHA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1395	27879	NELLAI TEXTILES PRIVATE LIMITED
1396	27883	SEA QUEEN AQUA CULTURE PRIVATE LIMITED
1397	27895	ANUPRIYA HOUSING AND PROPERTY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1398	27896	ECOSYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1399	27907	MULTIPROPS ESTATES PRIVATE LIMITED
1400	27912	MAHAJANA TRADE CREDITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1401	27927	ARVI SXIMP PRIVATE LIMITED
1402	27937	GNR FINANCIAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
1403	27947	NEWLYNE COSMETICS PRIVATE LIMITED
1404	27949	HARMONY EXPRESS SERVICES PRIVATE LIMITED
1405	27956	MANAVAATI TRADERS PRIVATE LIMITED
1406	27962	POORNALAYA MEDICAL EQUIP PRIVATE LIMITED
1407	27971	SHREE ANUMAN PHARMA CHEM PRIVATE LIMITED
1408	27988	PAMBAN TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
1409	28003	SAI SIDDARTH HOTELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1410	28005	VISHNU PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1411	28007	MAYILAI VAILANKANNI CHITS PRIVATE LIMITED
1412	28009	SUNIP SOFTWARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1413	28014	BHARATH COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1414	28015	SCNTABY AGRO FARMS & ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
1415	28016	JAYAVIJAY EXPORTS PRIVATE LIMITED
1416	28018	AMAR AUTO FORGINGS PRIVATE LIMITED
1417	28033	STAR PRAWNS CULTURE PRIVATE LIMITED
1418	28039	NT MEDIAWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
1419	28068	SUBA MEENAKSHI CHITS PRIVATE LIMITED
1420	28076	UNIQUE AQUA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1421	28077	ROCKSHINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
1422	28083	THENI OM SRI PRAKASH CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1423	28092	AKKUR HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1424	28093	SRAVANA SECURITIES PRIVATE LIMITED
1425	28094	M.B.R. EXPORTS PRIVATE LIMITED
1426	28105	MEGALITH FABRIC EXPORTS PRIVATE LIMITED
1427	28134	BILLIONS MARKETING COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1428	28149	PEACOCK ADVISORIES PRIVATE LIMITED
1429	28150	EVERGLOW COURIERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1430	28153	CMC SOAPDET PRIVATE LIMITED
1431	28162	SREE LEKSHMI AQUA FARM PRIVATE LIMITED
1432	28166	PANDIVILAI PANDIAN CHITS PRIVATE LIMITED
1433	28178	AKSHAYA BAKERS & PROCESSORS PRIVATE LIMITED
1434	28184	A.K.IMPEX PRIVATE LIMITED
1435	28199	BMN EXPORTS PRIVATE LIMITED
1436	28204	SOFTLINK COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1437	28208	MAECO AGRO FARM PRIVATE LIMITED
1438	28210	MAECO IRRIGATION PRIVATE LIMITED
1439	28226	TCM FOUNDATION PRIVATE LIMITED
1440	28232	KARTHIK SHARE BROKING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1441	28241	BAGAVATHIAMMAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1442	28244	HAPPY STAY INNS PRIVATE LIMITED
1443	28256	SREE HARIGURU GARMENTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1444	28270	TVK-MAXROI FINANCE & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1445	28274	OASIS SEAFOODS PRIVATE LIMITED
1446	28304	SRI VANNI VINAYAGAR CHIT FUNDS (SATTUR) PRIVATE LIMITED
1447	28305	BANSOI LEATHERS PRIVATE LIMITED
1448	28306	RAJEE APPARELS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1449	28310	MAGNUM NEWS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1450	28311	BERSHEBA INFORMATIC SERVICES PRIVATE LIMITED
1451	28319	CHAKRA RAJA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
1452	28320	K.K. CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1453	28328	VEKKALIAMMAN CHITS PRIVATE LIMITED
1454	28336	MADONNA BUILDERS PRIVATE LIMITED
1455	28343	BODI SRI LAXMI GANESH CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1456	28344	PRASHANTI ENGINEERING AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
1457	28350	MAGNUM BATTERIES PRIVATE LIMITED
1458	28355	THAMBI ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1459	28358	INDO-PHIL EXIM PRIVATE LIMITED
1460	28359	VEEYEN GRANITES PRIVATE LIMITED
1461	28360	MANASE IRRIGATION EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
1462	28380	KAVI FOOTWEARS PRIVATE LIMITED
1463	28381	KUMARAN TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
1464	28387	G.K.AQUA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1465	28388	BODI SRI RENGAL ANDAL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1466	28392	SOUTHERN GENERAL MERCHANDISE COMPANY PRIVATE LIMITED
1467	28393	SUN CONTROL FILMS PRIVATE LIMITED
1468	28396	NACHU CHITS PRIVATE LIMITED
1469	28404	SRI AMARAPPAN FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1470	28416	SRI SUCKRA AGENCY PRIVATE LIMITED
1471	28446	DELTA CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1472	28462	SWARNA EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED
1473	28474	VALHAVAN CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1474	28484	LEERA FINANCIAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1475	28490	G.P. CREATIONS PRIVATE LIMITED
1476	28491	AAJKAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
1477	28494	ARASAN MARKETING PRIVATE LIMITED
1478	28508	GREEN PARK FARMS PRIVATE LIMITED
1479	28512	SENTHIL ANDAVER ENGINEERING & AGENCY PRIVATE LIMITED
1480	28513	COMBINED COURIERS (MADRAS) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1481	28516	HI SEA IMEX PRIVATE LIMITED
1482	28517	VEE AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
1483	28534	INDUS RESORTS PRIVATE LIMITED
1484	28536	TAMILNADU GAS PRIVATE LIMITED
1485	28539	VEDAGIRI VISALAKSHI AGRICULTURAL RESEARCH & DEVELOPMENT CONSORDIUM PVT.
1486	28542	INTER MODE FREIGHT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1487	28544	RANS FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
1488	28548	MAG GRANITES PRIVATE LIMITED
1489	28555	MAAYURAM SRI RENGACHITS PRIVATE LIMITED
1490	28557	SREE PACKIALAKSHMI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1491	28563	PRABHAT CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1492	28570	STALWART COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1493	28571	RADHAA RANI SPINNERS PRIVATE LIMITED
1494	28573	PRARTHANA LEATHERS PRIVATE LIMITED
1495	28588	EXCEL CASTINGS PRIVATE LIMITED
1496	28598	MERCURY SECURITIES PRIVATE LIMITED
1497	28601	MADRAS FIBRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1498	28603	JENNI FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1499	28610	ARCHANA'S POLY MARKETING PRIVATE LIMITED
1500	28627	GOLDEN MEADOWS PRIVATE LIMITED
1501	28630	AL AFTAB HOSIERY PRIVATE LIMITED
1502	28637	CBM EXPORTS PRIVATE LIMITED
1503	28640	COCO-LIME PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1504	28660	SBR FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1505	28661	LIPPO MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1506	28685	LIFEGUARD MEDICAL DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
1507	28699	GNR EXIM PRIVATE LIMITED
1508	28700	MERLIN PLACEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1509	28701	EXCEL SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED
1510	28712	PRINCE FARMS AND AGRO COMPANY PRIVATE LIMITED
1511	28728	MARS CASTINGS PRIVATE LIMITED
1512	28730	GNANA BHARATHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1513	28732	J.K.MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1514	28745	SHIVLOKH PRINTS PRIVATE LIMITED
1515	28753	JBR TRADE AND PRINTING PRIVATE LIMITED
1516	28764	C-TECH ELECTRONICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1517	28768	SUPREMES GARMENTS EXPORTERS PRIVATE LIMITED
1518	28769	PADMASREE FINANCIAL SERVICE PRIVATE LIMITED
1519	28770	RAPICUR REMEDIES PRIVATE LIMITED
1520	28772	SHRI AKALYA CHITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1521	28774	THILLAI LAXME CHITS PRIVATE LIMITED
1522	28786	SRI KALIAMMAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
1523	28795	NKN CHITS & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1524	28820	WOOD HAVEN ESTATES & ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1525	28825	SRI KAMALA TRAVELS PRIVATE LIMITED
1526	28835	INTERNOVA ORTHO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1527	28837	SHAREEX CENTRE PRIVATE LIMITED
1528	28838	DRAS TOP ART PRIVATE LIMITED
1529	28856	BOW CARD MARKETING PRIVATE LIMITED
1530	28859	SHIELD INFUSIONS PRIVATE LIMITED
1531	28862	SUN ROSE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1532	28863	SUN SUMMER RESORTS PRIVATE LIMITED
1533	28869	SRI SARVASIDDHIVINAYAGAR CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1534	28870	LING TEAK TREE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1535	28885	GEM ORCHARDS PRIVATE LIMITED
1536	28894	WESTERN GHATS HILL PLANTATIONS LIMITED
1537	28904	MERCURY ELECTRICAL ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
1538	28924	TRADE SPECTRUM PRIVATE LIMITED
1539	28925	NARBAVI CHITS PRIVATE LIMITED
1540	28931	VAIRAVAN CHITS PRIVATE LIMITED
1541	28932	MADURAI AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
1542	28938	REI GRANITE EXPORTS PRIVATE LIMITED
1543	28941	AGROHA GREEN FARMS PRIVATE LIMITED
1544	28963	WATAN STEEL PRIVATE LIMITED
1545	28964	ICRC EXPORTS PRIVATE LIMITED
1546	28968	RAYMAN MARKETING PRIVATE LIMITED
1547	28973	CARGO POOL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
1548	28982	AARON FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1549	28987	ABITHA FOODS PRIVATE LIMITED
1550	28990	MEERA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1551	28992	KALIKA DEVI CHITS PRIVATE LIMITED
1552	28997	YDGA HOUSING FINANCE LIMITED
1553	29012	VERGE FARMMS PRIVATE LIMITED
1554	29016	INTERNET TRAVEL PRIVATE LIMITED
1555	29022	VENUS PHARMA PRIVATE LIMITED
1556	29026	AXLE PHARMA PRIVATE LIMITED
1557	29054	PAL & PRIYA ESTATES AND INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
1558	29062	V.A.T. AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
1559	29067	NELFIN AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1560	29068	YESSAR SECURITIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1561	29069	J J SUPER CEMENTS (ARIYALUR) PRIVATE LIMITED
1562	29082	TRINET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1563	29094	MSC EXPORT PRIVATE LIMITED
1564	29100	MEEMAHS PLASTICS PRIVATE LIMITED
1565	29111	KJM AQUA HATCHERY PRIVATE LIMITED
1566	29123	BLUE SEA MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
1567	29124	SUPER DUPER TV PRIVATE LIMITED
1568	29139	KUMARAN & KUMARAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1569	29148	EMBASSY CHITS PRIVATE LIMITED
1570	29157	VINAYAGA HOUSING & PLANTATION COMPANY PRIVATE LIMITED
1571	29170	DEW DROP ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1572	29172	SUBUKI BRAKES PRIVATE LIMITED
1573	29175	FAST FORWARD COURIERS PRIVATE LIMITED
1574	29194	YOGI IMPEX PRIVATE LIMITED
1575	29197	SRI UPPILI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1576	29199	BOSES INTEGRATED FARM PRIVATE LIMITED
1577	29201	MAXIMA INTERIOR DECORATORS PRIVATE LIMITED
1578	29209	EKNAATH COMMUNICATIONS LIMITED
1579	29213	VIJAYA MRI PRIVATE LIMITED
1580	29214	PATH FINDER FINANCIAL SERVICES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1581	29215	AURA MARKETING PRIVATE LIMITED
1582	29227	CHIPLES ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1583	29232	G K LPG COMPANY PRIVATE LIMITED
1584	29234	DEEPTHI COIR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1585	29239	CITIZENS TEAM (CONTRACTORS & REAL ESTATE) PRIVATE LIMITED
1586	29254	ROLL ON ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1587	29256	DEEPMI EXPORTS PRIVATE LIMITED
1588	29262	ZENITH MARKETING AND SALES SERVICES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1589	29276	PROXY-MATE SERVICES PRIVATE LIMITED
1590	29279	CMS STONE WORLD PRIVATE LIMITED
1591	29303	METRO INVESTMENTS SYNDICATE LIMITED
1592	29313	SUN CHIT & INVESTMENT PRIVATE LIMITED
1593	29319	RATHNAM FABRICS EXPORTS PRIVATE LIMITED
1594	29327	ARGUS GRAPHICS VISION PRIVATE LIMITED
1595	29344	ZEN POWER ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1596	29345	FASHION CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1597	29346	FASHION WASHING PRIVATE LIMITED
1598	29348	JYOTHI AGTAK INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1599	29356	METAL & MINERAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
1600	29378	OUR LADYS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1601	29386	MACFAB ENGINEERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1602	29408	RENUKA IMPEX PRIVATE LIMITED
1603	29428	M.K.FARMS & RESARTS PRIVATE LIMITED
1604	29435	SARASWATHI CREDITS PRIVATE LIMITED
1605	29441	BBA SECURITIES AND STOCKS PRIVATE LIMITED
1606	29448	ENGINEERING EQUIPMENT WORKS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1607	29450	ANNATHUR DAIRY & AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1608	29451	J.S.HERITAGE RESORTS PRIVATE LIMITED
1609	29469	JUPITER GARMENTS EXPORT PRIVATE LIMITED
1610	29475	ALAGAPPA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1611	29477	SHARON FARMS PRIVATE LIMITED
1612	29491	TESSCO CONSTRUCTIONS AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1613	29497	ADITYA COMPONENTS PRIVATE LIMITED
1614	29498	AKASH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1615	29509	RAINBOW MARKETING PRIVATE LIMITED
1616	29514	PATNAM CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1617	29521	HOSIA IMPORT & EXPORT PRIVATE LIMITED
1618	29543	CLARINS SOAPS PRIVATE LIMITED
1619	29544	ANU BUILDERS PRIVATE LIMITED
1620	29562	G.D.R.FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1621	29570	G.P.GRANITES PRIVATE LIMITED
1622	29591	LEO HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1623	29594	ARS GARMENTS PRIVATE LIMITED
1624	29596	SHREE SAKTHI SECURITIES PRIVATE LIMITED
1625	29614	ALPHA COMPUTER PRINTS PRIVATE LIMITED
1626	29615	ANDHRA AGRO & AQUA SERVICES PRIVATE LIMITED
1627	29619	TRANSLANKA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
1628	29621	S.P.S.MINERALS PRIVATE LIMITED
1629	29628	SREE SAILA AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
1630	29629	ALI & ALI ALL INDIA TRANSPORT PRIVATE LIMITED
1631	29637	MADHURA FARMS HOUSE & RESORTS PRIVATE LIMITED
1632	29641	YES YES HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1633	29645	ELJAKS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1634	29646	GENTLEMAN LOTTERY AGENCIES PRIVATE LIMITED
1635	29648	MANNAI T.M.R.CHITS PRIVATE LIMITED
1636	29649	NU-LINC ELECTRONIC PRIVATE LIMITED
1637	29667	V.N.AQUA FOOD PRIVATE LIMITED
1638	29669	TREASURE TROVE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1639	29692	WORDSWORTH FARMS AND RESORTS LIMITED
1640	29701	CARDINAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1641	29721	SPM HOTELS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1642	29730	ORIENTAL SEAMS PRIVATE LIMITED
1643	29770	DEVIKRISHNA AQUA CULTURE PRIVATE LIMITED
1644	29802	Y K LEATHERS PRIVATE LIMITED
1645	29813	COMPONENTS TRADING PRIVATE LIMITED
1646	29833	PEARLCITY CINEMA COMPANY PRIVATE LIMITED
1647	29866	AL FATAH TRAVELS PRIVATE LIMITED
1648	29876	EVERSHINE SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED
1649	29933	PRINU MULTI MEDIA PRIVATE LIMITED
1650	29940	MERLYN STOCK AND SHARES PRIVATE LIMITED
1651	29953	AISA FINVEST PRIVATE LIMITED
1652	29972	MONAMI EXPORTS PRIVATE LIMITED
1653	29973	INDEX FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1654	29998	BULL MARKU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1655	30028	HYDRO-MECH & AQUA TECH CONSULTANTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1656	30032	RATHNA CHITS PRIVATE LIMITED
1657	30040	EMPLOY-NET PRIVATE LIMITED
1658	30041	SAFENET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1659	30042	T K N HOLIDAY RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED
1660	30043	T K N HOUSING & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1661	30061	PIC-N-PAC POLY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1662	30072	METRO EXPRESS COURIERS PRIVATE LIMITED
1663	30092	RAPHEAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1664	30096	ESS VEE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1665	30123	BALAJI DAIRY PRIVATE LIMITED
1666	30136	KNP TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED
1667	30166	TWELCO FILTERS PRIVATE LIMITED
1668	30175	UNI BUILD EXIMP PRIVATE LIMITED
1669	30183	MAXIMA METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1670	30188	AMICA LEATHER PRIVATE LIMITED
1671	30191	GREEN HEAVEN PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1672	30196	SRI SAMY METALS PRIVATE LIMITED
1673	30200	VEKKALIAMMAN REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
1674	30204	SURAJ SECURITIES PRIVATE LIMITED
1675	30225	OM GANESH STEEL PRIVATE LIMITED
1676	30230	MADONNA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1677	30234	RAJA REALESTATES PRIVATE LIMITED
1678	30245	SEEKERS FARMS INDIA PRIVATE LIMITED
1679	30255	SIVASRI CHITS PRIVATE LIMITED
1680	30260	A G R AMARA EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1681	30261	ESQUIRE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1682	30269	CORONATION JEWELLERY MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
1683	30274	PRORICH FOODS PRIVATE LIMITED
1684	30281	MAS AQUA HATCHERY PRIVATE LIMITED
1685	30283	BODI SRI KAVITHALAYA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1686	30289	SRI RAM COCO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1687	30311	AMBIENCE LEISURE HOLIDAYS INDIA PRIVATE LIMITED
1688	30313	EXCEL MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1689	30324	WAVES FABRICS EXPORTS PRIVATE LIMITED
1690	30327	AKRON POLYMERS PRIVATE LIMITED
1691	30332	MODERN LEATHERCRAFT PRIVATE LIMITED
1692	30335	VIJAYA PRAWNS PRIVATE LIMITED
1693	30349	INDA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1694	30353	SREE KARPAGA VINAYAGAR SECURITIES PRIVATE LIMITED
1695	30360	GIANT GRANITES PRIVATE LIMITED
1696	30365	SRI SAKTHI BHAGAVATHY PRIVATE LIMITED
1697	30381	SRI VAISHNAVI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1698	30390	TANWELL (INDIA) PRIVATE LIMITED
1699	30400	SBR AGRO & SHEEP FARM PRIVATE LIMITED
1700	30409	STAR EXPORT & IMPORT PRIVATE LIMITED
1701	30422	MEDIA NET PRIVATE LIMITED
1702	30423	ENCAR CASHEW GARDENS PRIVATE LIMITED
1703	30425	VENKADESH COCONUT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1704	30432	BARNABAS EARTH MOVING PRIVATE LIMITED
1705	30433	FAXTONE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1706	30457	ROYAL MARITIMES PRIVATE LIMITED
1707	30458	PRIME LEATHERS PRIVATE LIMITED
1708	30489	FIRENZE LEATHERS PRIVATE LIMITED
1709	30490	DHAVAL FILMS INDIA PRIVATE LIMITED
1710	30497	SUREKA HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1711	30505	INFINITE CAREER DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1712	30506	GRANDEUR MACHINERY & EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1713	30507	ATALANTA MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
1714	30516	RAMSAROJ ACQUA FARM PRIVATE LIMITED
1715	30523	ADI BHAGAVATHY STEELS AND FABRICATION PRIVATE LIMITED
1716	30532	IMPRESSIVE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1717	30567	RAINBOW INVESTMENTS AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
1718	30572	SEEKERS RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED
1719	30576	EMPEEKAY IMPEX PRIVATE LIMITED
1720	30583	CRESCENT TRADING & EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1721	30606	MOHANA PLASTIC PIPES PRIVATE LIMITED
1722	30619	KWALITY SPICES PRIVATE LIMITED
1723	30627	K & K COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1724	30630	TOTAL SAFETY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1725	30637	MAG MARKETING PRIVATE LIMITED
1726	30647	JAYA CEMENTS PRIVATE LIMITED
1727	30648	BLUESEA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1728	30664	MOOLCHAND SHIPPING PRIVATE LIMITED
1729	30670	PHOENIX HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
1730	30680	THAKADI PHARMA LIMITED
1731	30686	RAJINI CONFECTIONERS PRIVATE LIMITED
1732	30688	SRI VINAYAGA FLORI & HORTI PRIVATE LIMITED
1733	30704	SELVA ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1734	30705	SUPER FINE TEXTILES PRIVATE LIMITED
1735	30714	BULL'S EYE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1736	30724	GREEN VALLEY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
1737	30735	CADMAX COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1738	30742	SRI SARASU & COMPANY CHITS PRIVATE LIMITED
1739	30757	STRATEGIC EQUITY RESEARCH PRIVATE LIMITED
1740	30763	SAGAR IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
1741	30775	AMBIGA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1742	30777	VALLI SUDHAN CHITS PRIVATE LIMITED
1743	30784	GOKHAR SECURITIES PRIVATE LIMITED
1744	30793	SEA RECORDS PRIVATE LIMITED
1745	30805	SHOBHA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1746	30814	TOP POINT AGRO FARM PRIVATE LIMITED
1747	30833	VARDHAMAN PHARMA CHEM PRIVATE LIMITED
1748	30835	PRANAM CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1749	30836	CHAANDINI APPARELS PRIVATE LIMITED
1750	30870	AISHWARIYA FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
1751	30875	BLUE BELL FINANCIAL SERVICES LIMITED
1752	30879	NUTREND INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1753	30894	RONAK FABRICS PRIVATE LIMITED
1754	30896	SRI SATYASAI SPICES PRIVATE LIMITED
1755	30905	AGMA BUILDERS AND DEVELOPERS LIMITED
1756	30913	CSJK CORPORATE RESTRUCTURING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1757	30914	VAN GOGH DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
1758	30926	TELETEK ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1759	30941	MA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1760	30971	CAVERY CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1761	30979	MOTOREN AUTO ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
1762	30981	PERFIX SHDE COMPONENTS PRIVATE LIMITED
1763	30982	MAS ENERGY EDUCERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1764	30990	TERRY COSMETICS PRIVATE LIMITED
1765	30996	LEKHA SONOTON RECORDED MUSIC LIBRARY PRIVATE LIMITED
1766	31004	FRONT LINE CARRIERS PRIVATE LIMITED
1767	31013	TECHNIQUES GEDSYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1768	31015	SIREMULL HIRACHAND AUTOPARTS LIMITED
1769	31034	MAXIMA TRAVELS PRIVATE LIMITED
1770	31037	VALLIAMMAI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1771	31038	SKYLINE FREIGHT FORWARDERS PRIVATE LIMITED
1772	31049	SWARNA RATHNA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1773	31057	SAARS CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1774	31073	RAM-SUNDAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1775	31095	THENI SRI VENKATA LAKSHMI CHTFUNDS PRIVATE LIMITED
1776	31101	TAMILNADU X-RAYS & SCANS PRIVATE LIMITED
1777	31102	SHRI GURU SHANTHI AGRO FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1778	31106	WORK MATS INTERIORS PRIVATE LIMITED
1779	31110	GLO GLASS PRIVATE LIMITED
1780	31111	DEEP WOODS AND WILD FLOWERS PRIVATE LIMITED
1781	31112	MOLASUR ORCHARDS PRIVATE LIMITED
1782	31117	A.S. MUTHU PLANTATIONS DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
1783	31124	SUJAIN COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1784	31138	MELCON INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1785	31139	SYNDICATE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1786	31145	MEENA & MEENA LEATHERS PRIVATE LIMITED
1787	31154	G.R.V. SECURITIES PRIVATE LIMITED
1788	31174	SOMASUNDARAM CHETTIAR JEWELLERY MART PRIVATE LIMITED
1789	31188	GNANAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1790	31190	AMAZER LEATHER EXPDRTS LIMITED
1791	31209	MASCO GRANEX PRIVATE LIMITED
1792	31215	SRI BALAMBIKA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1793	31268	RAJA EXPORTERS PRIVATE LIMITED
1794	31300	PON CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1795	31304	MICROFIT AUTO PARTS PRIVATE LIMITED
1796	31305	EXCEL CLOTHING PRIVATE LIMITED
1797	31313	MAHA DEEPAM CHITS PRIVATE LIMITED
1798	31320	VICTUS INFOTECH PRIVATE LIMITED
1799	31326	SWATHI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1800	31355	THENRAL FOODS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1801	31357	TAMIL MAGAL CHITS PRIVATE LIMITED
1802	31361	SOUTHERN GLUES PRIVATE LIMITED
1803	31368	NATURE TEX PRIVATE LIMITED
1804	31379	YOGAM SERVICES PRIVATE LIMITED
1805	31390	PLAIN PAPER COPIERS SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LIMITED
1806	31391	RAMALAS INVESTMENTS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1807	31425	TOPO GRAPHICS & SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1808	31432	MAXIMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1809	31433	K.G. STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
1810	31434	MAXIMA CLOTHING COMPANY PRIVATE LIMITED
1811	31440	SARVANA BUILDERS PRIVATE LIMITED
1812	31452	PON KARTHIK MANPOWER AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
1813	31458	AVT AQUA FARM PRIVATE LIMITED
1814	31459	M.T.R. GRANITES PRIVATE LIMITED
1815	31460	ADROIT TRANS PRIVATE LIMITED
1816	31467	TRANSLINE INFOTECH PRIVATE LIMITED
1817	31478	NOORAJ AGROTECH PRIVATE LIMITED
1818	31479	POSITIVE EXPORTS PRIVATE LIMITED
1819	31480	PEACOCK ELECTRONICS FOUNDATION LIMITED
1820	31491	MONEY POINT FINANCIAL SERVICE PRIVATE LIMITED
1821	31511	BSS HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1822	31528	FRIENDS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1823	31533	NANJIL APARTMENTS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1824	31536	GREEN INVESTMENTS FARM & TRADES PRIVATE LIMITED
1825	31542	ALANWIS HOMELINKS PRIVATE LIMITED
1826	31547	SRI ELUMALAYAN CHITS PRIVATE LIMITED
1827	31555	ABBIRAMI AQUA ANNEXA MADRAS LIMITED
1828	31569	AEC SHELTERS PRIVATE LIMITED
1829	31571	ALP CONSTRUCTION LIMITED
1830	31577	VIRESH SHELTER PRIVATE LIMITED
1831	31588	MERITEK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1832	31599	CHOICE FARMS PRIVATE LIMITED
1833	31601	SHAKTI DURGA ENGINEERS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
1834	31616	VINTTAGE HERBALS PRIVATE LIMITED
1835	31622	DIGITECH INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1836	31628	SELKA WATER TREATMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1837	31635	SAYE SATHYA NARAYANA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1838	31644	MAXIMA COMPUTECH PRIVATE LIMITED
1839	31650	NAVI INVESTMENT PRIVATE LIMITED
1840	31652	K.K. ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1841	31655	M.S.CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1842	31661	KAYWEAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
1843	31665	ORIENTAL GLUCONATES PRIVATE LIMITED
1844	31671	SOUTHERN TRANSAIR SERVICES PRIVATE LIMITED
1845	31673	SHAKTI DURGA HOMES PRIVATE LIMITED
1846	31675	SRI SELVABALAJI CHIT PRIVATE LIMITED
1847	31694	SIPPY HOUSING AND AGRO FARM PRIVATE LIMITED
1848	31696	RELIABLE HOMES PRIVATE LIMITED
1849	31706	OMKAR CHITS PRIVATE LIMITED
1850	31708	SATISH LIVESTOCK PRIVATE LIMITED
1851	31712	BHOOPATHY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1852	31715	BEST INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1853	31716	K.J.R.POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
1854	31721	S.N.SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
1855	31740	DIVIYAN LEATHER EXPORTS PRIVATE LIMITED
1856	31758	MASS MARKETTING & FINANCE PRIVATE LIMITED
1857	31764	GUMMIDIPUNDI IRON & STEEL PRIVATE LIMITED
1858	31781	MADRAS METAL PRIVATE LIMITED
1859	31791	ZIGMA EXPERT SYSTEM PRIVATE LIMITED
1860	31792	SENTHIL SIVASAKTHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1861	31794	MONEY MANAGEMENT SECURITIES PRIVATE LIMITED
1862	31815	VAP TRAVELS PRIVATE LIMITED
1863	31817	SRI LADS FABRICS PRIVATE LIMITED
1864	31828	SRI JOTHI LAKSHMI TEAK WOOD PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1865	31829	CAPRINE FARMS PRIVATE LIMITED
1866	31836	IND AIR TREATMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1867	31844	SRI KOPUDAIAMMAN MILLS PRIVATE LIMITED
1868	31864	NETHAJI SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED
1869	31868	CITY GREENS PRIVATE LIMITED
1870	31925	PEAK COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1871	31981	MEASUREWELL INSTRUMENTATION PRIVATE LIMITED
1872	31983	NIKKY CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1873	31997	AIR MASTER ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1874	32003	HELIOS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1875	32011	VANTAGE ADVERTISING AGENCY PRIVATE LIMITED
1876	32014	PENTAGON SECURITY SERVICES LIMITED
1877	32046	EZHIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1878	32048	LAYA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1879	32056	SARAVANA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1880	32061	MIGHTY TEX LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1881	32079	JARDIN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1882	32089	V.R. INVESTMENTS AND LEASING PRIVATE LIMITED
1883	32090	M.K. GRANITES & MINERALS PRIVATE LIMITED
1884	32093	MOOKAMBIKAI AGENCY PRIVATE LIMITED
1885	32108	AURO EQUITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1886	32114	EURO SHOES PRIVATE LIMITED
1887	32122	AARATHY TEXTILE EXPORTS PRIVATE LIMITED
1888	32130	RAPHEAL TEXTILES PRIVATE LIMITED
1889	32137	GOODWORTH ORCHARDS LIMITED
1890	32142	ASHA INDIAN AIRWAYS PRIVATE LIMITED
1891	32143	ASHA WIND ENERGY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1892	32144	ASHA WIND ENERGY PRIVATE LIMITED
1893	32150	SREE VIGNESWARA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1894	32151	TAMILNADU FARMS AND ORCHARDS PRIVATE LIMITED
1895	32161	SHRI SAIRAM TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
1896	32166	KERALA TRANSPORT SERVICE (MADRAS) PRIVATE LIMITED
1897	32169	SHILPA ARTS PRIVATE LIMITED
1898	32174	ANUBHAV CEMENTS LIMITED
1899	32179	SWAS APPARELS PRIVATE LIMITED
1900	32197	ISAAC & PAUL AGRO FARMS & FINANCE PRIVATE LIMITED
1901	32205	SUMS EXPORTS PRIVATE LIMITED
1902	32206	VIRGIN TEXTILE PRIVATE LIMITED
1903	32207	J. SILVERHILLS SHEEP FARMING LIMITED
1904	32215	GREEN PARK GARDENS PRIVATE LIMITED
1905	32218	SREE JEYAM SPINNERS PRIVATE LIMITED
1906	32220	BRILLIANT AUTO SPARES PRIVATE LIMITED
1907	32228	GVL BROTHERS WING ELECTRIC GENERATORS PRIVATE LIMITED
1908	32232	DELTA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1909	32244	PUTHUGAI PECTIN PRIVATE LIMITED
1910	32254	GALEN MEDICAL PRIVATE LIMITED
1911	32258	COCOON TEXTILE PRIVATE LIMITED
1912	32259	ABLOOM FINANCIAL SERVICES & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1913	32261	EVA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1914	32263	VENUE ACE RETORT FOODS PRIVATE LIMITED
1915	32285	PAZHAMUDHIR SOLAI AGRO-TECH PRIVATE LIMITED
1916	32304	FLY HIGH SERVICES PRIVATE LIMITED
1917	32308	P&W GRAPHICS PRIVATE LIMITED
1918	32323	FABTEX EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1919	32324	BRUCHEMS PHARMA PRIVATE LIMITED
1920	32331	SRI VIRIJESWARI MERCHANDISERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1921	32335	ABAY FINSTOKK PRIVATE LIMITED
1922	32337	SURYA EAST COAST FARMS(INDIA) PRIVATE LIMITED
1923	32342	MIRANDA RUBBER FACTORY PRIVATE LIMITED
1924	32346	ARCH BUSINESS LINK PRIVATE LIMITED
1925	32350	EAGLE IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
1926	32357	CAPITAL SHIPPERS AND COURIER SERVICES PRIVATE LIMITED
1927	32369	MEERA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1928	32390	FIVE FALLS HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
1929	32403	PHARMALOIDS(INDIA) PRIVATE LIMITED
1930	32407	INTEGRATED BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED
1931	32446	PAKALONE SHIPPING PRIVATE LIMITED
1932	32448	WESTERN GHAT FARMS PRIVATE LIMITED
1933	32460	GOLDEN HILL GREEN FARMS PRIVATE LIMITED
1934	32465	SOUTH PACIFIC LEATHER IMPORT-EXPORT PRIVATE LIMITED
1935	32469	NSM TRAVELS PRIVATE LIMITED
1936	32470	SASHI FINANCIAL AND TECHNICAL SERVICES LIMITED
1937	32481	CASINO RESORTS PRIVATE LIMITED
1938	32486	GALADA RIMS LIMITED
1939	32488	PROFESSIONAL ASSOCIATES CONSULTANTS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1940	32491	CONSUL HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1941	32514	NICE KNITTERS PRIVATE LIMITED
1942	32516	SOUTHERN AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
1943	32518	R.K.SYSTRONICS PRIVATE LIMITED
1944	32522	MOOLCHAND TEXTILES PRIVATE LIMITED
1945	32524	ESUN BUILDERS PRIVATE LIMITED
1946	32526	OM SAKTHI PACKAGING MATERIAL PRIVATE LIMITED
1947	32534	SRI RAJESWARI CHITS PRIVATE LIMITED
1948	32542	GIANT BLUEMETALS PRIVATE LIMITED
1949	32543	NEWTON INDUSTRIAL DEVELOPMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1950	32548	MAK MANAGEMENT SERVICES LIMITED
1951	32554	AAISHMA HOSPITAL AND HEALTH CARE LIMITED
1952	32560	MULTIPLE AGRO-TECH LIMITED
1953	32562	MARS HARDWARES PRIVATE LIMITED
1954	32569	GREEN HEAVEN BUILDERS AND DEVERLOPERS PRIVATE LIMITED
1955	32571	GREEN HEAVEN HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
1956	32574	RASME HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1957	32577	SRI AYYAPPA OIL MILL PRIVATE LIMITED
1958	32578	AMASINA SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED
1959	32586	U.H.S.SHOES PRIVATE LIMITED
1960	32615	RATHINAVEL SUBRAMANIYAM CHITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1961	32648	SIGNAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1962	32659	ARCH HI-TECH COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
1963	32672	QUICK MAINTENANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
1964	32676	MAYOPURA HOLY RESORTS PRIVATE LIMITED
1965	32688	SRISIVA TRAVELS & BUSINESS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
1966	32707	DIGVIJAY MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1967	32711	PEGASUS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1968	32716	A & B SECURITIES PRIVATE LIMITED
1969	32719	DHANUSHRAM GRAPH PRIVATE LIMITED
1970	32720	FREQUENCY MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
1971	32722	SREE KAYVEEYEN INVESTMENTS LIMITED
1972	32731	SUBHA REALTORS PRIVATE LIMITED
1973	32736	ADVANCED HITECH EXPORT LIMITED
1974	32744	MBRN IMPEX PRIVATE LIMITED
1975	32749	LAKSHMIDEVI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1976	32750	SILOAM EVANGELICAL MISSION PRIVATE LIMITED
1977	32756	RAMAJAYAM BUILDERS LIMITED
1978	32763	VKV HILL GARDEN PRIVATE LIMITED
1979	32768	SRIGUGAN CHITS PRIVATE LIMITED
1980	32781	CRYSTAL BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED
1981	32796	SHIMLA STEEL AND ALLIED PRIVATE LIMITED
1982	32800	AKSHITHA GARMENTS PRIVATE LIMITED
1983	32802	ANNAI CHINTHA MARKETING PRIVATE LIMITED
1984	32812	RADUM WEATHER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1985	32813	SAINAD SEA FOODS PRIVATE LIMITED
1986	32823	GOLDEN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1987	32835	IMPACT COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1988	32876	REHM IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
1989	32887	ESSEM GREEN WORTH PRIVATE LIMITED
1990	32891	DO-WEL ACADEMY FOR ECO TOURS AND ADVENTURE SPORTS LIMITED
1991	32897	JVR FARM RESORTS PRIVATE LIMITED
1992	32907	THENI OM SAKTHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1993	32919	VGM GOAT FARM PRIVATE LIMITED
1994	32920	CLIFF ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1995	32929	R.D. TRADELINKS PRIVATE LIMITED
1996	32932	GK INVESTMENT RESEARCH INDIA PRIVATE LIMITED
1997	32939	ROYAL TEAK AND AGRO PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
1998	32945	PICHAVARAM GOLDEN AQUA FARMS PRIVATE LIMITED
1999	32952	EMBASSEY RESORTS PRIVATE LIMITED
2000	32955	MMR PROPERTIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2001	32959	ARMS MARKETING PRIVATE LIMITED
2002	32960	AGNI METALS PRIVATE LIMITED
2003	32977	IGLOO RESORTS PRIVATE LIMITED
2004	32985	KOUSHIK CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2005	32987	GROW BEST FARMS PRIVATE LIMITED
2006	32994	SRI THIRUMALAI LAKSHMI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2007	33008	AMERISAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2008	33014	SHELDON BLUE METALS PRIVATE LIMITED
2009	33015	MARLIN GRANITES PRIVATE LIMITED
2010	33016	KAREN BLUE METALS PRIVATE LIMITED
2011	33020	MANUELSONS PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
2012	33025	WAVES COMPUTER FORMS PRIVATE LIMITED
2013	33029	HIGH POWER ELECTRICALS INDIA PRIVATE LIMITED
2014	33030	LANDSCAPE MATERIALS & STONES PRIVATE LIMITED
2015	33051	JBR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2016	33057	SJ PROMOTERS LIMITED
2017	33060	E C B AGRO FARMS LIMITED
2018	33067	VANGAL DAIRIES PRIVATE LIMITED
2019	33069	SRI AYYANAR SPINTEX PRIVATE LIMITED
2020	33074	VISHVASH CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2021	33075	TALENT INVESTMENTS & FINANCIALS PRIVATE LIMITED
2022	33079	SOUTHERN TAR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2023	33085	JUANY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2024	33088	SRI VENKATESWARA BENEFIT FUND LIMITED
2025	33089	NMK FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2026	33091	NMK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2027	33095	CLAIRVOYEE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2028	33097	LATHAS TEXTILES LIMITED
2029	33121	D.P.BITMATE PRIVATE LIMITED
2030	33126	THENI SRI ANGALAESWARI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2031	33143	GRANDEUR SURVEYORS PRIVATE LIMITED
2032	33147	LOYOLA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2033	33158	PRINCESS OF HILLS PLANTATIONS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2034	33163	ICNET SHIPPING LINES PRIVATE LIMITED
2035	33169	S.B.A.CHITS PRIVATE LIMITED
2036	33175	HOTEL PRINCE PLAZA PRIVATE LIMITED
2037	33176	MADRAS GENERAL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
2038	33219	CARE WELL GOATS FARM PRIVATE LIMITED
2039	33222	ANCO MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
2040	33229	KALAKRITI IMPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2041	33237	SAKALYA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2042	33238	SOUTH COAST AVIATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2043	33239	SHREE KARPAGAVINAYAGAR STOCK & SHARES LIMITED
2044	33246	VARIETY LEATHER EXPORTS PRIVATE LIMITED
2045	33261	ROLA AGROTECH FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2046	33262	ALPINE CASTOR PRIVATE LIMITED
2047	33264	FRONT LINE BUILDERS PRIVATE LIMITED
2048	33304	POOVULAGIN NANBARGAL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2049	33306	GHENJI GRANITES PRIVATE LIMITED
2050	33342	ADULATH FABRIC PRIVATE LIMITED
2051	33352	PARIMALESWARAR FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2052	33355	AJT SECURITIES PRIVATE LIMITED
2053	33363	SRI RAASI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2054	33368	GANGA KAVERI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2055	33375	WATAN FASHIONS PRIVATE LIMITED
2056	33377	ROCK TOWN CHITS PRIVATE LIMITED
2057	33392	ABIRA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2058	33420	SENDEJTHOOR CREATIONS PRIVATE LIMITED
2059	33421	WINFRED ASSOCIATES EXIM PRIVATE LIMITED
2060	33425	PENTAGON GRAPHICS PRIVATE LIMITED
2061	33445	BUCHANAN CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2062	33469	PANDIAN SECURITY BUREAU PRIVATE LIMITED
2063	33477	EMAYAM CREDITS AND INVESTMENTS CO PRIVATE LIMITED
2064	33490	CEPHAS CONTECH PRIVATE LIMITED
2065	33495	VR STONES PRIVATE LIMITED
2066	33505	EVEREST COUNTRY CLUB PRIVATE LIMITED
2067	33508	MOHTA FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2068	33511	KUNA SEAFOOD INDIA PRIVATE LIMITED
2069	33526	TITAN BOOKS PRIVATE LIMITED
2070	33536	BALASAI SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
2071	33542	KALANGI INVESTMENTS AND SECURITIES LIMITED
2072	33547	FU GEN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2073	33554	PERFIX ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2074	33559	KRISH DATA (INDIA) PRIVATE LIMITED
2075	33587	NANDINI DIARY & AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2076	33607	UNICARD MARKETING CBE PRIVATE LIMITED
2077	33627	QUINTESSENCE MULTI MEDIA PRIVATE LIMITED
2078	33629	SAGA KNITTING PRIVATE LIMITED
2079	33639	CLASSIC SUPERMARKET PRIVATE LIMITED
2080	33641	FASHION COSMETICS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2081	33651	GAY FINSER CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
2082	33659	ANBUBHAV INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2083	33661	A J INFORMATIONS PRIVATE LIMITED
2084	33667	SUNTRAN CHITS PRIVATE LIMITED
2085	33672	ASISWARYA CREATIONS PRIVATE LIMITED
2086	33674	COSMOS FOREST LIMITED
2087	33679	MAANJU GRAFIX PRIVATE LIMITED
2088	33688	WILMENMECHAID PRIVATE LIMITED
2089	33691	PRAMODH STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
2090	33696	NATARAJ SECURITIES AND CREDITES LIMITED
2091	33698	ALAYAM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2092	33703	ROYAL FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2093	33712	METRO GREENS PRIVATE LIMITED
2094	33719	AAT CERMICS PRIVATE LIMITED
2095	33733	GEESEN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2096	33734	GEE DEE HI TECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2097	33739	RAJA MARITIMES PRIVATE LIMITED
2098	33742	CITYWIDE EXPRESS COURIER PRIVATE LIMITED
2099	33743	ANJANEYA PETROLEUM COMPANY LIMITED
2100	33746	CONTRAST ADVERTISING & DESIGNING AGENCIES PRIVATE LIMITED
2101	33754	RM IMPEX LIMITED
2102	33762	LONGMEN TRADING INDIA LIMITED
2103	33764	MAXWOOD BIOTECH PRIVATE LIMITED
2104	33772	INDUS MILK MAGNUM PRIVATE LIMITED
2105	33773	CATTLE CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2106	33779	SUBISH PLASTIC PRIVATE LIMITED
2107	33789	ANUGRAHA GOAT FARM PRIVATE LIMITED
2108	33815	THIRUMAGAL LEASING LIMITED
2109	33825	TUSAN INDIA MAGNETIC PRIVATE LIMITED
2110	33828	RSM APPAREL PRIVATE LIMITED
2111	33843	TROPICANA SOFTWARE LIMITED
2112	33854	ELIM HOUSING AND ESTATES PRIVATE LIMITED
2113	33863	RHINOZ IMPEX PRIVATE LIMITED
2114	33870	MADURAI VINAYAKA WEAVING MILLS PRIVATE LIMITED
2115	33874	ANNAL GARDEN PRIVATE LIMITED
2116	33878	VAIGAI CEMENTS PRIVATE LIMITED
2117	33879	STERLING METTALLURGY PRIVATE LIMITED
2118	33882	IBHAR FASHIONS PRIVATE LIMITED
2119		NAMALAI EXPORTS PRIVATE LIMITED
2120		CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2121	33908	SEMMEEN CHITS PRIVATE LIMITED
2122	33910	SILVER HAMMER IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
2123	33920	VASSTU HOMES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2124	33934	K L SAFE RECRUITERS PRIVATE LIMITED
2125	33937	THIRUMAGAL TRADITIONAL CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2126	33941	SUXUS PERTROCHEMICALS PRIVATE LIMITED
2127	33960	HINDUSTAN CHITS PRIVATE LIMITED
2128	33979	RIGHT CHOICE PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
2129	33982	MERLIN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2130	34001	DIGITAL CHANNELS INDIA PRIVATE LIMITED
2131	34005	DYANACO COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2132	34016	SUGAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
2133	34031	GOLDEN WING ADS PRIVATE LIMITED
2134	34044	SANGAMITHIRAI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2135	34060	OSMANIC OIL MILL PRIVATE LIMITED
2136	34063	PAM ESTATES PRIVATE LIMITED
2137	34065	KALIMA TRAVEL SERICES PRIVATE LIMITED
2138	34069	C N A SOFT VISION PRIVATE LIMITED
2139	34071	TECHNO TRACING INDIA PRIVATE LIMITED
2140	34079	TOPNOTCH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2141	34086	LEGEND ELECTRONIC PRIVATE LIMITED
2142	34092	PALACE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
2143	34094	GEETH SAGAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2144	34097	TRICHY CATTLE FARMS PRIVATE LIMITED
2145	34107	GALACTICA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2146	34108	SRI MOOKAMBIKAS CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2147	34112	SWATHI SPICES AND CONDIMENTS LIMITED
2148	34119	RAJARAJAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2149	34123	JAGIRIDAR STOCKS PRIVATE LIMITED
2150	34134	RICH SEA FOOD EXPORT PRIVATE LIMITED
2151	34143	MEEZAN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2152	34170	SUNSHINE HEALTH FOODS PRIVATE LIMITED
2153	34172	MANI MANI HOUSING PRIVATE LIMITED
2154	34176	JET HOLIDAY TOURS INDIA PRIVATE LIMITED
2155	34177	MACRO CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2156	34194	S.V.S CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2157	34199	SUN FRUIT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
2158	34217	BHAGAT MINERALS PROCESSING COMPANY PRIVATE LIMITED
2159	34237	VIJAYLAXMI FLORITECH PRIVATE LIMITED
2160	34256	GVR FOUNDATION PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2161	34259	TRAVEL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2162	34292	SWIFT AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2163	34314	MOTHER INDIA GOAT FARMS PRIVATE LIMITED
2164	34335	HEROTECH MACHINERY PRIVATE LIMITED
2165	34373	EAST WEST AQUA VENTURES PRIVATE LIMITED
2166	34377	DECCAN AIRLINES PRIVATE LIMITED
2167	34399	ILLMORYA SCRIPS AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
2168	34410	SAKTHIVEL ASSOCIATES ARCHITECTURE INDIA PRIVATE LIMITED
2169	34411	SRI KALIGAMBAL AGRO GOAT FARM PRIVATE LIMITED
2170	34424	JEYAS CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2171	34435	SREE VAIDYANATHA TEXTILES PRIVATE LIMITED
2172	34458	LEVI COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2173	34484	V G HOMES PRIVATE LIMITED
2174	34499	AARBE INFOTECH PRIVATE LIMITED
2175	34505	J R MAINE FABRICS PRIVATE LIMITED
2176	34528	SARAVANA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2177	34532	ALPHA CADD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2178	34534	GEORGE BROS FLAT PROMOTERS PRIVATE LIMITED
2179	34581	ZION FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2180	34585	KEERTHI GOAT FARMS PRIVATE LIMITED
2181	34599	CHEN - RAPHA PRIVATE LIMITED
2182	34600	M C A DEPARTMENTAL STORES & SERVICES PRIVATE LIMITED
2183	34612	HARIDHA LABS PRIVATE LIMITED
2184	34614	MAY INDIA AGENCIES PRIVATE LIMITED
2185	34618	VYSHALI HOME LINKS PRIVATE LIMITED
2186	34627	NUTTSMAN KAAJUS PRIVATE LIMITED
2187	34652	GOWRI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2188	34657	KVR LEATHER PRIVATE LIMITED
2189	34662	GOLDEN BIO TECH PRIVATE LIMITED
2190	34669	SHIRDI SAI HOME WORKS PRIVATE LIMITED
2191	34673	K G PUNCHILINE TOOLS PRIVATE LIMITED
2192	34675	SRI NARAYANA CHITS PRIVATE LIMITED
2193	34680	MEROOR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2194	34689	AMFAHZ MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
2195	34692	CONCORD AIR VOYAGES PRIVATE LIMITED
2196	34712	TAMANNA PROJECTS & MARKETING PRIVATE LIMITED
2197	34714	P J EXIMS PRIVATE LIMITED
2198	34741	KLEEN WAY DRY CLEANERS PRIVATE LIMITED
2199	34742	AXIOM CONSULATANTS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
2200	34751	BEE KAY AAR PLANTATIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2201	34767	DHARA SIMULATION SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2202	34790	SAGA EDUCATION PRIVATE LIMITED
2203	34795	CALIPSO EXPORTS PRIVATE LIMITED
2204	34796	ZODIAC INTERGREATED AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2205	34828	MAHAA VISHNU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2206	34847	SHAKTHI INSTITUTE OF HOUSEKEEPING PRIVATE LIMITED
2207	34863	SUNDAR CHITS MADRAS PRIVATE LIMITED
2208	34866	PLEASANT PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
2209	34872	SANGUINO MEDI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2210	34873	RAJDAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
2211	34879	GRAMS STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
2212	34880	TAMIL PANDIYAN CHITS TRICHY PRIVATE LIMITED
2213	34892	TAMILNADU THERMOPLAST PRIVATE LIMITED
2214	34897	BLUEMOUNT AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2215	34904	ARAFAA (INDIA) FARMS PRIVATE LIMITED
2216	34906	MABEL FARMS PRIVATE LIMITED
2217	34907	CANAAN TEXTILES PRIVATE LIMITED
2218	34930	J K DECOILERS PRIVATE LIMITED
2219	34948	APMACA INFOTECH PRIVATE LIMITED
2220	34949	BHARGAVAA MULTIMEDIA INFOSYS PRIVATE LIMITED
2221	34952	DMR LEATHERS PRIVATE LIMITED
2222	34956	VALAR HOMES PRIVATE LIMITED
2223	34957	SHREE SHANKESHWARA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2224	34959	AARUDHRA PLASTICS PRIVATE LIMITED
2225	34960	AHANA SECURITIES PRIVATE LIMITED
2226	34974	J A J TELECOM SERVICES PRIVATE LIMITED
2227	34983	INDO ASIAN STEELS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
2228	34996	CHAKRA APPARELS PRIVATE LIMITED
2229	35020	IGGI HOMETELS LIMITED
2230	35032	MA CONTACT CLUB PRIVATE LIMITED
2231	35039	DHANWANTRI MEDICAL RESEARCH INSTITUTE LIMITED
2232	35041	VEETEC PHARMA PRIVATE LIMITED
2233	35092	RAKKESH MARKETING PRIVATE LIMITED
2234	35093	PRIL COURIERS PRIVATE LIMITED
2235	35100	SURESH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2236	35113	G S P FOODS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
2237	35115	WARRIER AYURVEDIC NURSING HOME PRIVATE LIMITED
2238	35118	AURAVIND OXYGEN COMPANY PRIVATE LIMITED
2239	35127	ZOOM VISION PRIVATE LIMITED
2240	35134	WHAUN STOCKS AND INVESTMENTS LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2241	35141	HAWK ENGINES PRIVATE LIMITED
2242	35177	TRAZ TELE NETWORKS LIMITED
2243	35182	ENARAI RIBBONS PRIVATE LIMITED
2244	35183	PROTRIP ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2245	35197	SATHISH GREAT GIFT (TEAK) PRIVATE LIMITED
2246	35205	J P V PAPERS & BOARDS PRIVATE LIMITED
2247	35206	ROCKVIN EXPORTS PRIVATE LIMITED
2248	35225	E.S.CARRIERS PRIVATE LIMITED
2249	35231	BHAIRAV SEAFOODS PRIVATE LIMITED
2250	35240	GROWMAX INVESTMENT CREDITS PRIVATE LIMITED
2251	35248	PEEAKK COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2252	35250	MADRAS RESINO PORODUCTS PRIVATE LIMITED
2253	35262	GEEYES AQUA CULTURE PRIVATE LIMITED
2254	35268	DEVAKI EXPORTS PRIVATE LIMITED
2255	35271	CATHY MARINE FOODS PRIVATE LIMITED
2256	35287	CONCORD ROADWAYS PRIVATE LIMITED
2257	35308	SHIV SAKTHI MACHINES PRIVATE LIMITED
2258	35309	BOKADIA POLYTECH PRIVATE LIMITED
2259	35310	CHIRAIYA METALS & POLYMERS PRIVATE LIMITED
2260	35327	GREENWAY CHITS PRIVATE LIMITED
2261	35330	MEENAKSHI INVESTMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
2262	35341	KURINJI PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
2263	35375	SRI VENKATALAKSHMI DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
2264	35384	JAI SUN DIAMOND PRIVATE LIMITED
2265	35386	SREE SAIRAM KRAFTS PRIVATE LIMITED
2266	35395	HI-TECH POWER LAUNDRY PRIVATE LIMITED
2267	35400	SREE KAMALESH AGRI DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
2268	35406	VISION CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2269	35408	MANASAROVER FARMS PRIVATE LIMITED
2270	35439	GRAPHICS INDIA PRIVATE LIMITED
2271	35444	MOORTHY PHARMA TRADERS PRIVATE LIMITED
2272	35448	JM FERN ESTATES PRIVATE LIMITED
2273	35465	VXL CHITS(MADRAS)PRIVATE LIMITED
2274	35475	ADONIS APPARELS AND MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
2275	35500	SEVENTH SENSESOFTWARE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2276	35501	HI TRIM DKECORS PRIVATE LIMITED
2277	35511	HILL PARK GRANITES PRIVATE LIMITED
2278	35523	INTECH POWER UTILITIES(INDIA)LIMITED
2279	35530	R.A.R.P.CHITS PRIVATE LIMITED
2280	35531	PASSION FRUIT GARDENS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2281	35534	FACE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2282	35535	V V TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
2283	35540	APPLE FILMS PRIVATE LIMITED
2284	35552	VIJAYARATNA FARMS PRIVATE LIMITED
2285	35568	KELLEYS CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2286	35569	SREE MEERA CREATIONS PRIVATE LIMITED
2287	35589	NEW GOLDEN RESORTS PRIVATE LIMITED
2288	35590	THIRUVICRAMAN CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2289	35593	K. T. N. SEA FOODS PRIVATE LIMITED
2290	35595	DEEPAK BUILDERS PRIVATE LIMITED
2291	35602	CMS SHIPPING PRIVATE LIMITED
2292	35613	C. P. N. CHIT PRIVATE LIMITED
2293	35615	HITECH LAMPS PRIVATE LIMITED
2294	35618	PERAMBUR POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
2295	35625	MONACH ENGINEERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2296	35627	FIDEE FILTER PRIVATE LIMITED
2297	35631	SAAR EXPDRTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
2298	35632	QUALITY CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2299	35656	ATLANTIC COURIERS PRIVATE LIMITED
2300	35668	ASWIN KNITWEARS EXPORTERS PRIVATE LIMITED
2301	35669	ARUL TRADES & EXPORT PRIVATE LIMITED
2302	35678	ROMALA EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED
2303	35680	SACHIYA SYNTEX PRIVATE LIMITED
2304	35700	GOOD SHEPHERD GOATS PRIVATE LIMITED
2305	35708	SARAVANA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2306	35735	SURYA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2307	35758	RASI ENERGY SYSTEM (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2308	35778	KASGO FOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED
2309	35779	MAYURA TOURS AND TRAVELS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2310	35780	AARTI EXPORTS PRIVATE LIMITED
2311	35784	BOMMADECH AGRO PRIVATE LIMITED
2312	35795	HOTEL KODAI BREEZE PRIVATE LIMITED
2313	35797	BEST BOND WELDING RODS PRIVATE LIMITED
2314	35808	VAJARA ROCK PRIVATE LIMITED
2315	35823	KARTHIC QUARIES PRIVATE LIMITED
2316	35830	ENCAR CHITS PRIVATE LIMITED
2317	35836	KAYEH MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
2318	35843	GENSTAR POWER INDIA LIMITED
2319	35855	SNOBOL COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2320	35856	PC TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2321	35861	NELSON CLUBS & RESORTS PRIVATE LIMITED
2322	35869	UNGAL CHITS PRIVATE LIMITED
2323	35879	SOWHARDA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2324	35889	CHAZ FURNITURE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2325	35901	SUMUKTHA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2326	35906	PRABHA HOMES PRIVATE LIMITED
2327	35912	FOUSIYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2328	35918	VASANTHA BOOMI PROMOTERS PRIVATE LIMITED
2329	35937	MAHA EXPORT PRIVATE LIMITED
2330	35946	PUSHPA CHITS(MADRAS)PRIVATE LIMITED
2331	35947	MC CARTHY COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
2332	35948	L.SAKKARAM TEXTILE PRIVATE LIMITED
2333	35968	AMOGA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
2334	35970	A T LEATHER & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2335	35976	JMK RESORTS AND PROJECTS (INDIA)PRIVATE LIMITED
2336	35981	HIKMA MEDICALS PRIVATE LIMITED
2337	35989	SRI DURGA CABS PRIVATE LIMITED
2338	35997	IN-TOON ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
2339	36007	SUPRIYA SUSPENSION PRODUCT PRIVATE LIMITED
2340	36009	NAVARATHINA LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
2341	36017	RAJVIJAY PROPERTIES & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
2342	36025	GANESH DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
2343	36029	SHOLINGHUR LIVESTOCK COMPANY PRIVATE LIMITED
2344	36032	UDHAYAM FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2345	36042	RICHES & CLIFF ADVERTISING AND COMMUNICATIONS LIMITED
2346	36047	NU-PRO FOODS PRIVATE LIMITED
2347	36054	VICTORY CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2348	36062	YANTRA GRAPHICS PRIVATE LIMITED
2349	36067	TANGENT MARKETING NETWORK PRIVATE LIMITED
2350	36079	G.C.P.CREDITS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
2351	36080	CALVIN HOMES PRIVATE LIMITED
2352	36081	P N K TRADES PRIVATE LIMITED
2353	36084	VANGUARD POWER PRIVATE LIMITED
2354	36088	CLASSIC MILK FOOD LIMITED
2355	36089	S.S.EQUITES PRIVATE LIMITED
2356	36090	NOVENA FOODS AND PROTEINS PRIVATE LIMITED
2357	36092	AYYA THUNAI BODY BUILDERS PRIVATE LIMITED
2358	36099	VSM FLORI EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
2359	36120	SOLETTI BHADRA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2360	36121	MAXWELL AMUZES & GREEN LAND PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2361	36123	SOLETTI BHADRA POLYMERS PRIVATE LIMITED
2362	36133	SREE VIGNAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2363	36137	JEWEL MONARCH PRIVATE LIMITED
2364	36151	OCEANIS RESORTS MADRAS PRIVATE LIMITED
2365	36156	MERCURY INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
2366	36172	DEVANESAN FARMS PRIVATE LIMITED
2367	36179	MUTHURAJ CHITS PRIVATE LIMITED
2368	36180	BREEZE CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2369	36185	TONY ADVERTISING PRIVATE LIMITED
2370	36190	KUMBHA STOCKS & BONDS PRIVATE LIMITED
2371	36198	KORIN PLASTICS PRIVATE LIMITED
2372	36204	SRIRAJ MINERALS & GRANITES PRIVATE LIMITED
2373	36205	ADAPT ADVERTISING PRIVATE LIMITED
2374	36209	NOVENA PRESS LIMITED
2375	36223	SUN ESTATE (KODAI) PRIVATE LIMITED
2376	36224	HELAN-RUBAN HORTICULTURES COUNTRY CLUB LIMITED
2377	36225	NEW-ED PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS LIMITED
2378	36230	SRINIVAS PROMOTERS PRIVATE LIMITED
2379	36245	MAXWORTH TOWNSHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
2380	36255	SUMOLEXPIRES PRIVATE LIMITED
2381	36271	V.L.B.CHITS PRIVATE LIMITED
2382	36280	LAXMI COLOR CRAYONS PRIVATE LIMITED
2383	36285	CHECK-IN TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED
2384	36289	LOTUS ROADWAYS LIMITED
2385	36305	KARPAGA VINAYAGAR EXPORTS & IMPORTS PVT LTD
2386	36313	KODAI TEMPLE TOWER FARMS & RESORTS PRIVATE LIMITED
2387	36330	TAURUS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2388	36338	ZURICH EXPORTS PRIVATE LIMITED
2389	36345	ABD TRADE LINK INDIA PRIVATE LIMITED
2390	36349	FINAMAN HOLDINGS LIMITED
2391	36362	VELANGANNI RESORTS PRIVATE LIMITED
2392	36367	MANGALAM FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2393	36380	SOUTHERN PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2394	36393	KATHIRAVAN HOTELS AND RESORTS AND PRIVATE LIMITED
2395	36396	S.S.V. CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2396	36397	FAB LEATHER GARMENTS PRIVATE LIMITED
2397	36403	NANAYAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2398	36407	PRINCE GREENLAND FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2399	36415	ZENITH ROYAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
2400	36451	LIFETRUST ORCHARDS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2401	36457	ADITHYA SAI DEV EXPORTS PRIVATE LIMITED
2402	36466	KLASSIC CARDS PRIVATE LIMITED
2403	36473	ABLE BULK MAILERS PRIVATE LIMITED
2404	36477	J.T.H.STEEL & WIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2405	36483	SRI BALAJI PROCESS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2406	36491	SRI KRISHNA PROPERTIES MADRAS PRIVATE LIMITED
2407	36494	SEVEN HILLS PICTURES PRIVATE LIMITED
2408	36505	P.R.K.ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2409	36509	MAXFLEX RUBBER PRIVATE LIMITED
2410	36534	MADRAS SOLAR AGRO PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
2411	36538	CHRY S EXPORTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2412	36539	DALAVOI RESORTS PRIVATE LIMITED
2413	36544	THANUSHIKA BUILDERS PRIVATE LIMITED
2414	36555	PANCHAVARNESHVARA CONSUMER SERVICES & SHOPPING NETWORK PVT. LTD.
2415	36576	THAYAMMA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2416	36577	CORE BIO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2417	36578	VAISHNAVI FARMS PRIVATE LIMITED
2418	36580	GNANARAJ RESORTS PRIVATE LIMITED
2419	36589	MOHAIDEEN ESTATES PRIVATE LIMITED
2420	36596	ARIVAHAM CHITS PRIVATE LIMITED
2421	36600	ROADMASTER AGENCIES PRIVATE LIMITED
2422	36601	SREE BRINDAVAN STEEL ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
2423	36605	HOTEL HOLIDAY INDIA LIMITED
2424	36613	BALIND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2425	36628	NIZAM AGENCIES & DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
2426	36631	SRI GURU THEATRES PRIVATE LIMITED
2427	36636	V J S ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2428	36651	V.K.R.REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
2429	36656	VASANTH RAM BUILDERS PRIVATE LIMITED
2430	36659	CAROL LEATHERS PRIVATE LIMITED
2431	36666	MERCY EXPORT & IMPORT PRIVATE LIMITED
2432	36672	MEDITEX HUMAN RESOURCES LIMITED
2433	36696	M.D.V. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2434	36701	INTORMED LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2435	36703	MEGASTONE SHELTERS PRIVATE LIMITED
2436	36704	VAMSHEEDAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2437	36713	MAPS HOUSING PRIVATE LIMITED
2438	36715	CROM ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
2439	36716	PUSHPAM SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
2440	36735	KAYEM KNITTERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2441	36742	SRI HAYAGREEVAA BUILDERS PRIVATE LIMITED
2442	36743	THILLAI SURA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2443	36747	CANNY IMPEX PRIVATE LIMITED
2444	36754	BALASS INFORMATIC CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
2445	36757	VRUKSHA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2446	36764	VRUKSHA CARS LIMITED
2447	36768	SHINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2448	36785	DEVASENA DEVELOPERS & ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2449	36791	KEWAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2450	36807	MALAR FINANCIAL CONSULTANTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2451	36813	NOAH BUILDERS & PROMOTERS PRIVATE LIMITED
2452	36822	K.A. SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2453	36823	ENMAARCK BUILDERS PRIVATE LIMITED
2454	36832	KODAI GATE RESORT HOTELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2455	36838	BEST SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2456	36849	EXCEL EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED
2457	36852	ENIMAI HOMES INDIA PRIVATE LIMITED
2458	36857	SHRIDWARAKAMAI PROPERTIES (INDIA) LIMITED
2459	36862	SCADDS NUCLEUS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2460	36874	MADRAS KLASSIK ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2461	36877	ESHAN HOLDING LIMITED
2462	36879	LEVIN POLYMERS PRIVATE LIMITED
2463	36906	MACHFAB ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2464	36910	SHAKILAA SHIPPING CARGO SERVICE PRIVATE LIMITED
2465	36915	SOUTH INDIAN REAL ESTATE COMPANY (MADURAI) PRIVATE LIMITED
2466	36923	TGT CHITS PRIVATE LIMITED
2467	36927	OASIS GOAT FARMS PRIVATE LIMITED
2468	36934	INVESTMENT ENTERPRISES INDIA LIMITED
2469	36935	SREE NTN CHITS PRIVATE LIMITED
2470	36955	DIGITAL MAGIC MULTIMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2471	36957	AMITY RUBBER MOLDINGS PRIVATE LIMITED
2472	36974	JEYAMANGALA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2473	36975	SILATTUR SHRI RAM AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
2474	36984	HUNDIYAL AGRO PRODUCTS LIMITED
2475	36985	M K HOLDINGS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2476	36991	IMPERIAL GOLD HOUSE PRIVATE LIMITED
2477	36994	KODAI GAYATHRI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2478	37002	SCENARIO SOFTCOM PRIVATE LIMITED
2479	37003	M.T KANNAN HARI AGRO FARM PRIVATE LIMITED
2480	37004	SEABLUE NETS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2481	37005	BARIDHRA AND HASIT LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2482	37013	INLAND MENFORCES & BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2483	37015	MASHA GRANITES & MINERAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
2484	37017	PUREJENTA JEWEL CREST PRIVATE LIMITED
2485	37019	MAHARATH IMPEX PRIVATE LIMITED
2486	37020	SREE MEENAKSHI FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2487	37032	ANSH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
2488	37036	CHERAN SIGNS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2489	37041	SHARADA INSTITUTE OF MARKETING MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2490	37047	THIRUMURUGA CHIT FUNDS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2491	37055	VAIJEYANTHY FINE APPARRELS PRIVATE LIMITED
2492	37057	GOLDEN HARVEST AGROFARM (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2493	37059	SUBHLAKSHMI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2494	37076	SRI MEENAKSHISUNDARAM MILLS PRIVATE LIMITED
2495	37077	SHANRAJ AGRO FOODS LIMITED
2496	37084	MELIOR EXPORT PRIVATE LIMITED
2497	37086	SEINE SEIZURES AND WARE HOUSING PRIVATE LIMITED
2498	37088	NASHAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
2499	37098	SOUTHEAVEN PROPERTY DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
2500	37099	ROCKWARE EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
2501	37137	DYNA-COMP INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2502	37138	CHENNAI ESTATES & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2503	37143	FLARE TRADERS PRIVATE LIMITED
2504	37157	VASANTHAVANA FARM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
2505	37158	FLYWORLD TRAVELS PRIVATE LIMITED
2506	37172	ARCTIC AIR ENGINEERS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
2507	37173	SUVA DHARMA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2508	37176	VITAL CARE PRIVATE LIMITED
2509	37177	LAKSHMI GOLD ORNAMENTS PRIVATE LIMITED
2510	37185	VST FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2511	37186	LOCUS CLASSICUS AVIATION PRIVATE LIMITED
2512	37192	NAVKAAR AGRO & RESORTS PRIVATE LIMITED
2513	37214	UCFS CARGO (INDIA) PRIVATE LIMITED
2514	37237	COYATES TEXTILES MILLS PRIVATE LIMITED
2515	37238	VIVA BASKAR ENTERPRISES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2516	37274	ATHIRAI CHITS PRIVATE LIMITED
2517	37286	ORIGIN CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2518	37297	RICH ORCHARDS AND PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
2519	37315	CHENNAI COURIERS PRIVATE LIMITED
2520	37343	DEVSAN PLANTATIONS AND DEVELOPERS (INDIA) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2521	37373	K.M. SILK EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2522	37391	VISWARAJ CHITS PRIVATE LIMITED
2523	37401	COGNDSCENTI FIN SERV PRIVATE LIMITED
2524	37419	PRECHEL TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
2525	37427	TAURUS MEDI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2526	37446	DYNASTY FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2527	37489	MINAKSHI REALTORS & PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2528	37493	ROMEL (INDIA) LIMITED
2529	37500	JAI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2530	37502	TARUN SHOPPING NETWORK PRIVATE LIMITED
2531	37504	REHNA SEAFOODS EXPORTS PRIVATE LIMITED
2532	37516	VICTORY BAKES PRIVATE LIMITED
2533	37520	ANNAI PLASTIC PRIVATE LIMITED
2534	37521	VIGNESWARA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
2535	37523	SOLAR SHADE NETS PRIVATE LIMITED
2536	37527	PRAJA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
2537	37528	J.V.M. CONTAINERS PRIVATE LIMITED
2538	37534	DYNAMIC FABROTECH PRIVATE LIMITED
2539	37535	BABURAJ BUILDERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
2540	37540	PICCADILLY CLUB & RESORTS (CHENNAI) LIMITED
2541	37546	KMR EXIM PRIVATE LIMITED
2542	37553	MAGNIFICENT SHEET METAL PRIVATE LIMITED
2543	37561	CHENNAI CHEMTEK WATER PROOFING PRIVATE LIMITED
2544	37574	DECORATIVE CREATIONS PRIVATE LIMITED
2545	37578	THANGAMALAR FILM PRIVATE LIMITED
2546	37595	A & A GRANITES PRIVATE LIMITED
2547	37600	S & C GEARS PRIVATE LIMITED
2548	37608	YUVA BHARATHY CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
2549	37628	ESWAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2550	37644	CHINPET POLYMERS PRIVATE LIMITED
2551	37651	ZAC FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2552	37671	INDO-AMERICAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
2553	37672	GRIHA LAKSHMI CHITS PRIVATE LIMITED
2554	37694	AYYANAR PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
2555	37703	N.P.R. ENGINEERS AND FABRICATORS PRIVATE LIMITED
2556	37704	SHREE BOOMADHEVI CHIT PRIVATE LIMITED
2557	37706	SUN SWEET HOMES (MADURAI) PRIVATE LIMITED
2558	37777	ARTHI IMPEX (INDIA) LIMITED
2559	37779	BAGAVATHI HOMES INDIA PRIVATE LIMITED
2560	37798	VIS A.VIS ADVANCED ADVERTISERS (INDIA) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2561	37831	UDHAYAM COURIERS PRIVATE LIMITED
2562	37835	REGENCY SQUARE EXPORTS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2563	37836	FAIR DEAL FOREX SERVICES PRIVATE LIMITED
2564	37867	OSBORNE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2565	37881	S.J.GARMENTS EXPORTS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2566	37890	INFOLABS SOFTWARE LIMITED
2567	37893	ASHIRWAD FOODS PRIVATE LIMITED
2568	37899	MOTHER MIRAA INFOTECH PRIVATE LIMITED
2569	37900	NIVAS COMPUTERS TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
2570	37915	MOTHER EARTH FARMS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
2571	37916	BARAKATH TOURS & TRAVELS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2572	37917	DEEPHOLE DRILLING SYSTEMS AND TOOLS PRIVATE LIMITED
2573	37919	PAANUM MANPOWER & EXPORTS PRIVATE LIMITED
2574	37924	SASUKI AGRO FARMS & RESORTS LIMITED
2575	37941	ACES EXPORTS PRIVATE LIMITED
2576	37953	SUN-GLOW EXPRESS COURIER PRIVATE LIMITED
2577	37958	ARIES RESORTS PRIVATE LIMITED
2578	37960	RJ & R POWER APPLIANCES PRIVATE LIMITED
2579	37969	G.P.R. MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
2580	37978	SKY SEA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2581	37992	HARI BRICK PRIVATE LIMITED
2582	37993	EBENEZER CALCIUM PRIVATE LIMITED
2583	38006	LAKSHMI MONEYGROW INDIA LIMITED
2584	38020	FIELD POINT ELECTRICAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2585	38031	ANUGA FOODS PRIVATE LIMITED
2586	38070	J.R. AGRICULTURE & ENGINEERING PROJECTS PRIVATE LIMITED
2587	38084	SURYA GANGAI CHITS MADRAS PRIVATE LIMITED
2588	38088	AMOZA TRAVEL SERVICES (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2589	38095	SYLVAS AGROTECH PRIVATE LIMITED
2590	38102	LEYNA TRAVELS PRIVATE LIMITED
2591	38106	PUTHUKKOTTAI SRI SUBA MANGALA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2592	38111	SUKRA BUILDTECH INDIA PRIVATE LIMITED
2593	38113	MARUTI INFOTECH & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
2594	38117	IDEAL CHICK MEAT PACKERS PRIVATE LIMITED
2595	38133	ASTRAA LEATHERS PRIVATE LIMITED
2596	38142	KADARKARAI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2597	38162	BETHEL INTERNATIONAL LEASING AND FINANCING SERVICES PRIVATE LIMITED
2598	38163	TIRUNELVELI AGRO DEVELOPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
2599	38167	CHENNAI KRISHNA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2600	38177	RARR PROMOTERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2601	38179	SUPER MARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
2602	38185	ARIVALAYA CHITS PRIVATE LIMITED
2603	38193	KALANDI EXPORT PRIVATE LIMITED
2604	38195	HEATMECH AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
2605	38201	VIJAYABANU EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
2606	38223	ARCHANAA ENTERPRISE (THENI) PRIVATE LIMITED
2607	38225	IRSHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2608	38227	SRI MARUTHI AGENCIES PRIVATE LIMITED
2609	38253	TARA STAR EXPORTS PRIVATE LIMITED
2610	38273	P.D. MATHAI MILK & DAIRY PRODUCTS (PVT) LIMITED
2611	38279	HENROCK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2612	38282	M.M. GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED
2613	38285	LOYAL MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2614	38295	SUKI EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2615	38297	FORTE IMPORTS & EXPORTS CHENNAI PRIVATE LIMITED
2616	38320	GOWRI PADMAM CHITS PRIVATE LIMITED
2617	38346	HOT-LINE MARKETING (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2618	38347	TORAEITO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2619	38359	HI-TECH METALWARE INDIA PRIVATE LIMITED
2620	38362	SRI JAYAGANAPATHY CHITS PRIVATE LIMITED
2621	38363	FISONS DATA FORMS PRIVATE LIMITED
2622	38380	SASTHA MINERAL WATER PRIVATE LIMITED
2623	38387	VIBRO HYDRAULIC EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
2624	38403	P.D.R. FOODS PRIVATE LIMITED
2625	38411	DIPLOMAT COUNTRY CLUB PRIVATE LIMITED
2626	38417	SHANJHO CATERER PRIVATE LIMITED
2627	38418	BAMBINO LAKE VIEW PARK HOTEL AND RESORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2628	38422	TAB EXPORT AND IMPORT PRIVATE LIMITED
2629	38425	FRONTIER FABRIC EXPORTS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2630	38426	SOUTH INDIA GOLF ADVENTURES PRIVATE LIMITED
2631	38427	OLYMPIC TOURS & TRAVELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2632	38428	SWARNA BHOOMI CHITS PRIVATE LIMITED
2633	38430	PEGASUS INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
2634	38431	ACUITY MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
2635	38437	VENKATARAMANAA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2636	38444	PETHHU POLY PIPES PRIVATE LIMITED
2637	38458	V G I (INDIA) PRIVATE LIMITED
2638	38460	QUALITY COAL PRIVATE LIMITED
2639	38477	GIANT CRUSHERS PRIVATE LIMITED
2640	38483	S.P.J. AIR TRAVEL AGENCY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2641	38497	RAJEEV FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2642	38500	M.N.K.RUBBERS PRIVATE LIMITED
2643	38509	VIBGYOR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
2644	38510	TECHNOSOFT SYSTEMS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2645	38526	KALI SYSTEMS ENGINEERING INDIA LIMITED
2646	38535	CHEMSERV AUTOMATION PRIVATE LIMITED
2647	38552	ANBUKAVERI PROMOTERS PRIVATE LIMITED
2648	38554	JAYASREE CHITS (KANYAKUMARI) PRIVATE LIMITED
2649	38611	CREATIVE BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2650	38618	YUCCA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2651	38632	SUN BEAM AGRI-TECH FARM & RESORTS PRIVATE LIMITED
2652	38633	SITHI MASALA PRIVATE LIMITED
2653	38646	VIBGYOR GRANITES PRIVATE LIMITED
2654	38651	SUJANA HOTELS PRIVATE LIMITED
2655	38667	DRAVIDAR FARMS PRIVATE LIMITED
2656	38671	WEB INFOTECH PRIVATE LIMITED
2657	38672	A.R. COFFEE PRIVATE LIMITED
2658	38673	COASTERS HIND ADVERTISING PRIVATE LIMITED
2659	38685	ROLAND PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2660	38686	RCS CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2661	38689	TDP NOTCH MARKETING AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
2662	38702	V.K.R. MARKETING PRIVATE LIMITED
2663	38704	MAHARATH MARINE PRIVATE LIMITED
2664	38705	VARDHAMAN CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
2665	38724	HAPPY HOME CONSTRUCTIONS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2666	38728	INDHRA STONES PRIVATE LIMITED
2667	38740	APM TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
2668	38742	MICROTECH INDUSTRIES (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2669	38752	BOHRA TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
2670	38753	SRI ANDAL TANNERS PRIVATE LIMITED
2671	38759	ALICE & CHARLES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2672	38763	CHENNAI MULTI TRADING PRIVATE LIMITED
2673	38764	NATARAJ AND SUPRIYA SHARES PRIVATE LIMITED
2674	38774	TRUMP CHITS PRIVATE LIMITED
2675	38782	SAFELEC COMPONENTS PRIVATE LIMITED
2676	38789	VMR ESTATES PRIVATE LIMITED
2677	38793	FAIRWAY & COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED
2678	38794	HARAN'S PERFECT MATCHINGS PRIVATE LIMITED
2679	38795	OPPILI HI-TECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2680	38803	LAKSAR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2681	38804	ALL SEASONS TOURS & TRAVELS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2682	38811	SATTUR SRI SELVAMURUGAN CHITS PRIVATE LIMITED
2683	38815	GP IND-EURO INTERNATIONAL COMPANY PRIVATE LIMITED
2684	38822	NADHASHA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2685	38828	NITTY TRAVELS AND TRADES PRIVATE LIMITED
2686	38842	DEEPIKA DAIRY MILK PRIVATE LIMITED
2687	38877	ARUMAI APPATHANGAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2688	38886	SOUTH ASIAN TRADE PRIVATE LIMITED
2689	38896	SINGARA THOTTAM FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
2690	38898	NANDHINI PARVACH OVERSEAS SERVICES PRIVATE LIMITED
2691	38901	SRI VARI GHRAHASEVA PRIVATE LIMITED
2692	38904	SRI DEVPRIYAN EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED
2693	38912	CONQUER EXPORTS PRIVATE LIMITED
2694	38921	S.P.J. SUN SHIPPING & CLEARING PRIVATE LIMITED
2695	38922	SAI VINAYAGA TRAVELS PRIVATE LIMITED
2696	38926	TELEFIELD SERVICES (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2697	38934	SUN POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2698	38937	AVT FOREX INDIA PRIVATE LIMITED
2699	38955	SWETALAKSHMI EXPORTS PRIVATE LIMITED
2700	38957	GOODLUCK ABRASIVES CHENNAI PRIVATE LIMITED
2701	38968	NIZAC MAGNETICS PRIVATE LIMITED
2702	38972	LOTUS ALLOYS PRIVATE LIMITED
2703	38973	ROHIE INVESTMENT & SECURITIES PRIVATE LIMITED
2704	38981	EXCELLENT TRADING (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2705	38983	ALERT TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
2706	38986	D.K. & SONS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2707	38987	CORNER STONE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2708	38988	SAAGI HOMES PRIVATE LIMITED
2709	38993	MADURAI MEENAKSHI HERITAGE PARKS PRIVATE LIMITED
2710	38994	SRIRAMDEV MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
2711	38998	DAFFODILS ESTATES & RESORTS (KODAIKANAL) PRIVATE LIMITED
2712	39000	TOPLINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
2713	39007	FORTUNE HOMES INDIA LIMITED
2714	39015	JVS TRAVEL & TOURS PRIVATE LIMITED
2715	39021	SINGA PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2716	39022	BICASSA IMPEX PRIVATE LIMITED
2717	39034	SVN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2718	39035	INMA ELECTRONIC MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
2719	39064	SHABARI PHOTO CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
2720	39069	UTILITY FOODS AND FACILITIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2721	39072	V K TOOLS PRIVATE LIMITED
2722	39109	ARUNA STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
2723	39113	ELYSIUM THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED
2724	39118	MEDICARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2725	39121	CISTECH CONSULTING PRIVATE LIMITED
2726	39130	BERG EXPORTS PRIVATE LIMITED
2727	39132	ARUNMATHI CHITS PRIVATE LIMITED
2728	39133	VIBGYOR METAL FORGING PRIVATE LIMITED
2729	39142	ELAKIYA FOODS PRIVATE LIMITED
2730	39143	PMS MINES PRIVATE LIMITED
2731	39147	JERRY TEC PRIVATE LIMITED
2732	39168	T.R.B EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2733	39177	JEHOVAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2734	39178	APTOP MACHINE MATRIX PRIVATE LIMITED
2735	39182	A - ONE SHEEP FARMS PRIVATE LIMITED
2736	39188	CEMENT BRICKS INDIA PRIVATE LIMITED
2737	39203	ASIAWIDE RESOURCES PRIVATE LIMITED
2738	39214	GREENWAYS MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
2739	39217	SUPER BRICKS PRIVATE LIMITED
2740	39228	SABARI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
2741	39238	ROSE COMPCOM PRIVATE LIMITED
2742	39241	SACS CONCRETE PILES PRIVATE LIMITED
2743	39251	PAVITRA REALTORS PRIVATE LIMITED
2744	39254	JAGADHGURU CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2745	39273	DM EXCEL ENGINEERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2746	39316	SRISAILAM AGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED
2747	39322	BHARANI AGRO PRIVATE LIMITED
2748	39341	NAGAI RESORTS PRIVATE LIMITED
2749	39350	VAIGAI IMPEX PRIVATE LIMITED
2750	39352	THIRUMALAI BALAJI CHITS PRIVATE LIMITED
2751	39373	INFOSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2752	39381	KADATHANAD CHITS PRIVATE LIMITED
2753	39405	SHRAVAN APPARELS PRIVATE LIMITED
2754	39412	CHRIST EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
2755	39421	SHRI MAHAGANAPATHY STDCKS PRIVATE LIMITED
2756	39422	MILLENIUM FARMS AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2757	39428	KANNATHA CHITS PRIVATE LIMITED
2758	39429	MAXELL PROPERTIES & MAINTENANCE PRIVATE LIMITED
2759	39435	RHOMBUS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2760	39439	VINAYAGA VISION PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2761	39447	NETWORK AUTOMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2762	39451	HORIZON CHEMICAL COLOUR COMBINES PRIVATE LIMITED
2763	39453	GREEN PEACE TRAVELS PRIVATE LIMITED
2764	39455	AEGIS AZANIM PRIVATE LIMITED
2765	39458	VISVA BLINDS PRIVATE LIMITED
2766	39484	SKL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2767	39485	SEPROS INSTITUTE OF FIRMWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2768	39487	GR CONCRETE BLOCKS PRIVATE LIMITED
2769	39514	VGL TIME BOUND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
2770	39540	PRS SOFTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
2771	39548	MANNA EXPORTERS PRIVATE LIMITED
2772	39556	CSMA SYSTEMS & SOLUTION PRIVATE LIMITED
2773	39558	VIJAYALAKSHMI HOME BUILDERS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2774	39572	EUREKHA HATCHERIES PRIVATE LIMITED
2775	39578	AL-IBRAHIM AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
2776	39580	MEGASTONE RESORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
2777	39587	SHIVSHAKTI POWERCHEM PRIVATE LIMITED
2778	39598	GEMS CAMBIO PRIVATE LIMITED
2779	39617	EDWIN CHITS PRIVATE LIMITED
2780	39618	NARASIMHA CARTO PACK PRIVATE LIMITED
2781	39624	PROPDROME PROPERTY SERVICES PRIVATE LIMITED
2782	39643	ALFSCA MIRA BIO-TECH PRIVATE LIMITED
2783	39657	SPEED FOREX INDIA PRIVATE LIMITED
2784	39658	RAHEM FOREX INDIA PRIVATE LIMITED
2785	39661	CANARY CLOTHING PRIVATE LIMITED
2786	39662	SRI SIDHI VINAAYAGA CHITS PRIVATE LIMITED
2787	39673	SELVASHRAM CHITS PRIVATE LIMITED
2788	39679	SOFTPRO INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2789	39680	JG DURAMETAL INDIA PRIVATE LIMITED
2790	39686	SEPTAGON CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
2791	39689	GURU DHARSHAN HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED
2792	39692	PERFECT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2793	39693	VINTECH COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2794	39702	NEETI LIFTS PRIVATE LIMITED
2795	39710	HARSHINI CONSTRUCTIONS & PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2796	39720	SRI VASANTHKAVERI CHITS PRIVATE LIMITED
2797	39739	ATHREYA IMPEX PRIVATE LIMITED
2798	39771	LAR SHARES PRIVATE LIMITED
2799	39774	QUAKER FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2800	39778	SATYASARADHA CHITS CHENNAI PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2801	39786	SHINGHA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
2802	39787	AKSM ROCK INDIA PRIVATE LIMITED
2803	39791	WAHAR INFOTECH PRIVATE LIMITED
2804	39808	CHIND FARM EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
2805	39813	BUILDMAAN FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
2806	39817	R.R. SHELL CRAFTS PRIVATE LIMITED
2807	39825	AL - AZIZ BROILER FARMS PRIVATE LIMITED
2808	39830	SESH MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
2809	39852	KALBROS SERVICES PRIVATE LIMITED
2810	39866	AZRA OVERSEAS MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
2811	39871	ORGANIC SENNA PRODUCERS PRIVATE LIMITED
2812	39879	MULTIPLE MARKETING PRIVATE LIMITED
2813	39882	SIRA INFOSIS PRIVATE LIMITED
2814	39889	DICKSEN DATES PRIVATE LIMITED
2815	39890	DHARMA THERMOCOOL PRIVATE LIMITED
2816	39904	PALLAVA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2817	39914	PILLARS BUILDERS PRIVATE LIMITED
2818	39918	DWARAKANAGAR DEPARTMENTAL STORES PRIVATE LIMITED
2819	39921	KIRTHIKA POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
2820	39926	HEAVENLY LOTUS CHEM TECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2821	39950	AAKRUTI PHARMA PRIVATE LIMITED
2822	39963	PRASANNA PRINTOGRAAPHS PRIVATE LIMITED
2823	39968	S.K. (CABS) PRIVATE LIMITED
2824	39973	MPN WEBCITY COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
2825	39975	J.N.OILS & LABORATORIES PRIVATE LIMITED
2826	39981	CHENNAI SYSTEMS & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2827	39995	TANCHEM PETRO LIMITED
2828	40003	POTHIGAI TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
2829	40005	COMPONENT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2830	40009	OM MURUGAA MANDIRAM SPINNING MILLS LIMITED
2831	40021	SHRIDI SAI MAHARAJ MARKETING SERVICES EXCHANGE PRIVATE LIMITED
2832	40023	VISHAL CLOTHINGS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
2833	40024	GANGA SILVER STREAM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
2834	40030	HOTEL TARUN INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2835	40037	JAYANTHI HOTELS PRIVATE LIMITED
2836	40040	KVR FOODS AND SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
2837	40053	SARAFIN MEDIPLANTS PRIVATE LIMITED
2838	40058	NOVA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2839	40074	NATARAJA HOLDINGS AND INVESTMENTS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
2840	40078	A.R.FARMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2841	40097	R.P.K.PLANTERS PRIVATE LIMITED
2842	40124	PERFECT LINK SERVICES PRIVATE LIMITED
2843	40136	GRAPHIC EFFECTS AND ANIMATION TECHNICS INDIA PRIVATE LIMITED
2844	40140	KADIRAVAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2845	40145	PRIYA ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
2846	40146	SHRIDI ANDAVAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2847	40150	NANDHIKESWARA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2848	40156	VENNILA RESTAURENTS PRIVATE LIMITED
2849	40158	KONAR FARMS PRIVATE LIMITED
2850	40164	RIGHTSEARCH HRD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2851	40170	VEEYES HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2852	40185	SANPRA AGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED
2853	40192	NAMAKKAL DAIRY PRIVATE LIMITED
2854	40194	MARKOORIOSE SEA FOODS PRIVATE LIMITED
2855	40200	MAAESTRO PRODUCTION PRIVATE LIMITED
2856	40204	NILAU SHIPPING PRIVATE LIMITED
2857	40206	SRI AYAPPAN AGRO TECH PRIVATE LIMITED
2858	40207	VEERAM DOORSTEP SUPPLY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2859	40218	VIKRISAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2860	40230	JAYAMUTHU CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2861	40233	CAPLEO FASHIONS PRIVATE LIMITED
2862	40240	GEETEEAAR GOLDEN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2863	40251	HAPPY RESIDENCY PRIVATE LIMITED
2864	40258	ROCKMINE GRANITE PRIVATE LIMITED
2865	40260	GRACE FREIGHT FORWARDERS PRIVATE LIMITED
2866	40268	ECLAT INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
2867	40274	AL-SABAH IMPEX PRIVATE LIMITED
2868	40286	JAGARAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2869	40289	PEGASUS SOFTTECH PRIVATE LIMITED
2870	40298	S & D MAN POWER SUCCESSFUL SERVICES PRIVATE LIMITED
2871	40304	VEERAM INNOVATIVE INFORMATION AND SERVICES PRIVATE LIMITED
2872	40316	BRS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
2873	40333	DHANALAKSHMI TEXTILE PROCESSORS PRIVATE LIMITED
2874	40336	SOVEREIGN IMPEX PRIVATE LIMITED
2875	40344	SHEEN FOUNDATION PRIVATE LIMITED
2876	40349	ORR ESS EMM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2877	40379	GKLC MINING AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
2878	40380	ROYSON EXPORTS PRIVATE LIMITED
2879	40384	VJ ORGANICS PRIVATE LIMITED
2880	40391	HERAMBA EXPORTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2881	40395	JAYSAKTHI AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
2882	40400	CYBER SERVICES PRIVATE LIMITED
2883	40402	CAITANYA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2884	40403	A.R.HOUSING AND AGRO FARM PRIVATE LIMITED
2885	40407	KOREAN FELT INDIA PRIVATE LIMITED
2886	40410	ARR THAMPOOL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2887	40411	RAYSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2888	40413	VESTA MARKETING & SERVICES PRIVATE LIMITED
2889	40419	THILLAI TEXTILES PRIVATE LIMITED
2890	40424	HOTEL SRIRAM NALLAMANI PRIVATE LIMITED
2891	40433	ORION VISION PRIVATE LIMITED
2892	40436	P.G.HIGH VALUE AGROTECH PRIVATE LIMITED
2893	40448	LOTUS PAINTS PRIVATE LIMITED
2894	40456	SHRI VAMAN SOFTWARES AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2895	40463	RK INFO TECH SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
2896	40470	ANNAI AUROBINDO SURGICAL PRIVATE LIMITED
2897	40478	VIMGRAASS SHIPPING SERVICE PRIVATE LIMITED
2898	40479	PRASANNA IMPORTERS & DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
2899	40483	GEE CEE AGENCIES PRIVATE LIMITED
2900	40493	TV MEDIA MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
2901	40495	OMEGA MARITECH EXPORTS PRIVATE LIMITED
2902	40498	CHENNAI TELEWORKING SERVICES PRIVATE LIMITED
2903	40504	PMF CHITS PRIVATE LIMITED
2904	40507	SUSGEE INFOTECH PRIVATE LIMITED
2905	40509	ACE TRAINS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2906	40517	ELEGANT CONSTRUCTIONS AND INTERIORS LIMITED
2907	40518	SPEED LINE SERVICES PRIVATE LIMITED
2908	40527	INRI MEDI & BIO-TECH PRIVATE LIMITED
2909	40546	VISAGAM CONSTRUCTIONS & CONTRACT PRIVATE LIMITED
2910	40569	CERTIFIED MARKETING SERVICES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2911	40581	SHA TELELINKS PRIVATE LIMITED
2912	40593	PRASANNA CEMENTS PRIVATE LIMITED
2913	40614	OWAISIA PETRO LINKS PRIVATE LIMITED
2914	40615	SIVANANDA CATTLE BREEDING AND EXPORT PRIVATE LIMITED
2915	40628	JUMBOO EXPRESS SERVICES PRIVATE LIMITED
2916	40644	INTELLIGENCE FOR GENERATING ADVANCE COMPUTER EDUCATION PVT. LTD.
2917	40664	VILAYIL CHITS (KUZHITHURAI) PRIVATE LIMITED
2918	40665	JAYDAV INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2919	40671	VISHAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
2920	40707	HEPTA EXIM PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2921	40724	VINO PAPER AND PLASTIC BOARDS PRIVATE LIMITED
2922	40735	FLEXIGLAS SHELTERS PRIVATE LIMITED
2923	40740	EAST FIELD ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2924	40745	ORBIT AIR LINKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2925	40747	DOLLA CANTIK TRADING PRIVATE LIMITED
2926	40752	RHC INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
2927	40758	R.M.K SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2928	40766	HANUMAN MANPOWER CONSULTANTS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
2929	40774	RAMSON DISTELLERIES PRIVATE LIMITED
2930	40777	QBA ITCOM PRIVATE LIMITED
2931	40785	SANPAK SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2932	40787	RAJALAKSHMI PILGRIMAGE PRIVATE LIMITED
2933	40793	AGRIMA AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2934	40799	SNOW ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
2935	40805	TELFIN MOTORS PRIVATE LIMITED
2936	40812	METRO LABORATORIES CHENNAI PRIVATE LIMITED
2937	40824	VENKATESWARA PHONES PRIVATE LIMITED
2938	40838	SEA BREEZEE EXPORTS PRIVATE LIMITED
2939	40854	GAUTAMS OFFSET PRIVATE LIMITED
2940	40862	MUTHATHAL TEXTILE PRIVATE LIMITED
2941	40863	AEROSTAR EXPRESS PRIVATE LIMITED
2942	40868	PROFESSIONAL HEALTH CARE EDUCATION PRIVATE LIMITED
2943	40875	N & N AGRICULTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED
2944	40877	SREE SAKTHI AGRO FARM PRIVATE LIMITED
2945	40880	DIGITNET INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
2946	40885	ELANSABA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
2947	40886	BARUNI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
2948	40887	PET ASIA PRIVATE LIMITED
2949	40900	VEL VALVES PRIVATE LIMITED
2950	40925	YUPPIES COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2951	40935	KIMBER & PARKS INDIA LIMITED
2952	40940	EISENBERG AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
2953	40955	TEXNO ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
2954	40963	INCRAFT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2955	40969	ABOORVA MINERALS PRIVATE LIMITED
2956	40970	HARINATH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2957	40973	AMBADI DAIRY PRIVATE LIMITED
2958	40987	SRI VELAVAN PAPER & BOARD MILLS PRIVATE LIMITED
2959	40995	SRINIVASA MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2960	41004	CHITRAA MIN-KEM PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
2961	41006	AANANDD CONSTRUCTIONS & ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2962	41040	RAM WATERONICS PRIVATE LIMITED
2963	41041	VELPRABHA SAGA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2964	41045	AVVAI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2965	41047	K.M.S. PLASTICS PRIVATE LIMITED
2966	41048	JAIVANTH FOODS PRIVATE LIMITED
2967	41051	PRANA EXPORTS PRIVATE LIMITED
2968	41055	PENTA DESIGNS PRIVATE LIMITED
2969	41056	JABSK COMPTech PRIVATE LIMITED
2970	41059	ESKAYEN SERVICES PRIVATE LIMITED
2971	41076	VEL MURUGA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
2972	41101	G.S. ENTERTAINMENT CENTER PRIVATE LIMITED
2973	41102	PREM PACKAGING AND TRADING PRIVATE LIMITED
2974	41107	BAY ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2975	41111	RANDHAN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2976	41129	KARUR ALLWA AGRO FARM PRIVATE LIMITED
2977	41139	TRIMAX ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2978	41154	RAJCO TRAVELS LIMITED
2979	41180	SRI RAJA RAJESWARI GEMS PRIVATE LIMITED
2980	41182	GDODDAY CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2981	41186	GOVINDARAJ TRADING PRIVATE LIMITED
2982	41202	THILLAI RAJAN REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
2983	41214	G.V.K. FOOD PROCESSORS AND EXPORTERS PRIVATE LIMITED
2984	41218	ALFRED ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
2985	41221	UNIGRAND POWER SERVICE PRIVATE LIMITED
2986	41236	SPARK INFORMATICS PRIVATE LIMITED
2987	41241	RAYAR SHIMA RESORTS PRIVATE LIMITED
2988	41244	VITTALSHA SILK PRIVATE LIMITED
2989	41251	TAI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2990	41255	JAYAGANDHI TEXTILES PRIVATE LIMITED
2991	41256	EUROLINK INTERNATIONAL TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
2992	41268	K.S.T. TEXTILES PRIVATE LIMITED
2993	41281	PREMIER TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED
2994	41287	KARTHIKEAN EXIM PRIVATE LIMITED
2995	41290	NICHE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
2996	41291	SUARNAREKHA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
2997	41295	ABLOY HANIL BUTTONS PRIVATE LIMITED
2998	41297	ESSYEN PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
2999	41298	HI-LINE GRAPHICS PRIVATE LIMITED
3000	41309	MAC JEY POLYMERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3001	41323	MAGESWARI'S AART OF WORLD PRIVATE LIMITED
3002	41328	INDUS HR CONSULTING PRIVATE LIMITED
3003	41329	S.S. ELECTRICAL CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
3004	41340	INTEGRATED SYNERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3005	41358	SILVER WINGS TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
3006	41388	DIAMOND INTERIDRS PRIVATE LIMITED
3007	41398	SAJIN COCONUT FIBRE PRIVATE LIMITED
3008	41400	KARTHIKEYAN SAGO FACTORY PRIVATE LIMITED
3009	41402	NEW KARPAGAM READYMADES PRIVATE LIMITED
3010	41419	ARMERLS MARKETING PRIVATE LIMITED
3011	41420	INTERSTITCH FASHIONS PRIVATE LIMITED
3012	41428	SPEED IMPEX PRIVATE LIMITED
3013	41446	SALUBRITY EXPORTS PRIVATE LIMITED
3014	41453	S.V.L.ACADEMY PRIVATE LIMITED
3015	41460	EBEL LEATHER GARMENTS PRIVATE LIMITED
3016	41467	MANTHRAA INNOVATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3017	41469	UNI-MET TREATMENTS PRIVATE LIMITED
3018	41476	WOMAN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3019	41479	CHAMP INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3020	41482	R.S.FILMS PRIVATE LIMITED
3021	41485	MIDAS CYBERCAFE PRIVATE LIMITED
3022	41490	HITCH HIKER RESORTS PRIVATE LIMITED
3023	41494	PRIDE INFOTECH PRIVATE LIMITED
3024	41496	SUN SIGHT PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3025	41514	UNIMAK AQUA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3026	41530	VENKATESWARA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
3027	41540	JAKKA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3028	41542	MOMENTUM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
3029	41547	EXACT AUTOMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3030	41560	SINEX IMPEX PRIVATE LIMITED
3031	41562	INNATE TRADE SERVICES PRIVATE LIMITED
3032	41565	DOSHI AND DOSHI WATCHES PRIVATE LIMITED
3033	41573	CITY SERVICES CARD PRIVATE LIMITED
3034	41591	PARVEEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3035	41805	WINSEE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
3036	41851	SIRADI FOODS PRIVATE LIMITED
3037	41867	ELANCHIAM NARAYANAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3038	41871	XPED CONSULTING PRIVATE LIMITED
3039	41875	METCO TRADING PRIVATE LIMITED
3040	41882	JEY ESS JEY HOLDINGS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3041	41887	MAALGUDI RESTAURANT PRIVATE LIMITED
3042	41910	FTS INFOTECH PRIVATE LIMITED
3043	41911	ACHU TOURS PRIVATE LIMITED
3044	41912	VEL TRAVELS PRIVATE LIMITED
3045	41930	JIJD AGENCIES PRIVATE LIMITED
3046	41933	KAVYA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3047	41937	JDMDN MARKETING PRIVATE LIMITED
3048	41945	DEE GEE AAR SOUND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3049	41946	NANMUGI MARKETING PRIVATE LIMITED
3050	41958	LAND-C EXPORTS PRIVATE LIMITED
3051	41977	RDYAL CONSTRUCTIONS AND INFRASTRUCTURE PVT Ltd
3052	41991	ZENTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3053	42003	IIST CDM PRIVATE LIMITED
3054	42008	CDRNICHE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
3055	42011	ASRAMM AGRO PRIVATE LIMITED
3056	42018	SAYAPUTIRAR CHEM PRIVATE LIMITED
3057	42019	SRI RENUGAMBAL COMPUTER ACADEMY PRIVATE LIMITED
3058	42052	NAHAR & NAHAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3059	42059	ANUBHAVAN IMPEX PRIVATE LIMITED
3060	42064	ASTHETIC INFOTECH PRIVATE LIMITED
3061	42078	DECDRBEES CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3062	42124	CHINNAMANUR SRI LAKSHMI NARAYANA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3063	42125	KELVIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3064	42140	VENUS P.U. FDAMS PRIVATE LIMITED
3065	42141	B.B. FILMS AND MASS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3066	42143	PASUMPDN GRAPHITES AND POWER COMPANY PRIVATE LIMITED
3067	42145	ACEEYES CINEARTS PRIVATE LIMITED
3068	42146	AMMU TRADERS PRIVATE LIMITED
3069	42157	MASA FIDEX PRIVATE LIMITED
3070	42160	JAYA EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3071	42175	A.H.BDGIS EXPORTS PRIVATE LIMITED
3072	42179	TECSDL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3073	42200	JAYARAM BUILDERS PRIVATE LIMITED
3074	42221	LAL SYRINGES MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
3075	42229	RDYAL FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
3076	42234	SUGIN REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
3077	42241	RATHINAM NADAR TRADING PRIVATE LIMITED
3078	42245	TDMRRDW'S TECHNOLOGY TODAY (INDIA) PRIVATE LIMITED
3079	42250	SEA SHORE MINERALS PRIVATE LIMITED
3080	42265	ASTRA REALTY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3081	42282	IIST INFOSYS LIMITED
3082	42286	T-SOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3083	42305	EMERALD SHIPPING SERVICES (SOUTH) PRIVATE LIMITED
3084	42363	GEMINI CYBER PRIVATE LIMITED
3085	42406	MORA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
3086	42411	SHARIEF LEATHER IMPEX PRIVATE LIMITED
3087	42415	P.R.B.PRIME CARDS PRIVATE LIMITED
3088	42417	ANT SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
3089	42428	GREEN CHANNELS NETWORKS PRIVATE LIMITED
3090	42429	COFF-T-PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
3091	42435	MET-TREAT APPLICATION SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3092	42451	ZEALDT TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
3093	42476	SUPER PAX INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
3094	42484	LAXMIN TECHNO PROCESS PRIVATE LIMITED
3095	42489	TRR EXPDRTS PRIVATE LIMITED
3096	42494	A.V. HEALTH CENTRE PRIVATE LIMITED
3097	42504	COMNET COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3098	42532	MASSKK INFOCOMPUTECH PRIVATE LIMITED
3099	42534	EXPANS COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3100	42537	RURAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3101	42540	JUPITER CARPET PRIVATE LIMITED
3102	42543	REPS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
3103	42546	PROMPT ENGINEERS PRIVATE LIMITED
3104	42553	DR. S. SUBRAMANIAN EYE HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3105	42564	SRISHA STOCKS PRIVATE LIMITED
3106	42571	DEVA SYSTEM AND SOLUTION PRIVATE LIMITED
3107	42575	PEARL QUOTATIONS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
3108	42579	VBS FASHIONS PRIVATE LIMITED
3109	42581	ESS BEE SHARES PRIVATE LIMITED
3110	42594	SAI SANDESH ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED
3111	42596	MAPLE ENERGEX SERVICES PRIVATE LIMITED
3112	42598	EAGLE HEALTH CARE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
3113	42600	KARASSI FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
3114	42609	DOWN TOWN SERVICES PRIVATE LIMITED
3115	42610	SYNCTRA INFOWARE COMPANY PRIVATE LIMITED
3116	42614	RAHUL WINGS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3117	42679	FUN WORLD TOYS PRIVATE LIMITED
3118	42684	MADAGANJI TEX EXPORTS PRIVATE LIMITED
3119	42688	HOKO FREIGHT PRIVATE LIMITED
3120	42690	THOOTHUKUDY M.P.R.AGENCIES LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3121	42713	KRS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3122	42726	NEW TRANSWORLD BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3123	42728	MASK COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
3124	42731	INDUS CARDI CARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3125	42742	SANJEEVAMMA CONSTRUCTIONS COMPANY PRIVATE LIMITED
3126	42756	LEADER EDUCATIONAL COUNSELLING PRIVATE LIMITED
3127	42757	PASSPORT COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
3128	42768	SPHINX MINERAL WATER PRIVATE LIMITED
3129	42780	ANILLA AGRO PRIVATE LIMITED
3130	42804	VARSHAD ALUMINIUM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3131	42807	CHENNAI ENTERTAINERS PRIVATE LIMITED
3132	42820	U-V MARKETING PRIVATE LIMITED
3133	42823	MIDDLE EAST TYLOS COMPUTERS INDIA PRIVATE LIMITED
3134	42825	RADHIKA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
3135	42832	DEBWIN MEN POWERS PRIVATE LIMITED
3136	42834	WORDWISE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3137	42839	D.S.S. ENGINEERING AND INDUSTRIAL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
3138	42848	THENATCHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
3139	42850	MMK AGRI EXPORTS PRIVATE LIMITED
3140	42851	TRANSCRIPTION SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
3141	42854	J.R.K EXPORTS PRIVATE LIMITED
3142	42867	PANAVISION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
3143	42879	VILASH ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
3144	42881	SREE VIGNESH HYDRAULIC FINISH PRIVATE LIMITED
3145	42883	JESU TRAVEL INITIATIVES PRIVATE LIMITED
3146	42886	SHANRAJ ESTATES PRIVATE LIMITED
3147	42888	VPS COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3148	42902	PHOENIX SAFETY MATCHES AND FIREWORKS EXPORTS PRIVATE LIMITED
3149	42903	FINE HERBS AND SPICES EXPORTS PRIVATE LIMITED
3150	42914	VAAYU MARKETING PRIVATE LIMITED
3151	42916	TRINITY POWERLINK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3152	42917	R.G. SURGICALS PRIVATE LIMITED
3153	42923	AKSHAYA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3154	42947	SHRI SHANMUGA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
3155	42953	THRISUL AGRI BIOTECH PRIVATE LIMITED
3156	42958	V.D.INFOTECH PRIVATE LIMITED
3157	42960	SIS SOLUTION PRIVATE LIMITED
3158	42961	HOTEL CHIDHAMBARA RAJAM PRIVATE LIMITED
3159	42963	BISON LABORATORIES PRIVATE LIMITED
3160	42964	KIRAN SQUAREWARE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3161	42977	EFFICIENT HERBAL FUEL PRIVATE LIMITED
3162	42986	BOSTON ENGINEERING CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3163	42988	RASHMI TIMBER PRIVATE LIMITED
3164	43001	SAHANI IMPEX PRIVATE LIMITED
3165	43016	SPECTRUM KITCHEN DEVICES PRIVATE LIMITED
3166	43019	RED & GREEN INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
3167	43026	INSIGHT ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3168	43028	EUTYCHUS EXIM PRIVATE LIMITED
3169	43030	THOMSON LPG TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
3170	43037	REVATHI GRANITES PRIVATE LIMITED
3171	43039	MARUDU EXPORTS PRIVATE LIMITED
3172	43041	CHENNAI SELF REALISATION CENTRE PRIVATE LIMITED
3173	43042	VAS EQUIPMENTS AND INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3174	43050	BAIRAHA DESI FARMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3175	43052	WIND INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM PRIVATE LIMITED
3176	43070	TOPNOTCH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
3177	43071	FREEDOM COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3178	43076	INTEL COMEX MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
3179	43078	KAMKAR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
3180	43081	SPECIALCEM PAINTS COMPANY PRIVATE LIMITED
3181	43084	THARINI FOAM PRIVATE LIMITED
3182	43088	KANMALAI HOUSING DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
3183	43106	SAINAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3184	43110	CHORDIA MARKETING PRIVATE LIMITED
3185	43121	T.S.R. CHITS PRIVATE LIMITED
3186	43122	RASP ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3187	43146	CHOLAN SUGARS LIMITED
3188	43150	SUMRA CHITS PRIVATE LIMITED
3189	43159	DERMA RX COSMETICS PRIVATE LIMITED
3190	43176	IMPERIAL SECURITY & DETECTIVE BUREAU INDIA PRIVATE LIMITED
3191	43178	CORNUCOPIA COMMUNICATION SERVICE PRIVATE LIMITED
3192	43179	DIAFREE HERBALCONCEPTS PRIVATE LIMITED
3193	43190	MARUVUR ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
3194	43191	PODIUM FASHIONS PRIVATE LIMITED
3195	43200	SILMIYA FOREX PRIVATE LIMITED
3196	43207	VRINDAGIRI FOODS PRIVATE LIMITED
3197	43209	VIKVIS TRADING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3198	43211	BRAHMAA FOUNDATION PRIVATE LIMITED
3199	43214	GREEN CHANNEL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3200	43215	HI-SPEED NETWORK EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3201	43217	TRANSVAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3202	43310	MAXUM HOSPITALS PRIVATE LIMITED
3203	43326	VALLUVAR CHITS PRIVATE LIMITED
3204	43338	AALFOO IMPEX PRIVATE LIMITED
3205	43341	SHATKALA CREATIONS PRIVATE LIMITED
3206	43343	SONNETO IMPEX PRIVATE LIMITED
3207	43346	R.A. MUBARAK SECURITY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3208	43350	VISHWADHARA CHITS PRIVATE LIMITED
3209	43355	ARULMIGU VEEGEE CHITS PRIVATE LIMITED
3210	43397	SAKTHI SHREE TRANSCRIPTIONS PRIVATE LIMITED
3211	43417	OHMS AUTOMATION PRIVATE LIMITED
3212	43426	KRS CNC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3213	43437	MILLENNIUM MARINE PRIVATE LIMITED
3214	43447	CHENNAI SATSYSTEMS PRIVATE LIMITED
3215	43453	SUMS MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3216	43462	JAWAHAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3217	43466	K.R.V. EXPORTS PRIVATE LIMITED
3218	43524	GENIUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3219	43560	SEENU EXPORTS PRIVATE LIMITED
3220	43580	KWIKON GAS PRIVATE LIMITED
3221	43587	MPL MARKETING LIMITED
3222	43593	WP BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3223	43595	PRB BUILDERS PRIVATE LIMITED
3224	43598	CHENNAI AIR-SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3225	43605	JUVENILE EXPORTS PRIVATE LIMITED
3226	43607	GUHAN TECH AND RESOURCES PRIVATE LIMITED
3227	43619	EMERALD MARKETING ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3228	43620	SPS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3229	43628	C.R.K.COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3230	43629	LEY'S FOOD PRIVATE LIMITED
3231	43649	BINNSAI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3232	43680	LIKE CHITS PRIVATE LIMITED
3233	43687	VAASUM SOFTTECH PRIVATE LIMITED
3234	43689	SEEKERS HOSPITALITY MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
3235	43705	CRAYON ENGINEERS PRIVATE LIMITED
3236	43707	VISHANTI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
3237	43710	PONDICHERRY WATERPROOFERS PRIVATE LIMITED
3238	43715	QUADRA POWER ENGINEERS PRIVATE LIMITED
3239	43719	TELE DATA NETWORKING SERVICES PRIVATE LIMITED
3240	43723	MELD CHEMICALS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3241	43728	CPPS ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
3242	43730	MADURAI SRI RAGAVENDRA AUTO ANCILLARIES PRIVATE LIMITED
3243	43737	SHINELUCK FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3244	43750	CORPORATE EXPO & CONVENTIONS PRIVATE LIMITED
3245	43762	J.B.NAG HYGIENICS PRIVATE LIMITED
3246	43765	NUCLEA IMPEX PRIVATE LIMITED
3247	43768	VIJAYVISHNU HOUSING PRIVATE LIMITED
3248	43774	LARA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
3249	43780	MOOKAMBIGAI CEMENTS PRIVATE LIMITED
3250	43781	DARTER OVERSEAS TRADING PRIVATE LIMITED
3251	43787	KANIMAVALAM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
3252	44003	ELEGANT PRINT SYSTEM PRIVATE LIMITED
3253	44004	PROMINENT SERVICES PRIVATE LIMITED
3254	44008	MAXELL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3255	44039	AIRTEL INFOSYS INDIA PRIVATE LIMITED
3256	44040	WEB COMPUTERS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3257	44043	CENTUM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3258	44091	PUNITH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3259	44107	ESSELL MEDI TRANSCRIPTS PRIVATE LIMITED
3260	44208	SINGAPORE INSURANCE BROKERS INDIA PRIVATE LIMITED
3261	44209	TRITECH EXIM PRIVATE LIMITED
3262	44210	GASHPY SOFTWARE LIMITED
3263	44213	DAY CARE FRAGRANCES PRIVATE LIMITED
3264	44214	TARGET SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3265	44233	SABI IMPEX PRIVATE LIMITED
3266	44237	SUNDARAGANAPATHY CHITS PRIVATE LIMITED
3267	44258	SREE MARUTHI AUTO CONVERSION KITS PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
3268	44266	ESCH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3269	44282	BONSAI ENGINEERING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3270	44297	VIJAYAN MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3271	44298	ARUNAI CITY CABLE NETWORK PRIVATE LIMITED
3272	44302	JYOTHI ROADWAYS PRIVATE LIMITED
3273	44312	BENROSS ENGINEERING AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
3274	44319	SRI ABIRAMI POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
3275	44321	ECO FIBRES PRIVATE LIMITED
3276	44332	SHANK INDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3277	44334	SRI DEVI FLY ASH BRICKS PRIVATE LIMITED
3278	44335	NAYEET IMPEX PRIVATE LIMITED
3279	44339	IMAGE FUSION.COM PRIVATE LIMITED
3280	44355	SRI MEENAKSHI METAL COMPONENTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3281	44358	FERNOF METALS PRIVATE LIMITED
3282	44359	SAMYU E-BIZTECHS PRIVATE LIMITED
3283	44361	DHANA BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED
3284	44378	GLOBSTAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3285	44391	EL-SHIELD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3286	44395	ICG IMPEX PRIVATE LIMITED
3287	44400	S R SINETECH PRIVATE LIMITED
3288	44416	JADE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3289	44434	ALL TIME SOLUTIONS.COM PRIVATE LIMITED
3290	44448	ALLEGRO FREIGHT FORWARDERS AND TRADERS PRIVATE LIMITED
3291	44460	ABCON COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3292	44463	GOMATHIRAM CHEMICALS PRIVATE LIMITED
3293	44480	BROADBAND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3294	44485	WEB WORLD DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
3295	44504	TRADITION TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
3296	44511	CAARPLUS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3297	44522	PREEMPT INSTITUTE OF CONTINUING EDUCATION PRIVATE LIMITED
3298	44539	DANIEL ELECTRIC COMPANY PRIVATE LIMITED
3299	44556	H.M. HOSPITAL(CHENNAI) PRIVATE LIMITED
3300	44557	PENTA SOFTSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3301	44562	VJ GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3302	44572	ULYSSES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3303	44580	PVP INFOMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3304	44581	EDGE NETVENTURES PRIVATE LIMITED
3305	44582	ANDHRA HERBOCHEM PRIVATE LIMITED
3306	44588	A.K.S.MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED
3307	44590	WORLDLINK INDIA.COM PRIVATE LIMITED
3308	44597	DCVS HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
3309	44599	NEXTLINX SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3310	44610	INSSITRA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3311	44614	ANNAMMAI CASTORS PRIVATE LIMITED
3312	44632	FACE ADVANCED COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
3313	44634	EXPLICIT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3314	44635	PUSHPALOK EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
3315	44666	AGS IMPORT PRIVATE LIMITED
3316	44667	QUEST E-COM PRIVATE LIMITED
3317	44673	ELSR COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3318	44676	OMEGA SIGNALMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED
3319	44685	INTRICATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3320	44686	SRIVARI SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3321	44687	MATTU SONS EXPORTS PRIVATE LIMITED
3322	44688	VETRI MARUTHI POLYMERS PRIVATE LIMITED
3323	44695	CLARABENS CONSULTANCY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3324	44697	TRUENET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3325	44703	SRI YEM TEX PRIVATE LIMITED
3326	44709	CORONATION PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3327	44713	TYCOON PRODUCTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3328	44729	DOCTNET PRIVATE LIMITED
3329	44730	AUROBIN SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
3330	44734	MEEKAMANDAPAM K.P.S. FINANCE PRIVATE LIMITED
3331	44740	PRIYA SHELTERS PRIVATE LIMITED
3332	44743	SRI VIDYALAKSHMI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3333	44753	R.R.N AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3334	44786	SUKADEV DECCAN PHARMA PRIVATE LIMITED
3335	44797	YAMI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3336	44798	ARUHU EXPORTS PRIVATE LIMITED
3337	44822	MALIK TIMES PRIVATE LIMITED
3338	44836	USHODAYA IMPEX PRIVATE LIMITED
3339	44838	SHOLINGUR DYEING EFFLUENT TREATMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
3340	44840	TWO STAR GRANITES EXPORTS PRIVATE LIMITED
3341	44843	KALAIMAGAL COACH PRIVATE LIMITED
3342	44850	PASUPATHI DAIRIES PRIVATE LIMITED
3343	44866	JUMP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3344	44872	PRICE MEDIA PRIVATE LIMITED
3345	44876	VIJAIADITYA METALS PRIVATE LIMITED
3346	44881	EZHIL PROMOTERS PRIVATE LIMITED
3347	44882	QUALITY QUEST EQUIPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3348	44884	SREE VANI STEEL & FORGINGS PRIVATE LIMITED
3349	44892	THIRD MILLENNIUM COMPUTERS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
3350	44898	JESMARIA HOTELS PRIVATE LIMITED
3351	44900	INDOPELL LEATHER EXPORTS PRIVATE LIMITED
3352	44908	JAGA VARNAM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3353	44921	M-DIRECT INDIA MARKETINGG COMPANY PRIVATE LIMITED
3354	44958	ERL SOLUTION PRIVATE LIMITED
3355	44976	ORDERONNET.COM PRIVATE LIMITED
3356	44993	THREE TIER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3357	44999	PORTAL POTENTIAL.COM PRIVATE LIMITED
3358	45112	INFO HIGHWAY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3359	45172	MADRAS MARINESAFETY & CARE PRIVATE LIMITED
3360	45186	VRG SPACERADIO PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3361	45192	KEGISONS & BROTHERS PRIVATE LIMITED
3362	45214	JAGADRAJ BIOPOWER ENGINEERS PRIVATE LIMITED
3363	45215	FREE ADVANCED COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
3364	45226	STEPHENAS COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3365	45242	NET MERGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3366	45253	GOLD CREST GARMENTS PRIVATE LIMITED
3367	45259	CITIHOME SERVICES PRIVATE LIMITED
3368	45260	ANAND-JON COMPANY PRIVATE LIMITED
3369	45268	LOGIC SCANNING TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
3370	45271	REHOBOTH MARITIME PRIVATE LIMITED
3371	45278	HARDCORE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3372	45284	PRANAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3373	45291	S B K SHIPPING PRIVATE LIMITED
3374	45294	SAMBA TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
3375	45310	ANUVINU TRADING PRIVATE LIMITED
3376	45313	NEW LIMRA AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
3377	45341	NEW ERA JOBS COMPANY PRIVATE LIMITED
3378	45349	YOUNG TRANSPORT AGENCY PRIVATE LIMITED
3379	45350	ePEOPLE CONSULTANCE PRIVATE LIMITED
3380	45363	CHENNAI FRONT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
3381	45366	HITECH CHITFUND PRIVATE LIMITED
3382	45370	VISUALRAY INFOWAY PRIVATE LIMITED
3383	45384	HIMALAYAN HOME NEEDS PRIVATE LIMITED
3384	45388	INPRACTICE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3385	45395	STAR FOREX INDIA PRIVATE LIMITED
3386	45402	PATCHMAGIC EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3387	45405	SHREE BALAJI DARSHAN HOTELS PRIVATE LIMITED
3388	45413	PCS IMPEX MARKETING PRIVATE LIMITED
3389	45427	DHANAVANTRI AGENCIES PRIVATE LIMITED
3390	45432	M.S. ENGINEERING CONSULTANTS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
3391	45440	SKYLINE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3392	45442	NAMAH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3393	45446	BROLLCOM INFO SOLUTION PRIVATE LIMITED
3394	45448	NILE IMPORT & EXPORT PRIVATE LIMITED
3395	45453	CHEARAAN R AND D SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3396	45455	VILAVANCODE CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3397	45457	QUICKSILVER APPARELS INDIA PRIVATE LIMITED
3398	45476	KINGINI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3399	45483	PARADIGM E-SERVICES PRIVATE LIMITED
3400	45485	SHIVRUK GRANITES & MARBLES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3401	45502	INAMCO (INDIA) PRIVATE LIMITED
3402	45505	MANNA MARKETING SERVICE PRIVATE LIMITED
3403	45507	SRIK PROPERTY DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
3404	45509	TARGET NETWORK PRIVATE LIMITED
3405	45516	BEANSHOP CONSULTING PRIVATE LIMITED
3406	45518	MEGASOFT INTEGRATED TRAINING CENTRE PRIVATE LTD
3407	45563	NON BARGAIN ADVANTAGE SERVICES PRIVATE LIMITED
3408	45566	DIGITALWAVE TECHNOLOGIES & RESEARCH INSTITUTE PRIVATE LIMITED
3409	45573	MADRAS LALITHA REALTY COMPANY PRIVATE LIMITED
3410	45581	PIXEL PRODUCTION PRIVATE LIMITED
3411	45600	ARVEE FASHIONS PRIVATE LIMITED
3412	45601	ARVEE TRENDS PRIVATE LIMITED
3413	45602	CONSORTIUM MINERALS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
3414	45605	E-SELF SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
3415	45622	CHENNAI INSURANCE COMPANY LIMITED
3416	45629	N-SAKKTHI SREE TECHNOO PRIVATE LIMITED
3417	45650	KAN SYSTEMS.COM PRIVATE LIMITED
3418	45661	SOUTHPOINT CONTAINER LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3419	45662	VANI COMPUTER ACADEMY PRIVATE LIMITED
3420	45685	LEAD INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3421	45686	J.P.S. TRAVELS & CARGO PRIVATE LIMITED
3422	45694	R.H.CAMBIO PRIVATE LIMITED
3423	45696	SARAVANAA PROJECTS PRIVATE LIMITED
3424	45708	TRANSWORLD DETECTIVE BUREAU PRIVATE LIMITED
3425	45709	M.P.M. SHANTHI TRADERS PRIVATE LIMITED
3426	45712	MY SHARES PRIVATE LIMITED
3427	45733	TEKSOFT TRANSCRIPTION PRIVATE LIMITED
3428	45749	AMET SHIPMANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
3429	45751	THANDAPANI TEXTILE MILL PRIVATE LIMITED
3430	45757	TN COMMERCIAL & INDUSTRIAL GUIDE PRIVATE LIMITED
3431	45762	IVISTAS NETWORK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3432	45764	ABANI SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
3433	45777	VETTRI TANKER SERVICES PRIVATE LIMITED
3434	45789	YASHNA DRUGS PRIVATE LIMITED
3435	45794	ALAGU VINAYAGA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3436	45796	DATA GENERALE (INDIA) LIMITED
3437	45802	HEBRON FOODS PRIVATE LIMITED
3438	45812	SPARSH CONNECTIONS PRIVATE LIMITED
3439	45818	AREM AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
3440	45826	HEBRON IMAGE MAKERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3441	45841	HIMALAYA CREATIONS PRIVATE LIMITED
3442	45863	I ZENN MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
3443	45873	VARYSOFT CONTROLS & TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3444	45887	MASOF SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3445	45896	ABC NETS PRIVATE LIMITED
3446	45899	ALERT MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3447	45928	CTH-SOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3448	45937	TRIPLE ACES PRIVATE LIMITED
3449	45939	DIGIMAGIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3450	45951	HOTEL VEVASAI PRIVATE LIMITED
3451	45979	LIVINGSTONE CHITS PRIVATE LIMITED
3452	45993	GRAYLINE ADVERTISING AND DIGITAL STUDIO PRIVATE LIMITED
3453	45998	CHENNAI SHOPPEE PRIVATE LIMITED
3454	46002	VEGA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3455	46004	VOJUS SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3456	46005	SPADE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3457	46007	TASK SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
3458	46012	APPALA BUILDERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3459	46019	APSUN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3460	46022	V.J. CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3461	46040	SRIVATSAVA ECO-FRIENDLY PAPERS PRIVATE LIMITED
3462	46041	BANU IMPEX PRIVATE LIMITED
3463	46046	TRITAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3464	46047	HILL AND WILL HEALTH CARE TECH PRIVATE LIMITED
3465	46049	CHOICE CREATIONS PRIVATE LIMITED
3466	46051	JRS MEDIA PRIVATE LIMITED
3467	46053	ALWARR CHEMCD PRIVATE LIMITED
3468	46056	SP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3469	46057	ORION NUTRACEUTICALS PRIVATE LIMITED
3470	46058	AROMATICA EXPORTS PRIVATE LIMITED
3471	46059	VEL AQUA TECH PRIVATE LIMITED
3472	46061	KANCHEE CARGO PRIVATE LIMITED
3473	46064	IDENTITI SOFT PRIVATE LIMITED
3474	46071	FUGENSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3475	46074	INTEL EDUCATION PRIVATE LIMITED
3476	46075	HILROY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3477	46077	SAVITHA FLATS PROMOTERS PRIVATE LIMITED
3478	46091	SAGACIOUS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3479	46092	MEDICINE DOT COM PRIVATE LIMITED
3480	46107	LAA BELLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3481	46111	YESDEEYEN CARGO CONNEXION PRIVATE LIMITED
3482	46112	AISHA SHOE PRIVATE LIMITED
3483	46124	EVERTRUST EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED
3484	46126	SRI RAGHAVENDRA RESIDENCY PRIVATE LIMITED
3485	46128	TRINITY FORWARDERS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
3486	46129	SYFRE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3487	46130	RURALFOCUS.COM PRIVATE LIMITED
3488	46133	JAIKISSAN HITECH AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
3489	46149	KNOWLEDGE FOUNDATION PRIVATE LIMITED
3490	46150	VIRIKSHA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3491	46152	MELIORA CAPITAL PRIVATE LIMITED
3492	46156	SHARK INFOTECH PRIVATE LIMITED
3493	46157	SARON METAL ART PRIVATE LIMITED
3494	46162	COGENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3495	46163	VANIYAMBADI R.S. HOSPITALS PRIVATE LIMITED
3496	46171	METAPHOR FILMS PRIVATE LIMITED
3497	46172	BALVIK TRADING PRIVATE LIMITED
3498	46174	DURGALAKSHMI DAIRY PRIVATE LIMITED
3499	46176	F & B MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
3500	46180	JOTHIKA EXPORTS PRIVATE LIMITED
3501	46185	TRANSUNITED TRAVELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3502	46186	ABIRAMI HOTELS PRIVATE LIMITED
3503	46187	BAY IT SERVICES PRIVATE LIMITED
3504	46191	T C M BUILDERS PRIVATE LIMITED
3505	46219	IIN FOCUS.COM PRIVATE LIMITED
3506	46220	DENOVO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3507	46224	FLUTON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3508	46225	ACUITY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3509	46226	SUNCITIIND A-MAIL EXPRESS PRIVATE LIMITED
3510	46228	SPG OVERSEAS FOODS PRIVATE LIMITED
3511	46229	SKYMACH NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED
3512	46230	SKYMACH INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
3513	46231	PROPINDIA.COM PRIVATE LIMITED
3514	46242	STRATEGIC WEBCOM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3515	46244	P.M.R. COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3516	46250	CHEZER EXIM PRIVATE LIMITED
3517	46265	BLUESTEEL OVERSEAS LEATHERS PRIVATE LIMITED
3518	46266	OPENWAVE DSS PRIVATE LIMITED
3519	46271	JAIERA SUNSHINE DIGITAL RECORDING PRIVATE LIMITED
3520	46277	B2G INFOTECH PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3521	46285	AMMAS' INTERLINKX.COMM PRIVATE LIMITED
3522	46286	QUIC AUTOMATION PRIVATE LIMITED
3523	46287	NIKETAN INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3524	46295	SRI E.M.R. CHITS PRIVATE LIMITED
3525	46302	PANVIEW TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
3526	46304	SHINY FARMS & BUILDERS PRIVATE LIMITED
3527	46309	SEA GULL COMMUNICATION SERVICE PRIVATE LIMITED
3528	46314	HEBRON SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3529	46317	SARC PHARMACHEM PRIVATE LIMITED
3530	46318	BALLAK IMPEX PRIVATE LIMITED
3531	46320	SUCCESS VENTURES PRIVATE LIMITED
3532	46322	RAGHUNATH GREEN POWER PRIVATE LIMITED
3533	46323	THIRUMALA GREEN POWER ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3534	46324	GREEN POWER REALTORS PRIVATE LIMITED
3535	46325	PAWAN GREEN CHANNEL PRIVATE LIMITED
3536	46329	S.G. VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
3537	46331	METRO NETWORK PRIVATE LIMITED
3538	46337	EVOLVE SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
3539	46341	WINXS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3540	46348	GETHSEMANE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3541	46352	BRAHMA WEBBIZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3542	46365	COMEXIM TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
3543	46369	ETG SOFTTECH PRIVATE LIMITED
3544	46372	JASSIEL COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3545	46376	WINVARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3546	46378	PRIMIAR NETWORK TAMILNADU PRIVATE LIMITED
3547	46380	CUSTOMISED QUALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
3548	46382	RATNADEEP SECURITIES PRIVATE LIMITED
3549	46384	CALIBERPLUS SYSTEMS AND SOLUTION PRIVATE LIMITED
3550	46391	TIARA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3551	46408	REAL TIME PROJECTS PRIVATE LIMITED
3552	46419	CIW ENGINEERING PRIVATE LIMITED
3553	46421	FANTAS IMAGE PRIVATE LIMITED
3554	46424	WINTAKE SHARES PRIVATE LIMITED
3555	46427	HEAVEN IMPEX PRIVATE LIMITED
3556	46429	SHIKSHAK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3557	46432	ADINATH ENERGY PRIVATE LIMITED
3558	46433	STREAMS TRADING PRIVATE LIMITED
3559	46437	SREESEL EXPORT PRIVATE LIMITED
3560	46440	I-COM ADVISDRY SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3561	46441	BLU I-BIO TEC PRIVATE LIMITED
3562	46444	RUSHMI INTERNET ADVERTISING COMPANY PRIVATE LIMITED
3563	46447	FM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3564	46448	FORT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
3565	46450	STEALTH DETECTIVES AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
3566	46455	ADEPTE SOFTWARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3567	46456	DDM CHITS PRIVATE LIMITED
3568	46460	GRAND CITY PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
3569	46463	DALSIN TRAVEL SERVICE PRIVATE LIMITED
3570	46467	CALL US INDIA LIMITED
3571	46478	PADANTHALUMOODU DOUBLE YEZ CHITS PRIVATE LIMITED
3572	46480	SHASTRA WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3573	46482	PENTARRKS INFOTECH PRIVATE LIMITED
3574	46484	EXXIN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3575	46490	INSEM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3576	46499	MASHOOR COSTUMES AND UTILITIES SHOPPERS PRIVATE LIMITED
3577	46500	SUN CAR CARE CENTRE PRIVATE LIMITED
3578	46501	GRAND CASH FOREX PRIVATE LIMITED
3579	46506	LADDER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3580	46507	AYYAPPAS TRAVELS & TOURS PRIVATE LIMITED
3581	46508	EKAMBARESHWAR HOUSING DEVELOPMENT & EXPORTS PRIVATE LIMITED
3582	46509	BEAM-SOFT PRIVATE LIMITED
3583	46510	PARASAKTHI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3584	46511	MOUNT SHIPPING & MARINE COMPANY PRIVATE LIMITED
3585	46517	UNITY HERBO HEALTH CORNERS PRIVATE LIMITED
3586	46519	AMAZE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3587	46520	VICTORY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3588	46521	VEGASE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3589	46523	VEL SOFTECH WORLD PRIVATE LIMITED
3590	46526	ATLANTICSOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3591	46528	VITARANAA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3592	46529	MARVI FOOD PRODUCT PRIVATE LIMITED
3593	46530	SULTANA HERBALS PRIVATE LIMITED
3594	46536	TYCOON MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
3595	46541	AGILEONE (INDIA) PRIVATE LIMITED
3596	46542	YELLOW CABS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3597	46543	JAYAGANGA AGROVET PRIVATE LIMITED
3598	46544	SUNLITE e COMM PRIVATE LIMITED
3599	46546	SOFTLINK SCHOOL OF COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
3600	46553	ABA...MS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3601	46555	DATADRIE INFOTECH PRIVATE LIMITED
3602	46556	GENOME TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
3603	46558	CYBERCHIPPS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
3604	46562	TERRAFIRMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3605	46565	RICH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3606	46569	ORSON AUTOMATION PRIVATE LIMITED
3607	46579	FESTAL MARKETING PRIVATE LIMITED
3608	46582	G.D.NADAR PAPER COMPANY PRIVATE LIMITED
3609	46584	PRUDENT VENTURES PRIVATE LIMITED
3610	46585	MILLENIUM MINERALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3611	46586	LANDMARK LANDSCAPES PRIVATE LIMITED
3612	46587	HILL TOP COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
3613	46588	DATABASE INDIA INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3614	46591	MAB DECILLION COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
3615	46594	DYNASYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3616	46596	SINOSTAR TRADERS INDIA PRIVATE LIMITED
3617	46604	RAMSYS SPORTWARE & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3618	46609	GLIMIGULSHAN IMPEX PRIVATE LIMITED
3619	46614	GJEYALOGIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3620	46623	SUHERA MINERALS PRIVATE LIMITED
3621	46627	VENKAT REALTY PRIVATE LIMITED
3622	46629	MOGAM IMPEX PRIVATE LIMITED
3623	46637	WEB-I.COM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3624	46647	CYBERSTAR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3625	46654	MANAVATES NETWORK PRIVATE LIMITED
3626	46655	TRINITY FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
3627	46656	ATOZ DOMESTIC SERVICES PRIVATE LIMITED
3628	46675	ROSHNI NET PRIVATE LIMITED
3629	46677	GUILD SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3630	46682	PB LINKS PRIVATE LIMITED
3631	46683	DHOWLANS FOODS PRIVATE LIMITED
3632	46696	KANCHEE GRANITES PRIVATE LIMITED
3633	46699	SIDDHA CANCER HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3634	46702	SREE KRUSSHI DIGITAL GRAPHICS PRIVATE LIMITED
3635	46703	MBBS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3636	46704	ANR FASHIONS LIMITED
3637	46705	INFOSTREAK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3638	46709	P C S SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3639	46713	PCS SYSTEMS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3640	46717	NEMESIS INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3641	46720	PROCLAIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3642	46725	PAISAPOWER NETWORK PRIVATE LIMITED
3643	46757	RAHUMANIAA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3644	46761	GENIUS SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
3645	46768	SKYSHOOT.COM PRIVATE LIMITED
3646	46770	GLINSYS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3647	46773	BETTER WORLD SERVICES PRIVATE LIMITED
3648	46775	SATLINK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3649	46778	SKY SAFEWAY INFOTECH PRIVATE LIMITED
3650	46780	SILK ROUTE NETWORK PRIVATE LIMITED
3651	46788	LIMCO MARKETING PRIVATE LIMITED
3652	46901	ROBUST CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3653	46908	PONN MAYIL JEWELLERIES PRIVATE LIMITED
3654	46909	BESTIN MULTI PACK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3655	46916	GOLDENINDIANS COMPUTER SERVICES LIMITED
3656	46917	TRILUX AIRLINES LIMITED
3657	46930	EDWIN MARKETING PRIVATE LIMITED
3658	46932	SEPHALIK INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3659	46934	CHIPSYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3660	46935	ARULANANTH FOUNDRIES PRIVATE LIMITED
3661	46938	ZEBRA EXPORTS PRIVATE LIMITED
3662	46941	SANKHESWARA STOCKS PRIVATE LIMITED
3663	46945	SILVER EDGE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
3664	46947	PALLAVA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
3665	46948	SRI VIGNESH COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3666	46954	CHENNAI SANJEEVI MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
3667	46956	CRISS CROSSS CLOTHINGS PRIVATE LIMITED
3668	46957	PHARMA PLUS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3669	46958	DIGILOG EMBEDDED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3670	46965	DHANAPRABU TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
3671	46966	EXCITE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3672	46973	DEVELOPMENT 2002.COM PRIVATE LIMITED
3673	46976	SRI SAI EMBROIDERY AND LABELS PRIVATE LIMITED
3674	46981	ONE-DERFUL SHOPPE (INDIA) PRIVATE LIMITED
3675	46983	ARCHER SECURITY AGENCY PRIVATE LIMITED
3676	46984	ASTRAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
3677	46988	VCONNECT INFOTECH PRIVATE LIMITED
3678	46996	RICH NET VISION.COM PRIVATE LIMITED
3679	47004	A.M.AGRO FOODS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
3680	47018	FRONTIER PACIFIC TECHNOLOGIES & SOFTWARE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3681	47031	RELAX AQUA MINERALS PRIVATE LIMITED
3682	47032	LL2B.COM PRIVATE LIMITED
3683	47034	OAM MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3684	47035	INFRANET TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
3685	47043	SEMINT. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3686	47045	ISS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3687	47061	MALYADRI AISWARYA TRADERS PRIVATE LIMITED
3688	47066	GAMZEN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3689	47067	SPOT COMMODITY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3690	47072	ASNS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3691	47080	KRENSER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3692	47093	GLOBAL MINING & TRADING PRIVATE LIMITED
3693	47101	OPEL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
3694	47107	MENTEL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3695	47108	ABYSS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
3696	47133	QUICK REACH SINGLELINE.COM PRIVATE LIMITED
3697	47135	MARS DECORATORS PRIVATE LIMITED
3698	47138	PRESTIGE MULTI FLATS PRIVATE LIMITED
3699	47142	SILKWIND EXIM PRIVATE LIMITED
3700	47156	VICAMP HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
3701	47157	AL SAFA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
3702	47163	SURABHI INFOWAY.COM PRIVATE LIMITED
3703	47168	UNITED NANDI EXPORT & IMPORT PRIVATE LIMITED
3704	47176	VIVEK INFO SOLUTION PRIVATE LIMITED
3705	47177	CYBERCREW IT CONSULTANT PRIVATE LIMITED
3706	47185	NAVODAYA HI LIFE PRIVATE LIMITED
3707	47187	EXECUTIVE CLUB PRIVATE LIMITED
3708	47195	GRAHAPRAVESH PROPERTIES PRIVATE LIMITED
3709	47196	K.S. FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
3710	47201	INNERVISION INTERIORS PRIVATE LIMITED
3711	47202	PONGURU TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
3712	47212	ITAN POLYFABS PRIVATE LIMITED
3713	47227	IKONEDU ONLINE PRIVATE LIMITED
3714	47235	OPENARC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3715	47240	FOURWAYS MULTIVISION (INDIA) PRIVATE LIMITED
3716	47241	G.K.R. TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED
3717	47242	LANSEAIR SAFETY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3718	47246	WIDERAYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3719	47251	PROFAIDS CONSULTING PRIVATE LIMITED
3720	47261	SKY e ACTION.COM PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3721	47263	JSMAG NETWORK PRIVATE LIMITED
3722	47267	BRITE SOUTH CONTRACTING AND TRADING PRIVATE LIMITED
3723	47272	SCHENGEN TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
3724	47275	SILVERHARVEST MARKETING PRIVATE LIMITED
3725	47276	DREAMCAN ONLINE PRIVATE LIMITED
3726	47287	SAITO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3727	47294	MSV WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3728	47313	MASON ART BUILDERS PRIVATE LIMITED
3729	47314	VAIBAVAKSHMI CHITS PRIVATE LIMITED
3730	47322	HOUSE OF STYLE IMPEX PRIVATE LIMITED
3731	47323	SARASWATHI SOFTECH PRIVATE LIMITED
3732	47325	SYMAK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3733	47336	ARIVOLI AGENCIES PRIVATE LIMITED
3734	47337	BIO ORGANIX LABORATORIES PRIVATE LIMITED
3735	47344	KKR FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
3736	47346	VIROHA CONSULTING PRIVATE LIMITED
3737	47362	SEVENHILLS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
3738	47367	N.M.D.TRAVELS PRIVATE LIMITED
3739	47368	ANUKSA.COM.PRIVATE LIMITED
3740	47373	VESEN CONSULTING PRIVATE LIMITED
3741	47376	FINGEN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3742	47380	PGV HOLDINGS PRIVATE LIMITED
3743	47381	HEVEA IMPEX PRIVATE LIMITED
3744	47383	LIAISE INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
3745	47384	MK.MAGNUM TRADELINKS PRIVATE LIMITED
3746	47387	DSI INDIA PRIVATE LIMITED
3747	47390	HIGHGLORY.NET PRIVATE LIMITED
3748	47391	SUNSOFT COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
3749	47393	III WAY NET SERVICES PRIVATE LIMITED
3750	47394	MOLECULAR BIOSCIENCE PRIVATE LIMITED
3751	47407	INTEGRAL AGRI-RESOURCE COMMODITIES PRIVATE LIMITED
3752	47411	DIVINE SHIPPING SERVICE PRIVATE LIMITED
3753	47414	J.L.INFOTECH PRIVATE LIMITED
3754	47417	LEARNPRO SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3755	47422	EBALWORLD.COM PRIVATE LIMITED
3756	47425	SKYLINK EXIMP PRIVATE LIMITED
3757	47433	SIMON FASHIONS PRIVATE LIMITED
3758	47440	RAGURAM IMPEX PRIVATE LIMITED
3759	47442	LEBON IMPEX PRIVATE LIMITED
3760	47461	HIMAALAYA CREATIVE VIDEOS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3761	47473	VISCUBE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3762	47478	KARGUVEL TIMBERS PRIVATE LIMITED
3763	47479	TEXMARK MARKETING PRIVATE LIMITED
3764	47487	SALNAZ TRAVEL PRIVATE LIMITED
3765	47491	R.R.D.CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3766	47501	MIDAS TEXCHEM PRIVATE LIMITED
3767	47503	ASA SOFTWARE RESEARCH & RESOURCES PRIVATE LIMITED
3768	47514	CLUSTER MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3769	47517	DANE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
3770	47529	S.K.N. WORLDNET PRIVATE LIMITED
3771	47531	RAYHOPE MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
3772	47539	E.A.P.EDIRISINGHE TRADING PRIVATE LIMITED
3773	47540	KHEMKA EQUIPMENT SALES PRIVATE LIMITED
3774	47551	ACFA FREIGHT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3775	47552	TEXTRA VENTURES PRIVATE LIMITED
3776	47554	VALLIBEL INDIA PRIVATE LIMITED
3777	47566	OCCULT COMPUTERS PRIVATE LIMITED
3778	47580	SAIDAPET ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
3779	47589	CHENNAI STOCKS & SHARES PRIVATE LIMITED
3780	47604	GENTING MEGA MARKETING PRIVATE LIMITED
3781	47608	PLACER MINERALS PRIVATE LIMITED
3782	47609	SAIGURU PROPERTIES AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3783	47610	MARSVASS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3784	47615	POWERPLANT CONSULTING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3785	47616	LAURUS SOFT PRIVATE LIMITED
3786	47618	ADVANCED DRIVING AND CORPORATE ACADEMY PRIVATE LIMITED
3787	47622	MISTY GARDENS PRIVATE LIMITED
3788	47657	HERBO EVERGREEN MARKETERS PRIVATE LIMITED
3789	47663	EAST COAST TRADING AGENCY PRIVATE LIMITED
3790	47683	SCENTPERSCENT FLOWERS PRIVATE LIMITED
3791	47716	ROCKFORT HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3792	47717	TWIN TITLE EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3793	47724	NETSQUARE.COM PRIVATE LIMITED
3794	47733	TO-DAY FURNITURE & INTERIOR DECORATORS PRIVATE LIMITED
3795	47735	MAXTRADE BUSINESS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
3796	47736	SMS PROTECTIVE PAINTS INDIA PRIVATE LIMITED
3797	47738	DEEP NETWORK PRIVATE LIMITED
3798	47743	DR.TEOW'S LINGHZI MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
3799	47763	HYDER SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
3800	47770	LINGUA FRANCA PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3801	47780	RUNNERS I-TEC. PRIVATE LIMITED
3802	47796	LIFT AND LIFT MARKETING PRIVATE LIMITED
3803	47801	SHREE VISHWAA RESTAURANT PRIVATE LIMITED
3804	47823	SHANTHA BOTANICALS PRIVATE LIMITED
3805	47861	INFOWORLD CARDS PRIVATE LIMITED
3806	47885	BIO-CUP PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3807	47888	C.C.A. INFOTECH PRIVATE LIMITED
3808	47889	AERO TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED
3809	47891	SOORIYA NETSOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED
3810	47893	SAG TRADING PRIVATE LIMITED
3811	47894	CORTINA TRADING PRIVATE LIMITED
3812	47898	ALLAMANDA CONSULTING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3813	47906	LUXURY TRAVEL ZONE PRIVATE LIMITED
3814	47929	LIFEKARE ENSURE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3815	47932	GARG BOOKS PRIVATE LIMITED
3816	47936	BRILLIANT NETWORK (INDIA) PRIVATE LIMITED
3817	47943	UNIVERSAL INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
3818	47948	WAYFOUND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3819	47954	GLORIOUS DESIGNS PRIVATE LIMITED
3820	47955	SKYKNIGHT INFO PRIVATE LIMITED
3821	47966	HARPS FILMS PRIVATE LIMITED
3822	47988	SKS INFOLOGY PRIVATE LIMITED
3823	47991	DORMAN LONG EXIM PRIVATE LIMITED
3824	47997	SOUTH INTERLINK MARKETING PRIVATE LIMITED
3825	48073	STEER EXPORTS AND ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
3826	48076	M.S.K.R. FLATS PRIVATE LIMITED
3827	48077	PONBAABU CHIT FUND PRIVATE LIMITED
3828	48078	SRINAVALADI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
3829	48086	B.V. SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
3830	48105	SUSHI MARKETING PRIVATE LIMITED
3831	48112	BVS SILK WAVES MARKETING PRIVATE LIMITED
3832	48113	E-MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3833	48118	VANSHA FREIGHT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3834	48126	ABI INFOSOFT PRIVATE LIMITED
3835	48134	KADEEJA DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
3836	48139	EMPIRE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3837	48140	ELOOK SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3838	48143	MICROPAARK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3839	48147	L & R BUILDERS & SUPER PROJECT CONSULTANT PRIVATE LIMITED
3840	48161	DATASmart TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3841	48165	BARNACLE-EDA-CONSULTING PRIVATE LIMITED
3842	48168	SHRI JINNEEYS FILMS PRIVATE LIMITED
3843	48170	EVERBRIGHT SECURITY FORCE PRIVATE LIMITED
3844	48171	FUTURE IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
3845	48178	INTEGRATED ENVIRONMENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3846	48202	SPJN PROJECTS & SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3847	48212	NICE DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3848	48217	NAGORE OIL BUNK PRIVATE LIMITED
3849	48219	HOTEL ADYAR RAJ PRIVATE LIMITED
3850	48220	CAUVERY GARNETS PRIVATE LIMITED
3851	48251	J.K.B LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3852	48257	USB MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3853	48266	DEXICON TEHFOODS PRIVATE LIMITED
3854	48269	SURABHISHREE MARKETING PRIVATE LIMITED
3855	48281	VICTORY NETWORK PRIVATE LIMITED
3856	48285	RESHMA AGENCY'S PRIVATE LIMITED
3857	48286	CHENNAI TECHNOPURE COATING SERVICES PRIVATE LIMITED
3858	48293	YOGALAKSHMI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3859	48294	RAJARAJAN TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
3860	48295	ARS MAGIC FOODS PRIVATE LIMITED
3861	48299	JAYARAM MARKETING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3862	48310	BLACK GOLD BITUMEN PRIVATE LIMITED
3863	48317	MECHANICAL SOLUTION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3864	48323	VIGNESH SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
3865	48343	SKYTOUCH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3866	48349	NEWPENTAGON STRUCTURES PRIVATE LIMITED
3867	48360	VIKER INFOTECH PRIVATE LIMITED
3868	48366	SREE KAMAL CHITS CHENNAI PRIVATE LIMITED
3869	48372	TOPLINE INFOTECH PRIVATE LIMITED
3870	48374	AMIRTHA MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
3871	48386	DEEN TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
3872	48388	BALAJI BUSINESS NETWORK PRIVATE LIMITED
3873	48406	JJM EXPORT PRIVATE LIMITED
3874	48408	WISCOR SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3875	48414	ABIRAMI FOODS & RESORTS PRIVATE LIMITED
3876	48432	GEE GEE BEE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3877	48433	MSM IMPEX PRIVATE LIMITED
3878	48438	DREEM CAST ENTERTAINMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
3879	48443	DEVI FOODS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
3880	48446	OCEANAPPS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3881	48449	VOYAGER GROUP (INDIA) PRIVATE LIMITED
3882	48470	NEIGHBOURHOOD YELLOW PAGES PRIVATE LIMITED
3883	48478	SRI NAGAPPA JEWELLERY PRIVATE LIMITED
3884	48487	SAPTHARSHI K CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
3885	48495	TITALEE DIGITAL STUDIOS PRIVATE LIMITED
3886	48507	C.R. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3887	48508	SATYANARAYAN INFOTECH PRIVATE LIMITED
3888	48516	MAHA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
3889	48541	MAYURI MACHINERY PRIVATE LIMITED
3890	48545	K.AYYADURAI SAND MINES PRIVATE LIMITED
3891	48549	WIN SUN 2005 MARKETING PRIVATE LIMITED
3892	48552	SHRISAI NAMBIKKAI CHITS PRIVATE LIMITED
3893	48566	COMMANDO TRADERS PRIVATE LIMITED
3894	48585	MISSION SOFTWARE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3895	48587	N A K MARKETING PRIVATE LIMITED
3896	48591	S.S. KNIGHT SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3897	48634	SURFACE ALLOYS PRIVATE LIMITED
3898	48646	SILVER SHINE SYSTEM PRIVATE LIMITED
3899	48651	USILA SHOES PRIVATE LIMITED
3900	48661	YUVA RESOURCES PRIVATE LIMITED
3901	48671	ANJU PRIME NET APPLICATIONS PRIVATE LIMITED
3902	48673	SKYLIGHT TRAVELS PRIVATE LIMITED
3903	48675	SREE BALAJEE FINE CHEMICALS COMPANY PRIVATE LIMITED
3904	48683	INFOTRONICS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3905	48697	SUCCESS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3906	48707	BAY CEMENT MARKETING PRIVATE LIMITED
3907	48710	SADHANA FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED
3908	48711	KARPAHAM ENGINEERS & BUILDERS PRIVATE LIMITED
3909	48715	TEJSOFT TECH PRIVATE LIMITED
3910	48736	ROYAL INDIA MARKETING AND CATERING COMPANY PRIVATE LIMITED
3911	48754	AWAL INDIA IMPEX PRIVATE LIMITED
3912	48757	CHENNAI EXIM PRIVATE LIMITED
3913	48760	NOOTHALSS PLUS CARDS PRIVATE LIMITED
3914	48768	SRI SORNAM CHITS PRIVATE LIMITED
3915	48770	APPAR IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
3916	48771	JOY ESTATES PRIVATE LIMITED
3917	48777	CLASSIC ADHESIVE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3918	48780	AKASH GANGA APPAREL MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
3919	48790	ADHITHI MANAGEMENT AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3920	48792	ZION INFOTECH PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3921	48795	MINING SOFT PRIVATE LIMITED
3922	48796	A P N MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
3923	48798	LIFE TELEVISION INDIA PRIVATE LIMITED
3924	48801	CROSSWORLD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3925	48805	N V S AUTOMOBILE SERVICES PRIVATE LIMITED
3926	48806	BOOK MASTER PUBLISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
3927	48811	BODY AND SENS FITNESS PRIVATE LIMITED
3928	48812	BARRA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3929	48818	ROYAL DESIGNER PRIVATE LIMITED
3930	48825	MALLIGAI HOME NEEDS AND SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
3931	48836	PRESAN MEDICARE PRIVATE LIMITED
3932	48837	MCQUE MEDIA MAX PRIVATE LIMITED
3933	48842	UNICOMP SOFTWARE (INIDA) PRIVATE LIMITED
3934	48867	ANNAMALAI LAKSHMI MUDALIAR HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3935	48869	LAKYA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3936	48877	SAKIS FOOD & KIDS WDRLD PRIVATE LIMITED
3937	48879	HIGHLAND SPRINGS FOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
3938	48880	DANAL INDUSTRIAL TOOL PRIVATE LIMITED
3939	48882	RV COURIERS PRIVATE LIMITED
3940	48883	PRIMUS PRECISION MARKETING PRIVATE LIMITED
3941	48888	POWERMINDS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3942	48893	KARNAVATI KITCHENS AND BEDROOM SUITE PRIVATE LIMITED
3943	48897	DUSTARA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3944	48905	DASARI DIGITAL STUDIO PRIVATE LIMITED
3945	48912	MAJJ TRADERS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
3946	48914	PRO-LINE TRADE VENTURE PRIVATE LIMITED
3947	48928	SRI ARUNA RESIN & CEMIKAL PRIVATE LIMITED
3948	48932	CDRAMANDEL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
3949	48935	NETEL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3950	48983	TELIC.NET INDIA PRIVATE LIMITED
3951	48989	R.S.R.P. SEA FOODS PRIVATE LIMITED
3952	48990	AASSAAN EDUCARE PRIVATE LIMITED
3953	48997	PARVATHI FOODS PRIVATE LIMITED
3954	48999	KAUMAARAM CLOTHINGS PRIVATE LIMITED
3955	49001	LUCKY JEWELS PRIVATE LIMITED
3956	49009	ACCENT SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3957	49011	FIDELITY METACHEM PRIVATE LIMITED
3958	49017	COGITATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3959	49019	YOU-NIQUE INFOWARE PRIVATE LIMITED
3960	49020	SUN STOCKS AND SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
3961	49023	ROXBURGH-DEVARAJ ESTATES PRIVATE LIMITED
3962	49027	TIMMY'SNET SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3963	49031	INNOWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3964	49032	ALTO SOFT PRIVATE LIMITED
3965	49033	CASPIAN WATER (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
3966	49034	TOUCHTEK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3967	49036	PRIME HANGERS PRIVATE LIMITED
3968	49040	NLP EXIM PRIVATE LIMITED
3969	49041	SRI KARTHIKEYAN INFOTECH PRIVATE LIMITED
3970	49047	GOVANNA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
3971	49050	GOODWILL POLYMERS PRIVATE LIMITED
3972	49054	SUNWAYES SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3973	49056	EDEN AGRICULTURE AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
3974	49058	EMICO SOFT PRIVATE LIMITED
3975	49062	ORIENT GREEN COIR EXPORTS PRIVATE LIMITED
3976	49068	MALLIND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
3977	49070	ASIAN MONEY REMITTANCES PRIVATE LIMITED
3978	49072	MCCOY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3979	49080	HIMAALAYA FILMS PRIVATE LIMITED
3980	49086	U WIN MARKETING PRIVATE LIMITED
3981	49088	SRI RASI IMPEX PRIVATE LIMITED
3982	49093	SKYLIMIT MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
3983	49094	CAPMARK ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
3984	49105	SVE POWER PRIVATE LIMITED
3985	49108	RUPKALI EXPORTS PRIVATE LIMITED
3986	49112	RPN SURFACE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3987	49113	DAULATH EXPORT PRIVATE LIMITED
3988	49131	LDG WINDFARMS PRIVATE LIMITED
3989	49134	EVERGREEN HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
3990	49135	BANDI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3991	49137	JAGA VEERA EXPORTS PRIVATE LIMITED
3992	49144	PRDDIGY MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
3993	49147	L.N. BIOMETRIC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
3994	49148	HO-CARE MARKETING PRIVATE LIMITED
3995	49165	S.I.S. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3996	49171	THYRO LABS INDIA PRIVATE LIMITED
3997	49173	T.S. LEATHERS PRIVATE LIMITED
3998	49174	S.G.S. POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
3999	49175	ENRICHER WEALTH MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
4000	49190	TRIPLE DOTS IMAGES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
4001	49198	INDUS VALLEY EDUCATION PRIVATE LIMITED
4002	49203	O NILA AMUSEMENT PARK PRIVATE LIMITED
4003	49206	TEJAS RENEWABLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4004	49209	AMERICAN WOOD COMPANY PRIVATE LIMITED
4005	49214	TREFOIL MARKETING PRIVATE LIMITED
4006	49228	DIGICON INSTRUMENTS AND POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4007	49233	V.B.M. ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
4008	49237	TEAM TEN SERVICES PRIVATE LIMITED
4009	49240	MEGAASTAR NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
4010	49242	AMETHYST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4011	49246	FLINT SECURITY FORCE PRIVATE LIMITED
4012	49253	MUTHAMIZH INFOTECH PRIVATE LIMITED
4013	49255	TWENTY FIRST CENTURY BIO-TECH INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
4014	49259	SGDC INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4015	49266	VINAYAK IMPRESSIONS PRIVATE LIMITED
4016	49269	N.N.B. STEELS PRIVATE LIMITED
4017	49270	ALFEE HERBALCURE PRIVATE LIMITED
4018	49272	HOTEL LE-MOUNT PRIVATE LIMITED
4019	49273	UNI-LOGISTICS LINE PRIVATE LIMITED
4020	49278	OVAL PARK AGRO TECH AND FOODS PRIVATE LIMITED
4021	49279	TELE SOUTH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
4022	49280	QUANTUS INFOSOFT PRIVATE LIMITED
4023	49285	THILLOTHEMA FARMS PRIVATE LIMITED
4024	49286	ZION REMEDIES PRIVATE LIMITED
4025	49289	FAMILY CARE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
4026	49294	E3 DIGITAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4027	49295	SRI MOOKAMBIGA EXPORTS PRIVATE LIMITED
4028	49301	ADHVIKA IT SERVICES PRIVATE LIMITED
4029	49304	SRI AMMAN AGRO TECH FARM PRIVATE LIMITED
4030	49305	THAS INFO SOLUTION PRIVATE LIMITED
4031	49306	MP INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
4032	49309	VALARR MARKETING PRIVATE LIMITED
4033	49310	MADRAS CAFE (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
4034	49315	BASE4BRAINS INFOTECH PRIVATE LIMITED
4035	49316	W - ONE SECURITIES PRIVATE LIMITED
4036	49318	NAMBIS IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
4037	49320	SHABU CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4038	49322	FIDA ENGINEERING & TECHNICAL CONSULTING PRIVATE LIMITED
4039	49324	PRECISE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4040	49325	NAVEEN PAPERX PRIVATE LIMITED


S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
4041	49326	HILTON RESEARCH & TRAINING INSTITUTE
4042	49330	CROZIER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4043	49331	J.P. BUILDERS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
4044	49332	SEPP ENGINEERING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
4045	49336	HARESHVAR I.T. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4046	49339	T.T.ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
4047	49345	ALIKAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4048	49359	MURUGAN HI-TECH AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
4049	49365	HARJUN HOME DELIVERS PRIVATE LIMITED
4050	49376	MILLENIUM SPORTS NUTRITION PRIVATE LIMITED
4051	49377	MANGAI OFFICE NEEDS PRIVATE LIMITED
4052	49387	APEX SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
4053	49388	S.G.K. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4054	49400	TERRA FIRMA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
4055	49406	ALmix Asphalt Equipment (India) PRIVATE LIMITED
4056	49408	GENESIS EYE CARE PRIVATE LIMITED
4057	49413	INFINITE FLORA PRIVATE LIMITED
4058	49415	CAPITAL IMPRINTS PRIVATE LIMITED
4059	49429	AVIGHNA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
4060	49431	JEEVARATHNAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
4061	49435	ZULU STAR IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
4062	49439	REFORM AQUA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4063	49441	MENANG TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
4064	49443	MEENAKSHI MEDICAL SERVICES LIMITED
4065	49444	ANGLO SEAS CARGO PRIVATE LIMITED
4066	49449	MOOVENDER VISIONS LIMITED
4067	49457	MAHAJANAM.COM PRIVATE LIMITED
4068	49458	ACHILLES EXPORTS PRIVATE LIMITED
4069	49459	MONARO INDIA SECURITY PRIVATE LIMITED
4070	49466	KENNY BIOMED PRIVATE LIMITED
4071	49467	MAPLE THOUGHTS PRIVATE LIMITED
4072	49471	RAVEE BIOLOGICAL PRIVATE LIMITED
4073	49480	VIRGO AGRO AND ALLIED FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
4074	49491	INDUS INFONET PRIVATE LIMITED
4075	49492	CROYDON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
4076	49494	GREEN FORCE ECO SERVICES PRIVATE LIMITED
4077	49507	ITTEGRA INFOTEL PRIVATE LIMITED
4078	49509	SHAKTI INSTRUMENTS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4079	49527	BARATHMAS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
4080	49528	LOGIC INSIGHTS SOFTWARE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
4081	49530	SUNSTREAM CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
4082	49532	MKDATTA BRIDGEWAY AGROVET PRIVATE LIMITED
4083	49534	ARAM MENPORULAGAM PRIVATE LIMITED
4084	49535	AIRSHINE EXIM PRIVATE LIMITED
4085	49551	MERIT GUEST HOUSE PRIVATE LIMITED
4086	49558	G NEXT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4087	49561	PI SQUARED CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
4088	49575	STANDARD ROADS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
4089	49580	OSMIA SOFT PRIVATE LIMITED
4090	49591	WISCOR TRADING PRIVATE LIMITED
4091	49603	RSR ANTIQUE EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
4092	49605	PELITA NASI KANDAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
4093	49606	V-TEAM MARKETING PRIVATE LIMITED
4094	49610	SHRI AMRITA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
4095	49616	SINGAPORE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
4096	49621	PANAMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
4097	49623	MATHIVANAN PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
4098	49624	MEENAKSHI EXPORTS (VELLORE) PRIVATE LIMITED
4099	49628	THIRUVANCORE RAJA VAIDYA SALAI PRIVATE LIMITED
4100	49639	JSR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4101	49643	JERICO TRADERS PRIVATE LIMITED
4102	49652	SKTS CONSULTANCY (INDIA) PRIVATE LIMITED
4103	49657	ORANGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4104	49660	MCT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4105	49664	LANCER SECURITY & ALLIED SERVICES (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
4106	49667	V STAR FILMS PRIVATE LIMITED
4107	49669	GREEN AGRO MARKETING PRIVATE LIMITED
4108	49670	RAPIAH RECRUITMENT AGENCY PRIVATE LIMITED
4109	49674	SINGAPORE COURIERS PRIVATE LIMITED
4110	49680	ST.ABRAHAM AGRO PROMOTERS PRIVATE LIMITED
4111	49689	SRI AMMAN SOFTWARES PRIVATE LIMITED
4112	49700	HUA TONG SEAFOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED
4113	49701	BB CUSTOMER SUPPORT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4114	49702	KATARI IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
4115	49709	ARNCO INDIA PRIVATE LIMITED
4116	49711	SRIPAL GOLD PRIVATE LIMITED
4117	49712	OSHO FILMS PRIVATE LIMITED
4118	49715	LEXLS EXCAVATORS PRIVATE LIMITED
4119	49717	EDIFICE INFORMATION AND TECHNICAL SERVICES PRIVATE LTD
4120	49723	UDAY RECONDITIONERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
4121	49726	CAPRA LEATHERS PRIVATE LIMITED
4122	49734	CHENNAI LAANKEMY PRIVATE LIMITED
4123	49745	ELOOK FAIRS PRIVATE LIMITED
4124	49753	KUMAR NETWORK PRIVATE LIMITED
4125	49754	SHUBH INFO PRIVATE LIMITED
4126	49755	CHENNAI NMRI SCANS PRIVATE LIMITED
4127	49756	DB TECHNO HR PRIVATE LIMITED
4128	49759	SYSTRAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4129	49770	PATTERN INDIA PRIVATE LIMITED
4130	49771	KAYS INFORMATICS PRIVATE LIMITED
4131	49777	MICRO CARE MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4132	49781	SAM PELLE PRIVATE LIMITED
4133	49791	J.K. EXPO PRIVATE LIMITED
4134	49792	SELTECH SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4135	49797	OMEGA BIO HEALTHCARE MARKETING PRIVATE LIMITED
4136	49813	ARAKKAL POWER COMPANY PRIVATE LIMITED
4137	49821	M G M STONE CRUSHERS PRIVATE LIMITED
4138	49825	S J AUDIO PEOPLE PRIVATE LIMITED
4139	49833	SRI MUPPATHAMMAN MULTIMARKETING PRIVATE LIMITED
4140	49838	BEANSTALK ADVERTISING PRIVATE LIMITED
4141	49843	ADEN (INDIA) APPLIANCE PRIVATE LIMITED
4142	49860	BALAJI KNOWLEDGE HOUSE PRIVATE LIMITED
4143	49865	PATIN INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
4144	49869	ESTUARY ISLANDS PRIVATE LIMITED
4145	49872	JANAVI MEDISCRIBES PRIVATE LIMITED
4146	49874	VIGNESH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
4147	49879	SAI KIRANN BUILDERS & PROMOTERS PRIVATE LIMITED
4148	49883	BUSINESS LEADER (INDIA) PRIVATE LIMITED
4149	49885	NINE STAR SHIPPING PRIVATE LIMITED
4150	49888	POLLUX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4151	49897	MENTARI HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
4152	49911	HEPTAGON CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
4153	49914	MYLAI TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
4154	49921	BHAGYA REKHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
4155	49931	VNEW SOFTWARE PRIVATE LIMITED
4156	49933	INFRAEYE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4157	49942	GAMA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
4158	49953	REYHAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4159	49955	RAPIDO SOFTECH PRIVATE LIMITED
4160	49957	SWARNALAKSHMI BIOTECH PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
4161	49963	VSE GOLD HOUSE PRIVATE LIMITED
4162	49970	I-PHONE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
4163	49971	NANNDHA TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
4164	49978	NIMI MARKETING PRIVATE LIMITED
4165	49985	NITHYA AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
4166	49999	S & K CONCENTRIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4167	50000	RADRASAANO IMPEX PRIVATE LIMITED
4168	50001	PACK VISION PRIVATE LIMITED
4169	50006	J K S COMPUTERS PRIVATE LIMITED
4170	50019	BLOSSOM HORT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
4171	50025	SAI SAKTHI KRUPA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
4172	50027	VISTA POLYPRODUCTS AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
4173	50028	FUSE TIME APPAREL MACHINERY PRIVATE LIMITED
4174	50030	SHRI SELVAMBIGAI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
4175	50031	JG SUNRISE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4176	50032	TRRIG SOFTWARE PRIVATE LIMITED
4177	50033	LSNC IMPEX NETWORK PRIVATE LIMITED
4178	50034	AIKIWAY ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
4179	50036	CHENNAI SCANS AND LABS PRIVATE LIMITED
4180	50037	TRANSIM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4181	50049	RITE GUARDS SECURITY PRIVATE LIMITED
4182	50050	ANTRON EXPRESS PRIVATE LIMITED
4183	50051	VEDHA QUALITY FOODS PRIVATE LIMITED
4184	50052	VINUSHA CONTAINER LINE PRIVATE LIMITED
4185	50053	AGNI CREATORS PRIVATE LIMITED
4186	50054	SALIYA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
4187	50056	AMUDHAM DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
4188	50060	DOVE & BLOSSOMS VOYAGES PRIVATE LIMITED
4189	50061	PROTELA TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4190	50064	CMI SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
4191	50065	M C S IMPEX PRIVATE LIMITED
4192	50066	U CAN CONSUMER NETWORK PRIVATE LIMITED
4193	50071	REXYCO TRADING PRIVATE LIMITED
4194	50077	H & R STEEL DETAILING PRIVATE LIMITED
4195	50080	EMERALD APPARELS PRIVATE LIMITED
4196	50090	WU-WEI INTEGRATED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4197	50094	ELDORADO IT ENABLED SERVICES PRIVATE LIMITED
4198	50095	SRI VIJAYA MARUTHI EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
4199	50096	SGS CREDITS PRIVATE LIMITED
4200	50101	NEEBERN EXPORT PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
4201	50109	CASTOR & POLLUX PRIVATE LIMITED
4202	50114	SRI KAYESAR SPINNERS PRIVATE LIMITED
4203	50118	BALAA NANDH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
4204	50119	MOKYA IMPEX PRIVATE LIMITED
4205	50120	SIL INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4206	50124	KINI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4207	50125	MOLDO EXPORTS PRIVATE LIMITED


(D SURYA NARAYANA)
ASST REGISTRAR OF COMPANIES
TAMILNADU, CHENNAI